



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3486]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 2018/भाद्र 14, 1940

No. 3486]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2018/BHADRA 14, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2018

का. आ. 4299(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले में NH148N के कि.मी. 84.84 से कि.मी. 113.6 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतामऊ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले में NH148N के कि.मी. 84.84 से कि.मी. 113.6 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: मन्दसौर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सीतामऊ					
गांव का नाम: बरदावदी					
1	100	निजी	कृषि	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
2	101	निजी	कृषि	0.82 (हेक्टेयर)	0.82
3	115 min1	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
4	115/min 3	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
5	115/min 4	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
6	115/min 5	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
7	115/min2/min1	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
8	115/min2/min2	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
9	115/min2/min3	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
10	116	सरकारी	पडत कदीम	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
11	117	निजी	कृषि	0.89 (हेक्टेयर)	0.89
12	177	सरकारी	रास्ता	0.56 (हेक्टेयर)	0.56
13	180	सरकारी	रास्ता	0.128 (हेक्टेयर)	0.128
14	186	निजी	कृषि	1.35 (हेक्टेयर)	1.35
15	189	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
16	190/1	निजी	कृषि	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
17	190/2	निजी	कृषि	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
18	191	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
19	192	सरकारी	रास्ता	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
20	193	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
21	194	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08

22	195	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
23	196	निजी	कृषि	1.58 (हेक्टेयर)	1.58
24	197	निजी	कृषि	0.99 (हेक्टेयर)	0.99
25	198	निजी	कृषि	1.62 (हेक्टेयर)	1.62
26	199	निजी	कृषि	1.16 (हेक्टेयर)	1.16
27	200	निजी	अकृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
28	201	निजी	कृषि	1.6 (हेक्टेयर)	1.6
29	202	निजी	कृषि	0.47 (हेक्टेयर)	0.47
30	203/1	निजी	कृषि	0.77 (हेक्टेयर)	0.77
31	203/2	निजी	कृषि	0.77 (हेक्टेयर)	0.77
32	204	निजी	कृषि	1.55 (हेक्टेयर)	1.55
33	213	निजी	कृषि	3.36 (हेक्टेयर)	3.36
34	214	निजी	कृषि	1.91 (हेक्टेयर)	1.91
35	215 min 2	निजी	कृषि	0.96 (हेक्टेयर)	0.96
36	215 min1	निजी	कृषि	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
37	216	सरकारी	रास्ता	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
38	54/2/min 3	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
39	54/min 1	निजी	कृषि	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
40	54/min2/min 1	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
41	54/min2/min2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
42	55	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
43	56	निजी	कृषि	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
44	59	निजी	कृषि	0.47 (हेक्टेयर)	0.47
45	60	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
46	61	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
47	62	निजी	कृषि	0.47 (हेक्टेयर)	0.47
48	63	निजी	कृषि	0.47 (हेक्टेयर)	0.47
49	64	निजी	कृषि	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
50	65	निजी	कृषि	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
51	66	निजी	कृषि	0.28 (हेक्टेयर)	0.28

52	67	निजी	कृषि	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
53	68	निजी	कृषि	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
54	69	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
55	74	निजी	कृषि	0.63 (हेक्टेयर)	0.63
56	75/1 min 1	निजी	कृषि	0.56 (हेक्टेयर)	0.56
57	75/1 min 2	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
58	75/2	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
59	75/3	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
60	76	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
61	77/1	निजी	कृषि	0.63 (हेक्टेयर)	0.63
62	77/2	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
63	77/3	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
64	77/4	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
65	78	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
66	81/min-1	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
67	81/min-2/min-1	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
68	81/min-3	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
69	81/min-4	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
70	83/min 1	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
71	83/min 2/min 1	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
72	83/min 2/min 2	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
73	83/min 2/min 3	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
74	83/min 3	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
75	83/min 4	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
76	83/min 5	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
77	84/1	निजी	कृषि	0.56 (हेक्टेयर)	0.56
78	84/2	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
79	84/3	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
80	85	निजी	कृषि	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
81	86	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3

82	87/1	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
83	87/2	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
84	88	सरकारी	गैर मुमकिन	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
85	89/1	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
86	89/2	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
87	90/1	निजी	कृषि	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
88	90/2	निजी	कृषि	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
89	91	निजी	कृषि	1.23 (हेक्टेयर)	1.23
90	92/1	निजी	कृषि	0.63 (हेक्टेयर)	0.63
91	92/2	निजी	कृषि	0.62 (हेक्टेयर)	0.62
92	93	निजी	कृषि	1.18 (हेक्टेयर)	1.18
93	94	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
94	95/1	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
95	95/2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
96	96	सरकारी	सेडा	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
97	97	सरकारी	गैर मुमकिन	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
98	98	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
99	99	सरकारी	रास्ता	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
गांव का नाम: बेलारी					
1	100	निजी	कृषि	1.02 (हेक्टेयर)	1.02
2	101	सरकारी	सेडा	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
3	102	निजी	कृषि	0.86 (हेक्टेयर)	0.86
4	103	निजी	कृषि	1.28 (हेक्टेयर)	1.28
5	104	निजी	कृषि	1.43 (हेक्टेयर)	1.43
6	105	निजी	अकृषि	0.46 (हेक्टेयर)	0.46
7	105	निजी	कृषि	0.46 (हेक्टेयर)	0.46
8	106	निजी	कृषि	0.69 (हेक्टेयर)	0.69
9	110	सरकारी	रास्ता	0.61 (हेक्टेयर)	0.61
10	111	निजी	अकृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
11	116	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5

12	117	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
13	118	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
14	119	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
15	120	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
16	121	निजी	कृषि	0.81 (हेक्टेयर)	0.81
17	122	निजी	कृषि	1.13 (हेक्टेयर)	1.13
18	123/min 1	निजी	कृषि	0.65 (हेक्टेयर)	0.65
19	123/min 2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
20	125	निजी	कृषि	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
21	132	निजी	कृषि	1.74 (हेक्टेयर)	1.74
22	133	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
23	134	सरकारी	चारनोई	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
24	135/min 1	निजी	कृषि	1.67 (हेक्टेयर)	1.67
25	135/min 2	निजी	कृषि	1.68 (हेक्टेयर)	1.68
26	136	निजी	कृषि	2.09 (हेक्टेयर)	2.09
27	137	निजी	कृषि	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
28	138	निजी	कृषि	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
29	139	निजी	कृषि	0.84 (हेक्टेयर)	0.84
30	140	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
31	141	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
32	154/min 1	निजी	कृषि	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
33	154/min 2	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
34	155	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
35	156	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
36	157	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
37	158	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
38	159	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
39	160	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
40	161	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
41	162	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5

42	163	निजी	गैर-कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
43	164	सरकारी	चारनोई	2.04 (हेक्टेयर)	2.04
44	165	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
45	166	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
46	170	निजी	कृषि	3.14 (हेक्टेयर)	3.14
47	174	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
48	175	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
49	176	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
50	177	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
51	178	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
52	179	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
53	180	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
54	181	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
55	182	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
56	183	सरकारी	चारनोई	1.95 (हेक्टेयर)	1.95
57	186	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
58	187	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
59	189	सरकारी	चंबल नदी	21.3 (हेक्टेयर)	21.3
60	323	सरकारी	चारनोई	10.08 (हेक्टेयर)	10.08
61	369	सरकारी	रास्ता	2.43 (हेक्टेयर)	2.43
62	39	निजी	कृषि	1.14 (हेक्टेयर)	1.14
63	40	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
64	41	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
65	42	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
66	43	सरकारी	चारनोई	0.78 (हेक्टेयर)	0.78
67	44	निजी	कृषि	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
68	45	निजी	कृषि	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
69	450	निजी	कृषि	1.12 (हेक्टेयर)	1.12
70	454	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
71	455	निजी	कृषि	0.61 (हेक्टेयर)	0.61

72	456	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
73	457	निजी	कृषि	0.88 (हेक्टेयर)	0.88
74	459	निजी	कृषि	0.91 (हेक्टेयर)	0.91
75	46	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
76	460	निजी	कृषि	0.92 (हेक्टेयर)	0.92
77	461	निजी	कृषि	0.92 (हेक्टेयर)	0.92
78	462	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
79	463	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
80	465	सरकारी	रास्ता	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
81	466	निजी	कृषि	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
82	467	निजी	कृषि	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
83	468	निजी	कृषि	1.6 (हेक्टेयर)	1.6
84	469	निजी	कृषि	0.43 (हेक्टेयर)	0.43
85	47	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
86	470	निजी	कृषि	0.72 (हेक्टेयर)	0.72
87	471	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
88	472	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
89	473	सरकारी	चारनोई	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
90	476	निजी	गैर-कृषि	2.27 (हेक्टेयर)	2.27
91	477	निजी	कृषि	1.42 (हेक्टेयर)	1.42
92	478	निजी	कृषि	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
93	50	निजी	कृषि	1.25 (हेक्टेयर)	1.25
94	503	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
95	504	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
96	505	निजी	कृषि	2.02 (हेक्टेयर)	2.02
97	507	सरकारी	सड़क	4.68 (हेक्टेयर)	4.68
98	508	निजी	गैर-कृषि	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
99	509	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
100	510	निजी	कृषि	0.51 (हेक्टेयर)	0.51
101	511	निजी	कृषि	0.71 (हेक्टेयर)	0.71

102	512	निजी	कृषि	0.83 (हेक्टेयर)	0.83
103	513	निजी	कृषि	0.83 (हेक्टेयर)	0.83
104	514	निजी	कृषि	0.83 (हेक्टेयर)	0.83
105	515	निजी	कृषि	0.83 (हेक्टेयर)	0.83
106	54	निजी	कृषि	0.73 (हेक्टेयर)	0.73
107	97	निजी	कृषि	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
108	98	निजी	कृषि	0.75 (हेक्टेयर)	0.75
109	99	निजी	कृषि	0.75 (हेक्टेयर)	0.75
गांव का नाम: भुवानगढ					
1	10	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
2	166/min 1	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
3	166/min 2	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
4	166/min 3	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
5	166/min 4	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
6	167	निजी	कृषि	1.05 (हेक्टेयर)	1.05
7	168	सरकारी	चारनोई	0.61 (हेक्टेयर)	0.61
8	169	निजी	कृषि	0.73 (हेक्टेयर)	0.73
9	170/min 1	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
10	170/min 2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
11	170/min 3	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
12	186	निजी	कृषि	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
13	187	निजी	कृषि	0.61 (हेक्टेयर)	0.61
14	188	निजी	कृषि	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
15	189	निजी	कृषि	0.93 (हेक्टेयर)	0.93
16	190	निजी	कृषि	0.51 (हेक्टेयर)	0.51
17	191	निजी	कृषि	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
18	192	निजी	कृषि	0.57 (हेक्टेयर)	0.57
19	193	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
20	194	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
21	195	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21

22	196	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
23	197	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
24	2	निजी	कृषि	0.302 (हेक्टेयर)	0.302
25	26/min 1	निजी	कृषि	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
26	26/min 2	निजी	कृषि	0.37 (हेक्टेयर)	0.37
27	27	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
28	28	निजी	कृषि	0.83 (हेक्टेयर)	0.83
29	29	निजी	कृषि	0.73 (हेक्टेयर)	0.73
30	30	निजी	कृषि	0.33 (हेक्टेयर)	0.33
31	311	निजी	कृषि	0.75 (हेक्टेयर)	0.75
32	312	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
33	313	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
34	314	निजी	कृषि	0.75 (हेक्टेयर)	0.75
35	315	निजी	कृषि	1.55 (हेक्टेयर)	1.55
36	316	निजी	कृषि	1.34 (हेक्टेयर)	1.34
37	317	निजी	कृषि	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
38	318	निजी	कृषि	1.38 (हेक्टेयर)	1.38
39	320	निजी	कृषि	2.1 (हेक्टेयर)	2.1
40	321	निजी	कृषि	1.3 (हेक्टेयर)	1.3
41	322	निजी	कृषि	1.21 (हेक्टेयर)	1.21
42	324/min 1	निजी	कृषि	1.58 (हेक्टेयर)	1.58
43	324/min 2	निजी	कृषि	0.79 (हेक्टेयर)	0.79
44	325	निजी	कृषि	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
45	326	निजी	कृषि	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
46	327	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
47	328	निजी	कृषि	0.44 (हेक्टेयर)	0.44
48	329	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
49	332	निजी	कृषि	0.83 (हेक्टेयर)	0.83
50	335	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
51	336	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26

52	337	निजी	कृषि	0.57 (हेक्टेयर)	0.57
53	339	निजी	कृषि	1.37 (हेक्टेयर)	1.37
54	4	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
55	48	निजी	कृषि	0.66 (हेक्टेयर)	0.66
56	5	निजी	कृषि	0.51 (हेक्टेयर)	0.51
57	51	निजी	कृषि	0.84 (हेक्टेयर)	0.84
58	52	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
59	53	निजी	कृषि	1.13 (हेक्टेयर)	1.13
60	54	निजी	कृषि	1.51 (हेक्टेयर)	1.51
61	55/min 1	निजी	कृषि	0.92 (हेक्टेयर)	0.92
62	55/min 2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
63	56	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
64	57	निजी	कृषि	1.36 (हेक्टेयर)	1.36
65	58/min 1	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
66	58/min 2	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
67	59	निजी	कृषि	0.85 (हेक्टेयर)	0.85
68	6	निजी	कृषि	2.25 (हेक्टेयर)	2.25
69	60	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
70	61	निजी	कृषि	0.98 (हेक्टेयर)	0.98
71	62	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
72	63	निजी	कृषि	0.99 (हेक्टेयर)	0.99
73	64	निजी	कृषि	1.07 (हेक्टेयर)	1.07
74	65	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
75	7	निजी	कृषि	1.16 (हेक्टेयर)	1.16
76	8	निजी	कृषि	0.97 (हेक्टेयर)	0.97
77	9	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
78	99	सरकारी	रास्ता	2.48 (हेक्टेयर)	2.48
गांव का नाम: चाहखेडी					
1	722	निजी	कृषि	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
2	723	सरकारी	चारनोई	0.57 (हेक्टेयर)	0.57

3	724	निजी	कृषि	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
4	725	निजी	कृषि	1.2 (हेक्टेयर)	1.2
5	733	निजी	कृषि	1.07 (हेक्टेयर)	1.07
6	734	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
7	734/812	निजी	कृषि	0.79 (हेक्टेयर)	0.79
8	735	निजी	कृषि	1.6 (हेक्टेयर)	1.6
9	744	निजी	कृषि	0.82 (हेक्टेयर)	0.82
10	746/min 1	निजी	कृषि	1.19 (हेक्टेयर)	1.19
11	746/min 2	निजी	कृषि	1.18 (हेक्टेयर)	1.18
12	747	सरकारी	चारनोई	0.71 (हेक्टेयर)	0.71
गांव का नाम: छत्रपुरा					
1	1	निजी	कृषि	1.69 (हेक्टेयर)	1.69
2	185	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
3	186	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
4	189/min 1	निजी	कृषि	0.71 (हेक्टेयर)	0.71
5	189/min 2	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
6	190/1/1	निजी	गैर-कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
7	190/1/2	निजी	गैर-कृषि	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
8	190/2	निजी	गैर-कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
9	191	सरकारी	रास्ता	0.7 (हेक्टेयर)	0.7
10	192	निजी	कृषि	0.78 (हेक्टेयर)	0.78
11	193	निजी	गैर-कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
12	194	निजी	गैर-कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
13	195	निजी	गैर-कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
14	196	निजी	गैर-कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
15	197	निजी	गैर-कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
16	198	निजी	कृषि	0.78 (हेक्टेयर)	0.78
17	2	सरकारी	रास्ता	0.84 (हेक्टेयर)	0.84
18	201	निजी	कृषि	0.65 (हेक्टेयर)	0.65
19	202	निजी	कृषि	1.82 (हेक्टेयर)	1.82

20	203	निजी	गैर-कृषि	0.93 (हेक्टेयर)	0.93
21	204	सरकारी	रास्ता	0.92 (हेक्टेयर)	0.92
22	205	निजी	गैर-कृषि	0.65 (हेक्टेयर)	0.65
23	206/1	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
24	207	निजी	कृषि	1.21 (हेक्टेयर)	1.21
25	208	निजी	कृषि	2.05 (हेक्टेयर)	2.05
26	209	सरकारी	कंकड़	0.65 (हेक्टेयर)	0.65
27	210	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
28	211	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
29	212	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
30	213	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
31	214/1	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
32	214/2	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
33	215/min 1	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
34	215/min 2/min 1	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
35	215/min 2/min 2	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
36	3/1	निजी	कृषि	1.03 (हेक्टेयर)	1.03
37	3/2	निजी	कृषि	0.43 (हेक्टेयर)	0.43
38	3/3	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
39	329	सरकारी	नाला	0.75 (हेक्टेयर)	0.75
40	342 / min 1	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
41	342/min 2	सरकारी(जल संसाधन विभाग)	डब	1.21 (हेक्टेयर)	1.21
42	344	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
43	40/1	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
44	40/2	निजी	कृषि	1.23 (हेक्टेयर)	1.23
45	41	निजी	कृषि	0.97 (हेक्टेयर)	0.97
46	42	निजी	कृषि	1.37 (हेक्टेयर)	1.37
47	43	निजी	कृषि	0.81 (हेक्टेयर)	0.81
48	45/min 1	निजी	गैर-कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11

49	45/min 2/min 2	निजी	गैर-कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
50	45/min 2/min 1	निजी	गैर-कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
51	46	निजी	कृषि	2.1 (हेक्टेयर)	2.1
52	47	निजी	कृषि	1.47 (हेक्टेयर)	1.47
53	48/1	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
54	48/2	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
55	50/1	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
56	50/2	निजी	कृषि	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
57	50/3/1	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
58	50/3/2	निजी	कृषि	1.4 (हेक्टेयर)	1.4
59	51	निजी	कृषि	0.44 (हेक्टेयर)	0.44
60	52	निजी	कृषि	0.44 (हेक्टेयर)	0.44
61	53	निजी	कृषि	0.64 (हेक्टेयर)	0.64
62	54	निजी	कृषि	0.58 (हेक्टेयर)	0.58
63	55	निजी	कृषि	0.48 (हेक्टेयर)	0.48
64	63	निजी	कृषि	3.21 (हेक्टेयर)	3.21
65	64	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
66	65/1	निजी	कृषि	0.51 (हेक्टेयर)	0.51
67	65/2	निजी	कृषि	1.61 (हेक्टेयर)	1.61
68	66	निजी	कृषि	1.54 (हेक्टेयर)	1.54
69	67/1	निजी	कृषि	0.53 (हेक्टेयर)	0.53
70	67/2	निजी	कृषि	0.94 (हेक्टेयर)	0.94
71	68	सरकारी	मंदिर	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
72	69	सरकारी	मंदिर	1.78 (हेक्टेयर)	1.78
73	70	निजी	कृषि	0.68 (हेक्टेयर)	0.68
74	71/1	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
75	71/2/min 1	निजी	कृषि	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
76	71/2/min 2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
77	72	निजी	कृषि	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
78	73/1/min 1	निजी	कृषि	0.56 (हेक्टेयर)	0.56

79	73/1/min 2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
80	73/2	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
81	74	सरकारी	कंकड़	0.48 (हेक्टेयर)	0.48
82	75	निजी	कृषि	0.62 (हेक्टेयर)	0.62
83	80	निजी	कृषि	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
84	81	निजी	कृषि	2.19 (हेक्टेयर)	2.19
गांव का नाम: दलावदा					
1	1242/1	सरकारी	चारनोई	1.22 (हेक्टेयर)	1.22
2	1242/2	निजी	कृषि	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
3	1287/1	सरकारी	चारनोई	1.1 (हेक्टेयर)	1.1
4	1287/2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
5	1290	सरकारी	कंकड़	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
6	1291/1	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
7	1291/2	निजी	कृषि	0.58 (हेक्टेयर)	0.58
8	1292	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
9	1293	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
10	1294	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
11	1295	निजी	कृषि	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
12	1296	निजी	कृषि	0.97 (हेक्टेयर)	0.97
13	1297	निजी	कृषि	0.82 (हेक्टेयर)	0.82
14	1298	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
15	1301	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
16	1302	निजी	कृषि	0.65 (हेक्टेयर)	0.65
17	1303	निजी	कृषि	0.85 (हेक्टेयर)	0.85
18	1304	निजी	कृषि	0.58 (हेक्टेयर)	0.58
19	1305	सरकारी	चारनोई	0.63 (हेक्टेयर)	0.63
20	1306	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
21	1307	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
22	1308	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
23	1309/min 1	निजी	कृषि	1.44 (हेक्टेयर)	1.44

24	1309/min 2	निजी	कृषि	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
25	1310	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
26	1311	निजी	कृषि	1.5 (हेक्टेयर)	1.5
27	1312/1	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
28	1312/2	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
29	1313	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
30	1314	सरकारी	चारनोई	1.16 (हेक्टेयर)	1.16
31	1315	निजी	कृषि	2.32 (हेक्टेयर)	2.32
32	1316	निजी	कृषि	1.88 (हेक्टेयर)	1.88
33	1317	निजी	कृषि	1.35 (हेक्टेयर)	1.35
34	1320	सरकारी	रास्ता	0.89 (हेक्टेयर)	0.89
35	1323	निजी	कृषि	0.66 (हेक्टेयर)	0.66
36	1324	निजी	कृषि	0.66 (हेक्टेयर)	0.66
37	1325/1	सरकारी	रास्ता	1 (हेक्टेयर)	1
38	1325/10	सरकारी	गैर-काबिल कास्त	3.46 (हेक्टेयर)	3.46
39	1325/2	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
40	1325/3	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
41	1325/4	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
42	1325/5	सरकारी	रास्ता	0.45 (हेक्टेयर)	0.45
43	1325/6	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
44	1325/7	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
45	1325/8	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
46	1325/9	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
47	1326	निजी	कृषि	1.26 (हेक्टेयर)	1.26
48	1327	निजी	कृषि	1.15 (हेक्टेयर)	1.15
49	1328	निजी	कृषि	0.43 (हेक्टेयर)	0.43
50	1329	निजी	कृषि	0.43 (हेक्टेयर)	0.43
51	1330	निजी	कृषि	0.44 (हेक्टेयर)	0.44
52	1331	निजी	कृषि	2.48 (हेक्टेयर)	2.48
53	1332	निजी	कृषि	2.14 (हेक्टेयर)	2.14

54	1335	सरकारी	कंकड़	1.37 (हेक्टेयर)	1.37
55	483	सरकारी	चारनोई	8.04 (हेक्टेयर)	8.04
56	484	सरकारी	नाला	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
57	490/3,490/2	सरकारी	चारनोई	1.06 (हेक्टेयर)	1.06
58	490/4	सरकारी	चारनोई	1.06 (हेक्टेयर)	1.06
59	494	निजी	कृषि	1.8 (हेक्टेयर)	1.8
60	495/min 1	निजी	कृषि	1.28 (हेक्टेयर)	1.28
61	495/min 2	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
62	497	निजी	कृषि	0.91 (हेक्टेयर)	0.91
63	498	निजी	कृषि	0.78 (हेक्टेयर)	0.78
64	499	निजी	कृषि	0.75 (हेक्टेयर)	0.75
65	502	निजी	कृषि	2.27 (हेक्टेयर)	2.27
66	503	सरकारी	रास्ता	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
67	504/1/1	सरकारी	चारनोई	1.5 (हेक्टेयर)	1.5
68	504/1/2	सरकारी	चारनोई	2.6 (हेक्टेयर)	2.6
69	504/10	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
70	504/14	सरकारी	रास्ता	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
71	504/15	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
72	504/16	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
73	504/17	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
74	504/2	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
75	504/22	सरकारी	चारनोई	0.95 (हेक्टेयर)	0.95
76	504/23	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
77	504/24	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
78	504/25	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
79	504/26	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
80	504/27	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
81	504/3	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
82	504/4	सरकारी	चारनोई	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
83	504/6	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5

84	504/7	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
85	504/8	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
86	504/9	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
87	505	निजी	कृषि	0.87 (हेक्टेयर)	0.87
88	505/5	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
89	506/min 1	निजी	कृषि	0.65 (हेक्टेयर)	0.65
90	506/min 2	निजी	कृषि	0.65 (हेक्टेयर)	0.65
गांव का नाम: दलखेडी					
1	101	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
2	104	निजी	कृषि	0.88 (हेक्टेयर)	0.88
3	106/1	निजी	कृषि	0.46 (हेक्टेयर)	0.46
4	107	निजी	कृषि	0.81 (हेक्टेयर)	0.81
5	108	निजी	कृषि	0.79 (हेक्टेयर)	0.79
6	16	निजी	कृषि	0.98 (हेक्टेयर)	0.98
7	186	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
8	187	निजी	कृषि	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
9	188	निजी	कृषि	0.33 (हेक्टेयर)	0.33
10	189	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
11	190	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
12	191	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
13	192	निजी	कृषि	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
14	193	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
15	194	निजी	कृषि	0.86 (हेक्टेयर)	0.86
16	195	निजी	कृषि	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
17	20	सरकारी	नाला	0.65 (हेक्टेयर)	0.65
18	21	निजी	कृषि	0.45 (हेक्टेयर)	0.45
19	211	सरकारी	रास्ता	1.59 (हेक्टेयर)	1.59
20	212/1	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
21	212/2	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
22	22	निजी	कृषि	1.28 (हेक्टेयर)	1.28

23	221/1	निजी	कृषि	0.63 (हेक्टेयर)	0.63
24	222	सरकारी	सेडा	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
25	223	निजी	कृषि	0.95 (हेक्टेयर)	0.95
26	224	सरकारी	सेडा	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
27	225	निजी	कृषि	0.7 (हेक्टेयर)	0.7
28	226/min 1	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
29	226/min 2	निजी	कृषि	1.07 (हेक्टेयर)	1.07
30	227	सरकारी	सेडा	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
31	228	सरकारी	कंकड़	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
32	229/min 1	निजी	कृषि	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
33	229/min 2	निजी	कृषि	1.2 (हेक्टेयर)	1.2
34	23	निजी	कृषि	0.51 (हेक्टेयर)	0.51
35	230	सरकारी	मारगात	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
36	231	सरकारी	कंकड़	0.57 (हेक्टेयर)	0.57
37	232/1	निजी	कृषि	1.25 (हेक्टेयर)	1.25
38	232/2	निजी	कृषि	2.28 (हेक्टेयर)	2.28
39	232/3	निजी	कृषि	0.75 (हेक्टेयर)	0.75
40	237	निजी	कृषि	0.76 (हेक्टेयर)	0.76
41	25	निजी	कृषि	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
42	26	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
43	52	निजी	कृषि	0.57 (हेक्टेयर)	0.57
44	53	निजी	कृषि	1.79 (हेक्टेयर)	1.79
45	61	निजी	कृषि	1.67 (हेक्टेयर)	1.67
46	62	सरकारी	सेडा	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
47	63	निजी	कृषि	0.97 (हेक्टेयर)	0.97
48	64	सरकारी	सेडा	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
49	65	निजी	कृषि	1.02 (हेक्टेयर)	1.02
50	66	सरकारी	सेडा	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
51	67	निजी	कृषि	0.47 (हेक्टेयर)	0.47
52	68	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23

53	69	सरकारी	सेडा	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
54	70	सरकारी	पशु आराम कक्ष	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
55	71	सरकारी	गैर मुमकिन	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
56	72	सरकारी	चारनोई	1.58 (हेक्टेयर)	1.58
57	73	सरकारी	पीली मिट्टी खदान	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
58	74/10	सरकारी	भूमि	2 (हेक्टेयर)	2
59	74/11	सरकारी	रास्ता	0.56 (हेक्टेयर)	0.56
60	74/16	सरकारी	स्कूल	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
61	74/3	सरकारी	चारनोई	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
62	74/4	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
63	74/5	सरकारी	चारनोई	0.88 (हेक्टेयर)	0.88
64	74/6	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
65	74/7	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
66	74/8	सरकारी	चारनोई	0.63 (हेक्टेयर)	0.63
67	74/9	सरकारी	चारनोई	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
68	76	सरकारी	रास्ता	1.21 (हेक्टेयर)	1.21
69	82	निजी	कृषि	0.66 (हेक्टेयर)	0.66
70	83	निजी	कृषि	1.18 (हेक्टेयर)	1.18
71	84/2	निजी	कृषि	1.05 (हेक्टेयर)	1.05
72	86/2	निजी	कृषि	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
73	87/1	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
74	87/2	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
75	88	निजी	कृषि	1.94 (हेक्टेयर)	1.94
76	89	निजी	कृषि	0.91 (हेक्टेयर)	0.91
77	90	निजी	कृषि	0.67 (हेक्टेयर)	0.67
78	91	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
79	92/1	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
80	92/2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
81	92/3	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
82	92/4	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41

83	93	निजी	कृषि	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
84	94	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
85	95	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
86	96	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
87	97/1	निजी	कृषि	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
88	97/2	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
89	98	निजी	कृषि	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
गांव का नाम: गुडभेली					
1	1320	निजी	कृषि	0.738 (हेक्टेयर)	0.738
2	1321	निजी	कृषि	2.094 (हेक्टेयर)	2.094
3	1322/1	निजी	कृषि	0.995 (हेक्टेयर)	0.995
4	1322/2/1/min 1	निजी	कृषि	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
5	1322/2/1/min 2	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
6	1322/2/2	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
7	1322/2/3	निजी	कृषि	0.498 (हेक्टेयर)	0.498
8	1322/4/1	निजी	कृषि	0.291 (हेक्टेयर)	0.291
9	1322/4/2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
10	1322/5/1	निजी	कृषि	0.237 (हेक्टेयर)	0.237
11	1322/5/2	निजी	कृषि	0.095 (हेक्टेयर)	0.095
12	1322/6/1	निजी	कृषि	0.208 (हेक्टेयर)	0.208
13	1322/6/2	निजी	कृषि	0.124 (हेक्टेयर)	0.124
14	1323/min 1	निजी	कृषि	0.758 (हेक्टेयर)	0.758
15	1323/min 2	निजी	कृषि	0.759 (हेक्टेयर)	0.759
16	1351	सरकारी	सड़क	1.295 (हेक्टेयर)	1.295
17	1352/1	निजी	कृषि	0.805 (हेक्टेयर)	0.805
18	1352/2	सरकारी	चारनोई	0.0091 (हेक्टेयर)	0.0091
19	1353/3	निजी	कृषि	0.197 (हेक्टेयर)	0.197
20	1353/min 1	निजी	कृषि	0.395 (हेक्टेयर)	0.395
21	1353/min 2	निजी	कृषि	0.197 (हेक्टेयर)	0.197
22	1353/min 3	निजी	कृषि	0.197 (हेक्टेयर)	0.197

23	1354	निजी	कृषि	1.456 (हेक्टेयर)	1.456
24	1355/1/ min 1	निजी	कृषि	0.696 (हेक्टेयर)	0.696
25	1355/1/ min 2	निजी	कृषि	0.231 (हेक्टेयर)	0.231
26	1355/2/min1	निजी	कृषि	0.309 (हेक्टेयर)	0.309
27	1355/2/min2	निजी	कृषि	0.309 (हेक्टेयर)	0.309
28	1355/2/min3	निजी	कृषि	0.309 (हेक्टेयर)	0.309
29	1355/3	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
30	1356/1	निजी	कृषि	0.098 (हेक्टेयर)	0.098
31	1356/3	निजी	कृषि	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
32	1356/min 1/2	निजी	कृषि	0.208 (हेक्टेयर)	0.208
33	1356/min 2	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
34	1357	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
35	1358 /1	निजी	कृषि	0.78 (हेक्टेयर)	0.78
36	1358 /2	निजी	कृषि	0.759 (हेक्टेयर)	0.759
37	1359/2/min 1	निजी	कृषि	0.293 (हेक्टेयर)	0.293
38	1359/2/min 2	निजी	कृषि	0.405 (हेक्टेयर)	0.405
39	1359/min 1	निजी	कृषि	0.698 (हेक्टेयर)	0.698
40	1360/min 1	निजी	कृषि	0.369 (हेक्टेयर)	0.369
41	1360/min 2	निजी	कृषि	0.258 (हेक्टेयर)	0.258
42	1361	निजी	कृषि	0.101 (हेक्टेयर)	0.101
43	1362/1	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
44	1362/2	निजी	कृषि	0.287 (हेक्टेयर)	0.287
45	1365/1	निजी	कृषि	0.127 (हेक्टेयर)	0.127
46	1365/2	निजी	कृषि	0.743 (हेक्टेयर)	0.743
47	1365/3	निजी	कृषि	0.626 (हेक्टेयर)	0.626
48	1365/4	निजी	कृषि	0.405 (हेक्टेयर)	0.405
49	1365/5	निजी	कृषि	0.405 (हेक्टेयर)	0.405
50	1366	निजी	कृषि	1.487 (हेक्टेयर)	1.487
51	1366/1504	निजी	कृषि	1.527 (हेक्टेयर)	1.527
52	1368	निजी	कृषि	0.091 (हेक्टेयर)	0.091

53	1369/1	निजी	कृषि	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
54	1369/2	निजी	कृषि	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
55	1369/3	निजी	कृषि	0.271 (हेक्टेयर)	0.271
56	1369/4	निजी	कृषि	0.406 (हेक्टेयर)	0.406
57	1369/5/1	निजी	कृषि	0.103 (हेक्टेयर)	0.103
58	1369/5/2	निजी	कृषि	0.303 (हेक्टेयर)	0.303
59	1369/6/1	निजी	कृषि	0.51 (हेक्टेयर)	0.51
60	1369/6/min 1	निजी	कृषि	0.303 (हेक्टेयर)	0.303
61	1370/min 1	निजी	कृषि	0.445 (हेक्टेयर)	0.445
62	1370/min 2	निजी	कृषि	0.445 (हेक्टेयर)	0.445
63	1371	सरकारी	नाला	0.87 (हेक्टेयर)	0.87
64	1375	सरकारी	नाला	0.809 (हेक्टेयर)	0.809
65	1376/min 6	निजी	कृषि	0.756 (हेक्टेयर)	0.756
66	1376/min1/min 1	निजी	कृषि	0.86 (हेक्टेयर)	0.86
67	1376/min1/min 2	निजी	कृषि	0.202 (हेक्टेयर)	0.202
68	1376/min2	निजी	कृषि	0.687 (हेक्टेयर)	0.687
69	1376/min3	निजी	कृषि	1.52 (हेक्टेयर)	1.52
70	1376/min4	निजी	कृषि	0.531 (हेक्टेयर)	0.531
71	1376/min5/min1	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
72	1376/min5/min2	निजी	कृषि	0.606 (हेक्टेयर)	0.606
73	1385	निजी	कृषि	1.983 (हेक्टेयर)	1.983
74	1386/min 1/min 1	निजी	कृषि	0.072 (हेक्टेयर)	0.072
75	1386/min 1/min 2	निजी	कृषि	0.303 (हेक्टेयर)	0.303
76	1386/min 2	निजी	कृषि	0.202 (हेक्टेयर)	0.202
77	1387	निजी	कृषि	0.476 (हेक्टेयर)	0.476
78	1388/1	निजी	कृषि	0.395 (हेक्टेयर)	0.395
79	1388/2	निजी	कृषि	0.394 (हेक्टेयर)	0.394
80	1388/3/min 1	निजी	कृषि	0.192 (हेक्टेयर)	0.192
81	1388/3/min 2	निजी	कृषि	0.202 (हेक्टेयर)	0.202
82	1389	निजी	कृषि	0.961 (हेक्टेयर)	0.961

83	1391	निजी	कृषि	0.961 (हेक्टेयर)	0.961
84	1392 /min 1	निजी	कृषि	0.202 (हेक्टेयर)	0.202
85	1392 /min 2	निजी	कृषि	0.606 (हेक्टेयर)	0.606
86	1392 /min3/min 1	निजी	कृषि	0.234 (हेक्टेयर)	0.234
87	1393	निजी	कृषि	0.587 (हेक्टेयर)	0.587
88	1393 /min 2/min 2	निजी	कृषि	0.404 (हेक्टेयर)	0.404
89	1394	सरकारी	चारनोई	0.486 (हेक्टेयर)	0.486
90	1402/1	निजी	कृषि	0.299 (हेक्टेयर)	0.299
91	1402/2	निजी	कृषि	0.298 (हेक्टेयर)	0.298
92	1403	निजी	कृषि	0.668 (हेक्टेयर)	0.668
93	1404/1	निजी	कृषि	0.121 (हेक्टेयर)	0.121
94	1404/2	निजी	कृषि	0.121 (हेक्टेयर)	0.121
95	1405	निजी	कृषि	0.607 (हेक्टेयर)	0.607
96	1406/min 1	निजी	कृषि	0.495 (हेक्टेयर)	0.495
97	1406/min 2	निजी	कृषि	0.344 (हेक्टेयर)	0.344
98	1406/min 3	निजी	कृषि	0.344 (हेक्टेयर)	0.344
99	1423/1	सरकारी	चारगाह	8.46 (हेक्टेयर)	8.46
100	1423/2	सरकारी	चारगाह	1 (हेक्टेयर)	1
101	1426	सरकारी	सड़क	0.374 (हेक्टेयर)	0.374
102	1429/1 /min 1	सरकारी	काबिल कास्त	0.684 (हेक्टेयर)	0.684
103	1429/1 /min 10	निजी	कृषि	0.404 (हेक्टेयर)	0.404
104	1429/1 /min 11	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
105	1429/1 /min 12	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
106	1429/1 /min 13	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
107	1429/1 /min 14	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
108	1429/1 /min 15	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
109	1429/1 /min 16	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
110	1429/1 /min 17	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
111	1429/1 /min 18	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
112	1429/1 /min 19	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5

113	1429/1 /min 2	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
114	1429/1 /min 20	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
115	1429/1 /min 21	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
116	1429/1 /min 22	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
117	1429/1 /min 23	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
118	1429/1 /min 24	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
119	1429/1 /min 25	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
120	1429/1 /min 3	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
121	1429/1 /min 4	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
122	1429/1 /min 5	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
123	1429/1 /min 6	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
124	1429/1 /min 7	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
125	1429/1 /min 8	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
126	1429/1 /min 9	निजी	कृषि	0.404 (हेक्टेयर)	0.404
127	1429/1/1	निजी	कृषि	0.506 (हेक्टेयर)	0.506
128	1429/1/Min1	सरकारी	काबिल कास्त	0.684 (हेक्टेयर)	0.684
129	1429/2/2	निजी	कृषि	0.505 (हेक्टेयर)	0.505
130	1430/1	निजी	कृषि	1.771 (हेक्टेयर)	1.771
131	1430/2 /min1	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
132	1430/2 /min3	निजी	कृषि	0.219 (हेक्टेयर)	0.219
133	1430/2 /min4	निजी	कृषि	0.253 (हेक्टेयर)	0.253
134	1430/2 /min5	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
135	1430/2/5	निजी	कृषि	0.808 (हेक्टेयर)	0.808
136	1431/1	निजी	कृषि	1.011 (हेक्टेयर)	1.011
137	1431/2	निजी	कृषि	0.809 (हेक्टेयर)	0.809
138	1431/3/1	निजी	कृषि	0.754 (हेक्टेयर)	0.754
139	1431/3/2	निजी	कृषि	0.154 (हेक्टेयर)	0.154
140	1431/3/3	निजी	कृषि	0.599 (हेक्टेयर)	0.599
141	1431/4	निजी	कृषि	0.607 (हेक्टेयर)	0.607
142	1431/5	सरकारी	गैर-कृषि	0.607 (हेक्टेयर)	0.607

143	291/ 1 min 1	सरकारी	काबिल कास्त	7.593 (हेक्टेयर)	7.593
144	291/ 1 min 10	निजी	कृषि	0.504 (हेक्टेयर)	0.504
145	291/ 1 min 11	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
146	291/ 1 min 12	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
147	291/ 1 min 13	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
148	291/ 1 min 14	निजी	कृषि	0.404 (हेक्टेयर)	0.404
149	291/ 1 min 15	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
150	291/ 1 min 2	निजी	कृषि	1.011 (हेक्टेयर)	1.011
151	291/ 1 min 3/min 1	निजी	कृषि	0.516 (हेक्टेयर)	0.516
152	291/ 1 min 3/min 2	निजी	कृषि	0.516 (हेक्टेयर)	0.516
153	291/ 1 min 4	निजी	कृषि	0.746 (हेक्टेयर)	0.746
154	291/ 1 min 5	निजी	कृषि	0.404 (हेक्टेयर)	0.404
155	291/ 1 min 6	निजी	कृषि	0.606 (हेक्टेयर)	0.606
156	291/ 1 min 7	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
157	291/ 1 min 8	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
158	291/ 1 min 9	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
159	291/ 2	निजी	कृषि	0.809 (हेक्टेयर)	0.809
160	291/ 3	निजी	कृषि	0.809 (हेक्टेयर)	0.809
161	291/ 4 / min 1	निजी	कृषि	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
162	291/ 4 / min 2/	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
163	291/ 4 / min 2/min 1	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
164	291/ 4 / min 3	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
165	291/ 5/ min 1	निजी	कृषि	0.187 (हेक्टेयर)	0.187
166	291/ 5/ min 2	निजी	कृषि	0.824 (हेक्टेयर)	0.824
167	297	निजी	कृषि	0.172 (हेक्टेयर)	0.172
168	297/1536	निजी	कृषि	1.415 (हेक्टेयर)	1.415
169	298	सरकारी	गैर-कृषि	1.103 (हेक्टेयर)	1.103
170	299/min 1/min 1	निजी	कृषि	0.458 (हेक्टेयर)	0.458
171	299/min 1/min 2	निजी	कृषि	0.458 (हेक्टेयर)	0.458
172	299/min 2	निजी	कृषि	0.46 (हेक्टेयर)	0.46

173	300	निजी	कृषि	1.1 (हेक्टेयर)	1.1
174	301/min 2/min1	निजी	कृषि	0.229 (हेक्टेयर)	0.229
175	301/min 2/min2	निजी	कृषि	0.835 (हेक्टेयर)	0.835
176	301/min 2/min3	निजी	कृषि	1.63 (हेक्टेयर)	1.63
177	302/1	निजी	कृषि	0.202 (हेक्टेयर)	0.202
178	302/2	सरकारी	बाड़ा	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
179	303	निजी	कृषि	0.112 (हेक्टेयर)	0.112
180	305	निजी	कृषि	1.052 (हेक्टेयर)	1.052
181	326	सरकारी	सड़क	0.749 (हेक्टेयर)	0.749
182	327	सरकारी	गैर-कृषि	0.445 (हेक्टेयर)	0.445
183	339	निजी	कृषि	2.265 (हेक्टेयर)	2.265
184	340	निजी	कृषि	0.86 (हेक्टेयर)	0.86
185	341	निजी	कृषि	1.547 (हेक्टेयर)	1.547
186	342	निजी	कृषि	1.345 (हेक्टेयर)	1.345
187	344	निजी	कृषि	1.183 (हेक्टेयर)	1.183
188	345/1	निजी	कृषि	1.391 (हेक्टेयर)	1.391
189	345/2/min 1	निजी	कृषि	0.401 (हेक्टेयर)	0.401
190	345/2/min 2	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
191	346	निजी	कृषि	1.284 (हेक्टेयर)	1.284
192	346/1529	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
193	346/1534	निजी	कृषि	0.162 (हेक्टेयर)	0.162
194	347	निजी	कृषि	1.608 (हेक्टेयर)	1.608
195	349/1	निजी	कृषि	1.532 (हेक्टेयर)	1.532
196	349/2	निजी	कृषि	1.968 (हेक्टेयर)	1.968
197	367/min1	सरकारी	गैर-कृषि	1.326 (हेक्टेयर)	1.326
198	367/min2	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
199	368	सरकारी	रास्ता	0.466 (हेक्टेयर)	0.466
200	369	सरकारी	गैर-कृषि	1.234 (हेक्टेयर)	1.234
201	370	निजी	कृषि	2.043 (हेक्टेयर)	2.043
202	371	निजी	कृषि	2.165 (हेक्टेयर)	2.165

203	372	निजी	कृषि	0.445 (हेक्टेयर)	0.445
204	373	निजी	कृषि	2.428 (हेक्टेयर)	2.428
205	376/1	निजी	कृषि	0.354 (हेक्टेयर)	0.354
206	376/2	निजी	कृषि	1.211 (हेक्टेयर)	1.211
207	376/3 /min 1	सरकारी	चारनोई	0.808 (हेक्टेयर)	0.808
208	376/3 /min 2	निजी	कृषि	1.011 (हेक्टेयर)	1.011
209	376/3/min 1	सरकारी	चारनोई	0.808 (हेक्टेयर)	0.808
210	376/4 /min 1	निजी	कृषि	2.023 (हेक्टेयर)	2.023
211	376/4 /min 3	निजी	कृषि	0.506 (हेक्टेयर)	0.506
212	376/4 /min 4	निजी	कृषि	0.506 (हेक्टेयर)	0.506
213	376/5	निजी	कृषि	0.809 (हेक्टेयर)	0.809
214	396	निजी	कृषि	1.204 (हेक्टेयर)	1.204
गांव का नाम: करनखेडी					
1	110	सरकारी	चारनोई	0.93 (हेक्टेयर)	0.93
2	111	सरकारी	चारनोई	9.4 (हेक्टेयर)	9.4
3	118	निजी	कृषि	0.56 (हेक्टेयर)	0.56
4	119	निजी	कृषि	0.44 (हेक्टेयर)	0.44
5	120/1	निजी	कृषि	0.91 (हेक्टेयर)	0.91
6	120/2	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
7	120/3	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
8	121	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
9	122	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
10	123	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
11	124	सरकारी	चारनोई	0.53 (हेक्टेयर)	0.53
12	128	सरकारी	कंकड़	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
13	129	सरकारी	चारनोई	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
14	130	सरकारी	गोठान	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
15	131	सरकारी	चारनोई	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
16	134	सरकारी	चारनोई	0.98 (हेक्टेयर)	0.98
17	135/min 1	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8

18	135/min 2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
19	136	सरकारी	चारनोई	0.71 (हेक्टेयर)	0.71
20	139	सरकारी	काबिल कास्त	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
21	14/1	निजी	कृषि	1.28 (हेक्टेयर)	1.28
22	14/2	निजी	कृषि	1.28 (हेक्टेयर)	1.28
23	140	निजी	कृषि	1.33 (हेक्टेयर)	1.33
24	146	सरकारी	काबिल कास्त	0.33 (हेक्टेयर)	0.33
25	147	सरकारी	कुंआ	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
26	148	सरकारी	मुर्दा मावेशी	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
27	149	सरकारी	काबिल कास्त	0.84 (हेक्टेयर)	0.84
28	15	सरकारी	गैर मुमकिन	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
29	16	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
30	162	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
31	164/min 1	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
32	164/min 2	निजी	कृषि	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
33	165	सरकारी	गैर मुमकिन	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
34	166	सरकारी	गैर मुमकिन	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
35	167	सरकारी	चारनोई	0.56 (हेक्टेयर)	0.56
36	168	सरकारी	चारनोई	0.54 (हेक्टेयर)	0.54
37	169	सरकारी	कुंआ	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
38	17	सरकारी	गैर मुमकिन	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
39	170	सरकारी	गैर मुमकिन	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
40	174	सरकारी	गैर मुमकिन	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
41	18/min 1/min 1	निजी	कृषि	1.45 (हेक्टेयर)	1.45
42	18/min 1/min 2	निजी	कृषि	0.97 (हेक्टेयर)	0.97
43	18/min 2	निजी	कृषि	0.49 (हेक्टेयर)	0.49
44	19	सरकारी	चारनोई	0.86 (हेक्टेयर)	0.86
45	21	निजी	कृषि	2.3 (हेक्टेयर)	2.3
46	210	निजी	कृषि	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
47	211	निजी	कृषि	0.82 (हेक्टेयर)	0.82

48	212	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
49	213	निजी	कृषि	1.12 (हेक्टेयर)	1.12
50	214	निजी	कृषि	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
51	215	निजी	कृषि	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
52	216/1	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
53	216/2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
54	219	सरकारी	गैर मुमकिन	0.97 (हेक्टेयर)	0.97
55	220	सरकारी	गैर मुमकिन	1.14 (हेक्टेयर)	1.14
56	221	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
57	222	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
58	223	निजी	कृषि	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
59	225	निजी	कृषि	0.68 (हेक्टेयर)	0.68
60	226	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
61	227	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
62	228	सरकारी	सड़क	0.47 (हेक्टेयर)	0.47
63	229	निजी	कृषि	2.04 (हेक्टेयर)	2.04
64	233	निजी	कृषि	0.83 (हेक्टेयर)	0.83
65	234	सरकारी	गैर मुमकिन	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
66	235	सरकारी	कुंआ	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
67	236	निजी	कृषि	0.45 (हेक्टेयर)	0.45
68	237	निजी	कृषि	0.65 (हेक्टेयर)	0.65
69	283/min 1	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
70	283/min 2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
71	285	सरकारी	गैर मुमकिन	0.87 (हेक्टेयर)	0.87
72	286	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
73	287	सरकारी	गैर मुमकिन	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
74	288	सरकारी	गैर मुमकिन	0.37 (हेक्टेयर)	0.37
75	289	सरकारी	सड़क	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
76	29/min 1	निजी	कृषि	0.99 (हेक्टेयर)	0.99
77	29/min 2	निजी	कृषि	0.49 (हेक्टेयर)	0.49

78	29/min 3	निजी	कृषि	0.49 (हेक्टेयर)	0.49
79	290	सरकारी	गैर मुमकिन	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
80	292	निजी	कृषि	1.07 (हेक्टेयर)	1.07
81	293	सरकारी	सड़क	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
82	30	सरकारी	चारनोई	2.94 (हेक्टेयर)	2.94
83	31	निजी	कृषि	1.1 (हेक्टेयर)	1.1
84	33	सरकारी	चारनोई	0.78 (हेक्टेयर)	0.78
85	36	निजी	कृषि	0.75 (हेक्टेयर)	0.75
गांव का नाम: लसुडिया					
1	283	सरकारी	चारनोई	0.67 (हेक्टेयर)	0.67
2	1123	निजी	कृषि	0.92 (हेक्टेयर)	0.92
3	1130	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
4	1137	निजी	कृषि	0.51 (हेक्टेयर)	0.51
5	1139/1	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
6	1139/2	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
7	1139/3	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
8	1140	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
9	1141	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
10	1142	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
11	1143	सरकारी	रास्ता	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
12	1144	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
13	1145	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
14	1146	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
15	1147	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
16	1148	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
17	1149	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
18	1150	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
19	1151	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
20	1152	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
21	1153	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18

22	1154	सरकारी	कुंआ	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
23	1155	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
24	1156	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
25	1157	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
26	1158	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
27	1159	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
28	1160	सरकारी	कुंआ	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
29	1161	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
30	1162	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
31	1163	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
32	1164	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
33	1165	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
34	1166	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
35	1167	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
36	1168	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
37	1169	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
38	1170	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
39	1184	निजी	कृषि	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
40	1185	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
41	1186	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
42	1187	सरकारी	कुंआ	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
43	1188	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
44	1189	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
45	1190min1	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
46	1190min2	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
47	1191/1	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
48	1191/2	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
49	1191/3min1	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
50	1191/3min2	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
51	1192	सरकारी	कुंआ	0.03 (हेक्टेयर)	0.03

52	1193	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
53	1194	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
54	1195	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
55	1196min1	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
56	1196min2	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
57	1196min3	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
58	1197min1	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
59	1197min2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
60	1197min3	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
61	1197min4	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
62	1198	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
63	1199	निजी	कृषि	0.93 (हेक्टेयर)	0.93
64	1200	निजी	कृषि	0.56 (हेक्टेयर)	0.56
65	1201	निजी	कृषि	0.57 (हेक्टेयर)	0.57
66	1204	निजी	कृषि	0.71 (हेक्टेयर)	0.71
67	1206	निजी	कृषि	0.82 (हेक्टेयर)	0.82
68	1207	निजी	कृषि	0.45 (हेक्टेयर)	0.45
69	1208	निजी	कृषि	0.71 (हेक्टेयर)	0.71
70	1216	सरकारी	चारनोई	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
71	1218	निजी	कृषि	1.18 (हेक्टेयर)	1.18
72	1219	निजी	कृषि	1.32 (हेक्टेयर)	1.32
73	1220	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
74	1222min1	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
75	1222min2	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
76	1222min2/1min1	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
77	1222min2/1min2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
78	1222min2/2	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
79	1223	सरकारी	कुंआ	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
80	1224min1	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
81	1224min2	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6

82	1225	निजी	कृषि	0.92 (हेक्टेयर)	0.92
83	1239	सरकारी	नाला	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
84	1240	सरकारी	नाला	1.19 (हेक्टेयर)	1.19
85	1246	सरकारी	कृषि	0.48 (हेक्टेयर)	0.48
86	1247	सरकारी	चारनोई	4.96 (हेक्टेयर)	4.96
87	1248	सरकारी	रास्ता	0.43 (हेक्टेयर)	0.43
88	1285/936	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
89	220	सरकारी	चारनोई	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
90	221	सरकारी	काबिल कास्त	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
91	222	निजी	कृषि	2.34 (हेक्टेयर)	2.34
92	223	सरकारी	सड़क	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
93	282/1	निजी	कृषि	0.63 (हेक्टेयर)	0.63
94	282/2	निजी	कृषि	0.64 (हेक्टेयर)	0.64
95	284	अन्य(देवस्थान)	कृषि	2.27 (हेक्टेयर)	2.27
96	285	निजी	कृषि	0.91 (हेक्टेयर)	0.91
97	286	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
98	292 min 1	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
99	292 min 2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
100	299	सरकारी	काबिल कास्त	0.83 (हेक्टेयर)	0.83
101	300min 1	सरकारी	चारनोई	2.48 (हेक्टेयर)	2.48
102	300min 2	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
103	300min 3	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
104	300min 4	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
105	300min 5	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
106	300min 6	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
107	300min 7	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
108	300min 8	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
109	301	सरकारी	सड़क	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
110	302/1	निजी	कृषि	0.85 (हेक्टेयर)	0.85
111	302/2,302/4,302/6	निजी	कृषि	0.72 (हेक्टेयर)	0.72

112	302/3,302/7	निजी	कृषि	0.61 (हेक्टेयर)	0.61
113	303/1	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
114	303/2	निजी	कृषि	1.21 (हेक्टेयर)	1.21
115	304	सरकारी	चारनोई	7.64 (हेक्टेयर)	7.64
116	395/1	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
117	395/2	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
118	395/3	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
119	396min1	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
120	396min2	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
121	396min3	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
122	396min4	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
123	397	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
124	400	निजी	कृषि	0.47 (हेक्टेयर)	0.47
125	401	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
126	402	निजी	कृषि	0.43 (हेक्टेयर)	0.43
127	403	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
128	404	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
129	405	सरकारी	कुंआ	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
130	406min1	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
131	406min2	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
132	407	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
133	407/1280	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
134	408min 1	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
135	408min 2	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
136	408min 3 min 1 min1	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
137	408min 3 min 1 min2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
138	408min 3 min 2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
139	409	निजी	कृषि	0.49 (हेक्टेयर)	0.49
140	410	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
141	411	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25

142	412min1	निजी	कृषि	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
143	412min2	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
144	412min3	निजी	कृषि	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
145	413	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
146	414	निजी	कृषि	0.83 (हेक्टेयर)	0.83
147	415	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
148	416min1,420pe	निजी	कृषि	1.3 (हेक्टेयर)	1.3
149	416min2,420pe	निजी	कृषि	0.33 (हेक्टेयर)	0.33
150	416min3,420pe	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
151	416min4,420pe	निजी	कृषि	1.3 (हेक्टेयर)	1.3
152	419min 1 min1	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
153	419min 1 min2	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
154	419min 2	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
155	419min 3	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
156	421min1	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
157	421min2	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
158	422	निजी	कृषि	0.67 (हेक्टेयर)	0.67
159	423	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
160	426	निजी	कृषि	1.9 (हेक्टेयर)	1.9
161	427	निजी	कृषि	0.59 (हेक्टेयर)	0.59
162	428	निजी	कृषि	0.81 (हेक्टेयर)	0.81
163	429	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
164	430	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
165	431min1min1	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
166	431min1min2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
167	431min2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
168	432	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
169	433	निजी	कृषि	0.94 (हेक्टेयर)	0.94
170	435	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
171	436	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41

172	438	सरकारी	कुंआ	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
173	439	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
174	440	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
175	441	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
176	442/1	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
177	442/2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
178	443/1	निजी	कृषि	0.44 (हेक्टेयर)	0.44
179	443/3	निजी	कृषि	0.84 (हेक्टेयर)	0.84
180	443/4 min1	निजी	कृषि	0.75 (हेक्टेयर)	0.75
181	443/4 min2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
182	443/min1	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
183	455	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
184	457	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
185	561	सरकारी	गैर मुमकिन	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
186	579	अन्य(देवस्थान)	कृषि	1.08 (हेक्टेयर)	1.08
187	580	सरकारी	चारनोई	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
188	581	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
189	583	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
190	584	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
191	584/1281	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
192	585	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
193	586	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
194	587	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
195	588	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
196	589	निजी	कृषि	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
197	590	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
198	603	सरकारी	रास्ता	1.22 (हेक्टेयर)	1.22
199	615	निजी	कृषि	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
200	618	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
201	619	सरकारी	कुंआ/चारनोई	0.08 (हेक्टेयर)	0.08

202	620	सरकारी	कुंआ	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
203	621	निजी	कृषि	1.62 (हेक्टेयर)	1.62
204	622	निजी	कृषि	0.56 (हेक्टेयर)	0.56
205	623 min1	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
206	623 min2	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
207	624/1	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
208	624/2	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
209	625/1	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
210	625/2	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
211	626	निजी	कृषि	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
212	627	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
213	628	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
214	630	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
215	631	निजी	कृषि	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
216	632	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
217	633	सरकारी	कुंआ	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
218	634	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
219	635	निजी	कृषि	0.39 (हेक्टेयर)	0.39
220	636 min1min1	निजी	कृषि	0.47 (हेक्टेयर)	0.47
221	636 min1min2	निजी	कृषि	0.44 (हेक्टेयर)	0.44
222	636 min2	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
223	639	निजी	कृषि	0.73 (हेक्टेयर)	0.73
224	670	सरकारी	काबिल कास्त	2.41 (हेक्टेयर)	2.41
225	671	निजी	कृषि	0.39 (हेक्टेयर)	0.39
226	672	निजी	कृषि	0.33 (हेक्टेयर)	0.33
227	673	निजी	कृषि	2.14 (हेक्टेयर)	2.14
228	674	निजी	कृषि	1.18 (हेक्टेयर)	1.18
229	675min1	निजी	कृषि	0.69 (हेक्टेयर)	0.69
230	675min2	निजी	कृषि	0.63 (हेक्टेयर)	0.63
231	676 min1	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4

232	676 min2	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
233	676 min3 min1	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
234	676 min3 min2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
235	676 min4	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
236	677	निजी	कृषि	0.54 (हेक्टेयर)	0.54
237	678min1	निजी	कृषि	0.33 (हेक्टेयर)	0.33
238	678min2min1	निजी	कृषि	0.93 (हेक्टेयर)	0.93
239	678min2min2	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
240	679min1	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
241	679min2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
242	680	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
243	681	निजी	कृषि	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
244	682	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
245	683	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
246	684	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
247	685min1	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
248	685min2	निजी	कृषि	0.49 (हेक्टेयर)	0.49
249	686min1	निजी	कृषि	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
250	686min2	निजी	कृषि	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
251	691	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
252	696min1	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
253	696min2	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
254	697	निजी	कृषि	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
255	698	सरकारी	कुंआ	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
256	699	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
257	707	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
258	709	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
259	710	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
260	711	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
261	712	निजी	कृषि	0.13 (हेक्टेयर)	0.13

262	713	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
263	714	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
264	715	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
265	716	सरकारी	कुंआ	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
266	717min1	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
267	717min2	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
268	718	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
269	719	सरकारी	कुंआ	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
270	720	सरकारी	नाला	0.68 (हेक्टेयर)	0.68
271	721	सरकारी	काबिल कास्त	0.61 (हेक्टेयर)	0.61
गांव का नाम: महुवा					
1	1	सरकारी	काबिल कास्त	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
2	21	सरकारी	कुंआ	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
3	22	निजी	कृषि	1.32 (हेक्टेयर)	1.32
4	25	निजी	कृषि	0.95 (हेक्टेयर)	0.95
5	26min1	निजी	कृषि	0.84 (हेक्टेयर)	0.84
6	26min2	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
7	27	सरकारी	रास्ता	0.85 (हेक्टेयर)	0.85
8	28	निजी	कृषि	0.74 (हेक्टेयर)	0.74
9	2min1	निजी	कृषि	0.61 (हेक्टेयर)	0.61
10	2min2	निजी	कृषि	1.08 (हेक्टेयर)	1.08
11	3	निजी	कृषि	2.33 (हेक्टेयर)	2.33
12	4	निजी	कृषि	2.4 (हेक्टेयर)	2.4
13	5	निजी	कृषि	1.69 (हेक्टेयर)	1.69
14	6	सरकारी	गैर मुमकिन	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
15	7/1	निजी	कृषि	1.89 (हेक्टेयर)	1.89
16	7/2	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
गांव का नाम: महुवी					
1	154	सरकारी	नदी	5.69 (हेक्टेयर)	5.69
2	252	सरकारी	ओडी	0.02 (हेक्टेयर)	0.02

3	253	सरकारी	ओडी	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
4	254/1	निजी	कृषि	0.63 (हेक्टेयर)	0.63
5	254/2	निजी	कृषि	1.13 (हेक्टेयर)	1.13
6	255	निजी	परात	0.95 (हेक्टेयर)	0.95
7	256	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
8	257	निजी	कृषि	0.51 (हेक्टेयर)	0.51
9	258/1	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
10	258/2	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
11	259	निजी	गैर-कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
12	260 min 1	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
13	260 min 2	निजी	कृषि	0.43 (हेक्टेयर)	0.43
14	261	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
15	263	निजी	कृषि	0.85 (हेक्टेयर)	0.85
16	320/4	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
17	320min1	सरकारी	चारनोई	8.77 (हेक्टेयर)	8.77
18	320min2	सरकारी	गैर-कृषि	3.21 (हेक्टेयर)	3.21
19	320min3	सरकारी	काबिल कास्त	1 (हेक्टेयर)	1
20	320min5	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
21	321	सरकारी	रास्ता	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
22	322	सरकारी	रास्ता	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
23	325	निजी	परात	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
24	326	सरकारी	चारनोई	0.58 (हेक्टेयर)	0.58
25	327/1	निजी	कृषि	0.79 (हेक्टेयर)	0.79
26	327/2	निजी	कृषि	0.79 (हेक्टेयर)	0.79
27	327/3	निजी	कृषि	0.79 (हेक्टेयर)	0.79
28	327/4	निजी	कृषि	0.79 (हेक्टेयर)	0.79
29	328	निजी	गैर-कृषि	1.35 (हेक्टेयर)	1.35
30	329	निजी	परात	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
31	330	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
32	336	सरकारी	रास्ता	0.21 (हेक्टेयर)	0.21

33	337min1	निजी	कृषि	1.76 (हेक्टेयर)	1.76
34	337min2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
35	338	निजी	कृषि	0.94 (हेक्टेयर)	0.94
36	339	निजी	कृषि	0.56 (हेक्टेयर)	0.56
37	340	निजी	कृषि	0.55 (हेक्टेयर)	0.55
38	341min1	निजी	कृषि	0.74 (हेक्टेयर)	0.74
39	341min2	निजी	कृषि	0.73 (हेक्टेयर)	0.73
40	342/1/min1	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
41	342/1min1/min1	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
42	342/1min1/min2	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
43	342/2/min2	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
44	342/2min1/min1	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
45	342/2min1/min2	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
46	361	निजी	कृषि	1.53 (हेक्टेयर)	1.53
47	362	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
48	363	निजी	कृषि	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
49	364	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
50	365	निजी	कृषि	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
51	366min1	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
52	366min2	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
53	366min3	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
54	367	निजी	कृषि	0.56 (हेक्टेयर)	0.56
55	368	निजी	कृषि	0.55 (हेक्टेयर)	0.55
56	369	निजी	कृषि	0.57 (हेक्टेयर)	0.57
57	370	निजी	कृषि	0.57 (हेक्टेयर)	0.57
58	371min1	निजी	कृषि	0.86 (हेक्टेयर)	0.86
59	371min2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
60	373min1	निजी	कृषि	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
61	373min2	निजी	कृषि	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
62	373min3	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01

63	374	निजी	कृषि	1.15 (हेक्टेयर)	1.15
64	375	सरकारी	चारनोई	1.06 (हेक्टेयर)	1.06
65	77	निजी	कृषि	1.5 (हेक्टेयर)	1.5
66	78	निजी	कृषि	1.25 (हेक्टेयर)	1.25
67	79	निजी	कृषि	1.78 (हेक्टेयर)	1.78
68	80/1	निजी	कृषि	0.73 (हेक्टेयर)	0.73
69	80/2	निजी	कृषि	0.73 (हेक्टेयर)	0.73
70	80/381/1	निजी	कृषि	0.62 (हेक्टेयर)	0.62
71	80/381/2	निजी	कृषि	0.063 (हेक्टेयर)	0.063
72	81	सरकारी	गैर मुमकिन	0.91 (हेक्टेयर)	0.91
73	82	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
74	83min 1	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
75	83min 2	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
76	83min 3	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
77	83min 4	निजी	कृषि	0.7 (हेक्टेयर)	0.7
78	84	सरकारी	नाला	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
गांव का नाम: मानपुरा					
1	444	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
2	202	सरकारी	गैर मुमकिन	1.4 (हेक्टेयर)	1.4
3	259/4	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
4	265	निजी(निजी/मंदिर)	कृषि	5.61 (हेक्टेयर)	5.61
5	266	निजी	कृषि	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
6	268	निजी	कृषि	1.31 (हेक्टेयर)	1.31
7	269	निजी	कृषि	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
8	270/1	निजी	कृषि	0.51 (हेक्टेयर)	0.51
9	270/2	निजी	कृषि	0.51 (हेक्टेयर)	0.51
10	271	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
11	272	निजी	कृषि	0.81 (हेक्टेयर)	0.81
12	281	निजी	कृषि	1.17 (हेक्टेयर)	1.17
13	282	निजी	कृषि	1.17 (हेक्टेयर)	1.17

14	283/1	निजी	कृषि	0.77 (हेक्टेयर)	0.77
15	283/2	निजी	कृषि	0.77 (हेक्टेयर)	0.77
16	284	निजी	कृषि	0.84 (हेक्टेयर)	0.84
17	286	निजी	कृषि	1.25 (हेक्टेयर)	1.25
18	287	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
19	288	निजी	कृषि	1.03 (हेक्टेयर)	1.03
20	289/1	निजी	कृषि	1.17 (हेक्टेयर)	1.17
21	289/2	निजी	कृषि	1.17 (हेक्टेयर)	1.17
22	290/1/min 1	निजी	कृषि	1.31 (हेक्टेयर)	1.31
23	290/1/min 2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
24	290/2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
25	291	निजी	कृषि	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
26	292/1	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
27	292/2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
28	293/min 2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
29	293/min 1	निजी	कृषि	0.61 (हेक्टेयर)	0.61
30	294	सरकारी	गैर मुमकिन	0.45 (हेक्टेयर)	0.45
31	295	निजी	कृषि	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
32	336/min 1	सरकारी	चारगाह	2 (हेक्टेयर)	2
33	336/min 2	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
34	336/min 3	सरकारी	गैर मुमकिन	1.95 (हेक्टेयर)	1.95
35	336/min 4	सरकारी	गैर मुमकिन	0.64 (हेक्टेयर)	0.64
36	337	निजी	कृषि	1.44 (हेक्टेयर)	1.44
37	338	सरकारी	चारनोई	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
38	339	सरकारी	सड़क	0.76 (हेक्टेयर)	0.76
39	373	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
40	374	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
41	375/1	निजी	कृषि	0.49 (हेक्टेयर)	0.49
42	375/2	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
43	376	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12

44	377	सरकारी	कुंआ	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
45	378	सरकारी	चारनोई	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
46	379	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
47	380/1	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
48	380/2	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
49	381/1	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
50	381/2	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
51	382	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
52	383	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
53	384	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
54	387	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
55	388	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
56	389/1	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
57	389/2	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
58	390	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
59	391	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
60	392	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
61	393/1/min 1	निजी	कृषि	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
62	393/1/min 2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
63	393/2	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
64	393/3	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
65	397/1	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
66	397/2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
67	397/3	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
68	398/1	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
69	398/2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
70	398/3	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
71	399	निजी	कृषि	0.43 (हेक्टेयर)	0.43
72	400	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
73	402	सरकारी	चारगाह	0.5 (हेक्टेयर)	0.5

74	404	निजी	कृषि	2.59 (हेक्टेयर)	2.59
75	405	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
76	406/1	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
77	406/2	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
78	406/3	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
79	406/4	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
80	407	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
81	408	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
82	409	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
83	410/1	निजी	कृषि	0.7 (हेक्टेयर)	0.7
84	410/2	निजी	कृषि	0.49 (हेक्टेयर)	0.49
85	411/min 1	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
86	411/min 2	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
87	412	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
88	413	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
89	414	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
90	422	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
91	424	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
92	425	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
93	426	निजी	कृषि	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
94	427/1	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
95	427/2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
96	428/1	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
97	428/2	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
98	428/3	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
99	429/1	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
100	429/2	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
101	430/1	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
102	430/2	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
103	431/1	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09

104	431/2	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
105	432/1	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
106	432/2	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
107	432/3	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
108	433/1	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
109	433/2	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
110	434	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
111	435	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
112	436/1	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
113	436/2	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
114	437/1	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
115	437/2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
116	438	सरकारी	कुंआ	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
117	439/1	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
118	439/2	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
119	440	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
120	441	निजी	कृषि	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
121	442/1	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
122	442/2	निजी	कृषि	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
123	443	निजी	कृषि	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
124	445	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
125	455/1	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
126	455/2	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
127	456/1	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
128	456/2	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
129	457/1	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
130	457/2	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
131	458	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
132	459	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
133	460	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25

134	461	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
135	463	सरकारी	कुआ	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
136	465	निजी	कृषि	0.47 (हेक्टेयर)	0.47
137	466/1	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
138	466/2	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
139	500	सरकारी	नाला	1.46 (हेक्टेयर)	1.46
140	626	निजी	कृषि	0.88 (हेक्टेयर)	0.88
141	630/ 1/min 1	सरकारी	चारनोई	4.69 (हेक्टेयर)	4.69
142	630/ 1/min 2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
143	632	सरकारी	चारगाह	1.43 (हेक्टेयर)	1.43
144	659/1/1	निजी	कृषि	1.2 (हेक्टेयर)	1.2
145	659/2	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
146	659/3	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
147	659/4	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
148	659/5	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
149	659/6	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
150	659/२/1/min 1	निजी	कृषि	1.2 (हेक्टेयर)	1.2
151	659/२/1/min 2	निजी	कृषि	2 (हेक्टेयर)	2
152	659/min 1	सरकारी	चारगाह	23.5 (हेक्टेयर)	23.5
153	661/ 2/1	निजी	कृषि	0.77 (हेक्टेयर)	0.77
154	661/2	निजी	कृषि	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
155	661/2/2	निजी	कृषि	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
156	662/min 1	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
157	662/min 2	निजी	कृषि	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
158	662/min 3	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
159	671/min 1	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
160	671/min 2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
161	671/min 3	निजी	कृषि	0.61 (हेक्टेयर)	0.61
162	672/2	निजी	कृषि	0.43 (हेक्टेयर)	0.43
163	672/3	निजी	कृषि	0.43 (हेक्टेयर)	0.43

164	672/4	निजी	कृषि	0.43 (हेक्टेयर)	0.43
165	672/5	निजी	कृषि	0.43 (हेक्टेयर)	0.43
166	673/1	निजी	कृषि	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
167	673/2	निजी	कृषि	0.48 (हेक्टेयर)	0.48
168	674/ min 1	निजी	कृषि	0.59 (हेक्टेयर)	0.59
169	674/ min 2	निजी	कृषि	0.59 (हेक्टेयर)	0.59
170	674/ min 3	निजी	कृषि	0.59 (हेक्टेयर)	0.59
171	674/ min 4	निजी	कृषि	0.59 (हेक्टेयर)	0.59
172	675	निजी	कृषि	3.05 (हेक्टेयर)	3.05
173	676	निजी	कृषि	1.1 (हेक्टेयर)	1.1
174	676/1	निजी	कृषि	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
175	676/2	निजी	कृषि	0.86 (हेक्टेयर)	0.86
176	677	निजी	कृषि	1.84 (हेक्टेयर)	1.84
177	678	निजी	कृषि	1.42 (हेक्टेयर)	1.42
178	679	निजी	कृषि	1.42 (हेक्टेयर)	1.42
179	680/1	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
180	680/3/ min 2	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
181	680/3/ min 3	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
182	680/3/ min 4	सरकारी	चारनोई	10.31 (हेक्टेयर)	10.31
183	683/1	सरकारी	गैर मुमकिन	5.93 (हेक्टेयर)	5.93
184	683/2	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
185	684	सरकारी	सड़क	0.62 (हेक्टेयर)	0.62
186	685/1	सरकारी	गैर मुमकिन चरनोई	2.85 (हेक्टेयर)	2.85
187	685/2	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
188	715	सरकारी	कब्रिस्तान	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
गांव का नाम: पारली					
1	.2/1	सरकारी	काबिल कास्त	2.458 (हेक्टेयर)	2.458
2	.2/2	निजी	कृषि	1.619 (हेक्टेयर)	1.619
3	10/Min 2	निजी	कृषि	0.164 (हेक्टेयर)	0.164
4	10/Min1	निजी	कृषि	0.494 (हेक्टेयर)	0.494

5	1003/51	निजी	कृषि	0.142 (हेक्टेयर)	0.142
6	1006/32	निजी	कृषि	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
7	1018/128	निजी	कृषि	0.567 (हेक्टेयर)	0.567
8	11	सरकारी	चारनोई	0.456 (हेक्टेयर)	0.456
9	120	सरकारी	काबिल कास्त	1.568 (हेक्टेयर)	1.568
10	128	निजी	कृषि	0.819 (हेक्टेयर)	0.819
11	129	निजी	कृषि	1.295 (हेक्टेयर)	1.295
12	130/1	निजी	कृषि	0.607 (हेक्टेयर)	0.607
13	130/2	निजी	कृषि	0.819 (हेक्टेयर)	0.819
14	131	सरकारी	सड़क	0.131 (हेक्टेयर)	0.131
15	132/1	निजी	कृषि	0.759 (हेक्टेयर)	0.759
16	132/2	निजी	कृषि	1.214 (हेक्टेयर)	1.214
17	133	निजी	कृषि	0.92 (हेक्टेयर)	0.92
18	134	निजी	कृषि	0.516 (हेक्टेयर)	0.516
19	136/1	सरकारी	गैर मुमकिन	2.481 (हेक्टेयर)	2.481
20	136/2/Min 1	निजी	कृषि	0.507 (हेक्टेयर)	0.507
21	136/3/Min 1	निजी	कृषि	0.607 (हेक्टेयर)	0.607
22	136/3/Min2	निजी	कृषि	0.393 (हेक्टेयर)	0.393
23	136/Min 1	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
24	138	सरकारी	चारनोई	0.456 (हेक्टेयर)	0.456
25	139	सरकारी	रास्ता	0.131 (हेक्टेयर)	0.131
26	18/1/3/Min 2	निजी	कृषि	0.072 (हेक्टेयर)	0.072
27	18/1/3/Min1	निजी	कृषि	0.064 (हेक्टेयर)	0.064
28	18/1/3/Min3	निजी	कृषि	0.082 (हेक्टेयर)	0.082
29	18/2/Min 1	निजी	कृषि	0.327 (हेक्टेयर)	0.327
30	18/2/Min 2	निजी	कृषि	0.327 (हेक्टेयर)	0.327
31	19	सरकारी	चारनोई	0.202 (हेक्टेयर)	0.202
32	20	सरकारी	गैर मुमकिन	0.313 (हेक्टेयर)	0.313
33	21	निजी	कृषि	0.273 (हेक्टेयर)	0.273
34	22	निजी	कृषि	0.435 (हेक्टेयर)	0.435

35	23	निजी	कृषि	0.254 (हेक्टेयर)	0.254
36	24	निजी	कृषि	1.53 (हेक्टेयर)	1.53
37	25/1	निजी	कृषि	0.271 (हेक्टेयर)	0.271
38	25/2	निजी	कृषि	0.271 (हेक्टेयर)	0.271
39	25/3	निजी	कृषि	0.271 (हेक्टेयर)	0.271
40	25/4	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
41	26	निजी	कृषि	0.627 (हेक्टेयर)	0.627
42	27/Min1	निजी	कृषि	0.082 (हेक्टेयर)	0.082
43	27/Min2	निजी	कृषि	0.505 (हेक्टेयर)	0.505
44	28/Min 1	निजी	कृषि	1.001 (हेक्टेयर)	1.001
45	28/Min 2	निजी	कृषि	0.303 (हेक्टेयर)	0.303
46	29	सरकारी	चारनोई	1.579 (हेक्टेयर)	1.579
47	3	निजी	कृषि	1.244 (हेक्टेयर)	1.244
48	31/1	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
49	31/2	निजी	कृषि	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
50	31/3	निजी	कृषि	0.147 (हेक्टेयर)	0.147
51	32	निजी	कृषि	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
52	39/Min 1/Min 1/Min 1	निजी	कृषि	0.303 (हेक्टेयर)	0.303
53	39/Min 1/Min1/Min 2	निजी	कृषि	0.203 (हेक्टेयर)	0.203
54	39/Min 1/Min1/Min 3	निजी	कृषि	0.404 (हेक्टेयर)	0.404
55	4/14/Min 10	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
56	4/14/Min 11	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
57	4/14/Min 12	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
58	4/14/Min 13	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
59	4/14/Min 14	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
60	4/14/Min 15	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
61	4/14/Min 2	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
62	4/14/Min 3	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
63	4/14/Min 4	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
64	4/14/Min 5	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1

65	4/14/Min 6	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
66	4/14/Min 7	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
67	4/14/Min 8	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
68	4/14/Min 9	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
69	41	निजी	कृषि	0.87 (हेक्टेयर)	0.87
70	42/1	निजी	कृषि	0.074 (हेक्टेयर)	0.074
71	42/2	निजी	कृषि	0.074 (हेक्टेयर)	0.074
72	42/3	निजी	कृषि	0.074 (हेक्टेयर)	0.074
73	43/Min 1/Min 1	निजी	कृषि	0.019 (हेक्टेयर)	0.019
74	43/Min 1/Min 2	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
75	43/Min 1/Min 4	निजी	कृषि	0.33 (हेक्टेयर)	0.33
76	43/Min 2	निजी	कृषि	0.101 (हेक्टेयर)	0.101
77	43/Min1/Min3	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
78	44	निजी	कृषि	0.89 (हेक्टेयर)	0.89
79	45/1	निजी	कृषि	0.536 (हेक्टेयर)	0.536
80	45/2	निजी	कृषि	0.524 (हेक्टेयर)	0.524
81	45/3	निजी	कृषि	0.524 (हेक्टेयर)	0.524
82	48/1	निजी	कृषि	0.101 (हेक्टेयर)	0.101
83	48/2	निजी	कृषि	0.435 (हेक्टेयर)	0.435
84	49	निजी	कृषि	0.354 (हेक्टेयर)	0.354
85	5/1/Min 1	निजी	कृषि	0.056 (हेक्टेयर)	0.056
86	5/1/Min 2	निजी	कृषि	0.56 (हेक्टेयर)	0.56
87	5/2	निजी	कृषि	0.111 (हेक्टेयर)	0.111
88	5/3	निजी	कृषि	0.111 (हेक्टेयर)	0.111
89	50/1	निजी	कृषि	0.405 (हेक्टेयर)	0.405
90	50/2,47	निजी	कृषि	1.354 (हेक्टेयर)	1.354
91	51	निजी	कृषि	0.283 (हेक्टेयर)	0.283
92	52/min 1	निजी	कृषि	0.238 (हेक्टेयर)	0.238
93	52/min 2	निजी	कृषि	0.238 (हेक्टेयर)	0.238
94	53	निजी	कृषि	0.091 (हेक्टेयर)	0.091

95	54	निजी	कृषि	0.658 (हेक्टेयर)	0.658
96	55/1	निजी	कृषि	0.405 (हेक्टेयर)	0.405
97	55/2	निजी	कृषि	0.202 (हेक्टेयर)	0.202
98	6	निजी	कृषि	0.364 (हेक्टेयर)	0.364
99	61	निजी	कृषि	0.385 (हेक्टेयर)	0.385
100	63	निजी	कृषि	1.214 (हेक्टेयर)	1.214
101	64/Min 2	निजी	कृषि	0.313 (हेक्टेयर)	0.313
102	64/Min1	निजी	कृषि	0.314 (हेक्टेयर)	0.314
103	65	निजी	कृषि	0.121 (हेक्टेयर)	0.121
104	66	निजी	कृषि	0.345 (हेक्टेयर)	0.345
105	67,68	निजी	कृषि	0.535 (हेक्टेयर)	0.535
106	7/1/Min 1	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
107	7/1/Min 2	निजी	कृषि	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
108	7/2/Min1	निजी	कृषि	0.173 (हेक्टेयर)	0.173
109	7/2/Min2	निजी	कृषि	0.173 (हेक्टेयर)	0.173
110	7/2/Min3	निजी	कृषि	0.173 (हेक्टेयर)	0.173
111	7/2/Min4	निजी	कृषि	0.062 (हेक्टेयर)	0.062
112	7/3/Min 1	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
113	7/3/Min 2	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
114	70	सरकारी	नाला	0.526 (हेक्टेयर)	0.526
115	71	निजी	कृषि	1.082 (हेक्टेयर)	1.082
116	74/1	सरकारी	गैर मुमकिन	0.567 (हेक्टेयर)	0.567
117	74/2	निजी	कृषि	2.124 (हेक्टेयर)	2.124
118	75	निजी	कृषि	0.658 (हेक्टेयर)	0.658
119	76/1	निजी	कृषि	0.177 (हेक्टेयर)	0.177
120	76/2/1	निजी	कृषि	0.059 (हेक्टेयर)	0.059
121	76/2/2	निजी	कृषि	0.59 (हेक्टेयर)	0.59
122	76/2/3	निजी	कृषि	0.59 (हेक्टेयर)	0.59
123	76/3	निजी	कृषि	0.177 (हेक्टेयर)	0.177
124	76/4	निजी	कृषि	0.177 (हेक्टेयर)	0.177

125	77	सरकारी	नाला	0.426 (हेक्टेयर)	0.426
126	8/1	निजी	कृषि	0.161 (हेक्टेयर)	0.161
127	8/2	निजी	कृषि	0.162 (हेक्टेयर)	0.162
128	9	निजी	कृषि	0.495 (हेक्टेयर)	0.495
129	950/4	सरकारी	नाला	0.253 (हेक्टेयर)	0.253
130	951/4	सरकारी	गैर मुमकिन	0.992 (हेक्टेयर)	0.992
गांव का नाम: रहीमगढ़					
1	380	सरकारी	चारनोई	30.89 (हेक्टेयर)	30.89
2	381	सरकारी	चारनोई	13.57 (हेक्टेयर)	13.57
3	382	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
4	384	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
5	393	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
6	394	सरकारी	चारनोई	4.57 (हेक्टेयर)	4.57
गांव का नाम: सगोर					
1	1	सरकारी	चारगाह	2.38 (हेक्टेयर)	2.38
गांव का नाम: सरसपुरा					
1	139	निजी	कृषि	0.61 (हेक्टेयर)	0.61
2	140/1	निजी	कृषि	0.48 (हेक्टेयर)	0.48
3	140/2	निजी	कृषि	0.69 (हेक्टेयर)	0.69
4	157	सरकारी	गैर मुमकिन	4.81 (हेक्टेयर)	4.81
5	158	सरकारी	गैर मुमकिन	3.79 (हेक्टेयर)	3.79
6	160	निजी	कृषि	0.51 (हेक्टेयर)	0.51
7	162/1	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
8	162/2	निजी	कृषि	0.7 (हेक्टेयर)	0.7
9	163	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
10	166	निजी	कृषि	0.68 (हेक्टेयर)	0.68
11	167	सरकारी	गैर मुमकिन	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
12	168	निजी	कृषि	0.46 (हेक्टेयर)	0.46
13	169	निजी	कृषि	0.67 (हेक्टेयर)	0.67
14	170	निजी	कृषि	0.87 (हेक्टेयर)	0.87

15	171	निजी	कृषि	0.45 (हेक्टेयर)	0.45
16	172	सरकारी	नाला	0.255 (हेक्टेयर)	0.255
17	172	सरकारी	नाला	2.55 (हेक्टेयर)	2.55
18	173	सरकारी	गैर मुमकिन	11.86 (हेक्टेयर)	11.86
19	175	सरकारी	गैर मुमकिन	2.34 (हेक्टेयर)	2.34
20	176/1/min 1	निजी	कृषि	1.7 (हेक्टेयर)	1.7
21	176/1/min 2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
22	176/2	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
23	177	निजी	कृषि	0.46 (हेक्टेयर)	0.46
24	178/ min 1	निजी	कृषि	0.83 (हेक्टेयर)	0.83
25	178/ min 2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
26	179/min 1	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
27	179/min 2	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
28	181	निजी	कृषि	0.85 (हेक्टेयर)	0.85
29	188/1	निजी	कृषि	2.15 (हेक्टेयर)	2.15
30	188/2	सरकारी	चारनोई	1.11 (हेक्टेयर)	1.11
31	189	सरकारी	चारनोई	2.15 (हेक्टेयर)	2.15
32	190	सरकारी	गैर मुमकिन	4.91 (हेक्टेयर)	4.91
33	30	सरकारी	रास्ता	1.84 (हेक्टेयर)	1.84
34	31	सरकारी	चारनोई	14.68 (हेक्टेयर)	14.68
35	32	सरकारी	नाला	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
36	33	सरकारी	गैर मुमकिन	4.85 (हेक्टेयर)	4.85
37	34	सरकारी	रास्ता	0.67 (हेक्टेयर)	0.67
38	35	सरकारी	गैर मुमकिन	3.61 (हेक्टेयर)	3.61
39	36	सरकारी	गैर मुमकिन	4.37 (हेक्टेयर)	4.37
40	38	सरकारी	चारनोई	5.34 (हेक्टेयर)	5.34
41	39	सरकारी	नाला	0.7 (हेक्टेयर)	0.7
42	41	सरकारी	गैर मुमकिन	1.13 (हेक्टेयर)	1.13
43	42	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
44	43	निजी	कृषि	1.21 (हेक्टेयर)	1.21

45	44	सरकारी	गैर मुमकिन	0.59 (हेक्टेयर)	0.59
46	45	सरकारी	गैर मुमकिन	8.13 (हेक्टेयर)	8.13
गांव का नाम: सांसर पिपलिया					
1	132	निजी	कृषि	0.68 (हेक्टेयर)	0.68
2	133	सरकारी	गैर मुमकिन	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
3	134	सरकारी	रास्ता	0.48 (हेक्टेयर)	0.48
4	139/2	सरकारी	गैर मुमकिन	19.91 (हेक्टेयर)	19.91
5	139/4	सरकारी	चारगाह	4.75 (हेक्टेयर)	4.75
6	158/1/1	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
7	158/1/13	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
8	158/1/15	निजी	कृषि	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
9	158/1/16	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
10	158/1/17	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
11	158/1/18	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
12	158/1/2	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
13	158/1/3	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
14	158/1/4	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
15	158/1/5	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
16	158/1/6	निजी	कृषि	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
17	158/1/7	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
18	158/2	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
19	161	निजी	कृषि	1.11 (हेक्टेयर)	1.11
20	162	सरकारी	च. गैर मुमकिन	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
21	163	निजी	कृषि	5.62 (हेक्टेयर)	5.62
22	168	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
23	169	निजी	कृषि	0.91 (हेक्टेयर)	0.91
24	170	सरकारी	आबादी	0.79 (हेक्टेयर)	0.79
25	171	निजी	कृषि	1.11 (हेक्टेयर)	1.11
26	173/1	निजी	कृषि	0.64 (हेक्टेयर)	0.64
27	175	सरकारी	नाला	0.72 (हेक्टेयर)	0.72

28	176	सरकारी	च. गैर मुमकिन	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
29	177	सरकारी	च. गैर मुमकिन	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
30	178	सरकारी	च. गैर मुमकिन	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
31	179	सरकारी	रास्ता	1.22 (हेक्टेयर)	1.22
32	212/1	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
33	212/2	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
34	212/3	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
35	212/4	निजी	कृषि	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
36	215	निजी	कृषि	0.79 (हेक्टेयर)	0.79
37	216	निजी	कृषि	0.63 (हेक्टेयर)	0.63
38	217/1	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
39	217/2	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
40	217/3	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
41	218	निजी	कृषि	0.85 (हेक्टेयर)	0.85
42	219	निजी	कृषि	0.44 (हेक्टेयर)	0.44
43	220	सरकारी	कुंआ	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
44	221	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
45	224	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
46	225	निजी	कृषि	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
47	226	निजी	कृषि	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
48	227	निजी	कृषि	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
49	228	सरकारी	चारनोई	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
50	229	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
51	230	निजी	कृषि	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
52	231	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
53	232	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
54	233	निजी	कृषि	0.39 (हेक्टेयर)	0.39
55	234	सरकारी	आबादी	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
56	238	निजी	कृषि	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
57	242	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15

58	243	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
59	244	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
60	246	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
61	247	निजी	कृषि	0.78 (हेक्टेयर)	0.78
62	248	निजी	कृषि	0.46 (हेक्टेयर)	0.46
63	249	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
64	250/1	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
65	250/2	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
66	251	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
67	252	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
68	253	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
69	254	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
70	256/min 1	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
71	256/min 2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
72	258/1	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
73	259	निजी	कृषि	0.63 (हेक्टेयर)	0.63
74	260/2	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
75	260/3	निजी	कृषि	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
76	262	सरकारी	गैर-काबिल कास्त	0.65 (हेक्टेयर)	0.65
77	263	निजी	कृषि	0.53 (हेक्टेयर)	0.53
78	263/295	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
79	263/296	सरकारी	कुंआ	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
80	263/297/min 1	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
81	263/297/min 2	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
82	264/1	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
83	264/2	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
84	281	सरकारी	नाला	0.97 (हेक्टेयर)	0.97
85	75	सरकारी	गैर मुमकिन	0.81 (हेक्टेयर)	0.81
86	76	सरकारी	रास्ता	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
87	77	निजी	कृषि	2.11 (हेक्टेयर)	2.11

88	78/1	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
89	78/2	निजी	कृषि	0.47 (हेक्टेयर)	0.47
90	79	निजी	कृषि	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
91	80	निजी	कृषि	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
गांव का नाम: सेदरामाता					
1	,13/1	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
2	,13/2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
3	,13/3	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
4	,13/4	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
5	,18/1	निजी	कृषि	0.53 (हेक्टेयर)	0.53
6	,18/2	निजी	कृषि	0.54 (हेक्टेयर)	0.54
7	,19/1	निजी	कृषि	0.55 (हेक्टेयर)	0.55
8	,19/2	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
9	10	सरकारी	चारनोई	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
10	11	निजी	कृषि	0.76 (हेक्टेयर)	0.76
11	14	सरकारी	गैर मुमकिन	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
12	15	सरकारी	गैर मुमकिन	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
13	16/min1	निजी	कृषि	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
14	16/min2	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
15	17	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
16	20	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
17	21	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
18	22	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
19	23	सरकारी	गैर मुमकिन	0.55 (हेक्टेयर)	0.55
20	24	सरकारी	नाला	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
21	25	निजी	कृषि	3.2 (हेक्टेयर)	3.2
22	26	निजी	कृषि	1.45 (हेक्टेयर)	1.45
23	27	निजी	कृषि	0.75 (हेक्टेयर)	0.75
24	28	निजी	कृषि	1.2 (हेक्टेयर)	1.2
25	31	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5

26	33	निजी	कृषि	1.08 (हेक्टेयर)	1.08
27	38	सरकारी	नाला	0.96 (हेक्टेयर)	0.96
28	48/1	सरकारी	गैर मुमकिन	0.59 (हेक्टेयर)	0.59
29	48/2	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
30	48/3	निजी	कृषि	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
31	49	निजी	कृषि	0.56 (हेक्टेयर)	0.56
32	50	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
33	53/1	निजी	कृषि	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
34	53/2	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
35	54	निजी	कृषि	1.18 (हेक्टेयर)	1.18
36	55	निजी	कृषि	0.76 (हेक्टेयर)	0.76
37	56	सरकारी	गैर मुमकिन	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
38	57	निजी	कृषि	0.62 (हेक्टेयर)	0.62
39	58	सरकारी	गैर मुमकिन	0.83 (हेक्टेयर)	0.83
40	59	सरकारी	रास्ता	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
41	60	सरकारी	गैर मुमकिन	22.25 (हेक्टेयर)	22.25
42	61	सरकारी	चारनोई	18.54 (हेक्टेयर)	18.54
43	62	सरकारी	कृषि	4.05 (हेक्टेयर)	4.05
44	68	निजी	कृषि	0.46 (हेक्टेयर)	0.46
45	69	निजी	कृषि	0.45 (हेक्टेयर)	0.45
46	70	निजी	कृषि	0.46 (हेक्टेयर)	0.46
47	71	सरकारी	रास्ता	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
48	9	सरकारी	गैर मुमकिन	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
गांव का नाम: सुरजनी					
1	189/ min 1	निजी	कृषि	0.75 (हेक्टेयर)	0.75
2	189/ min 2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
3	190	सरकारी	चारनोई	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
4	192/ min 1/min 1	निजी	कृषि	1.52 (हेक्टेयर)	1.52
5	192/ min 1/min 2/min 1	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
6	192/ min 1/min2/ min 2	निजी	कृषि	0.13 (हेक्टेयर)	0.13

7	192/ min 2/min 2/min 1	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
8	192/ min 2/min 2/min 2	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
9	192/ min2/min 1	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
10	193	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
11	194/min1/min1/min1	निजी	कृषि	1.34 (हेक्टेयर)	1.34
12	194/min1/min1/min2	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
13	194/min1/min1/min3	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
14	194/min1/min1/min4	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
15	194/min1/min2/min1	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
16	194/min1/min2/min2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
17	194/min2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
18	195	सरकारी	नाला	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
19	196	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
20	197	निजी	कृषि	3.64 (हेक्टेयर)	3.64
21	198/1	निजी	कृषि	1.15 (हेक्टेयर)	1.15
22	198/2	निजी	कृषि	2.01 (हेक्टेयर)	2.01
23	201	सरकारी	नाला	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
24	207/2	निजी	कृषि	0.86 (हेक्टेयर)	0.86
25	257	सरकारी	नाला	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
26	258	सरकारी	चारनोई	0.58 (हेक्टेयर)	0.58
27	469	निजी	कृषि	1.75 (हेक्टेयर)	1.75
28	474	निजी	कृषि	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
गांव का नाम: तितरोद					
1	100	सरकारी	चारनोई	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
2	103	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
3	104	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
4	105	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
5	1054/255	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
6	1055/255	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
7	1057/263	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24

8	1058/263	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
9	106	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
10	107	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
11	109	निजी	कृषि	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
12	110	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
13	111	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
14	112	निजी	कृषि	0.81 (हेक्टेयर)	0.81
15	113	निजी	कृषि	1.99 (हेक्टेयर)	1.99
16	114	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
17	115	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
18	116	निजी	कृषि	0.93 (हेक्टेयर)	0.93
19	137	निजी	कृषि	0.54 (हेक्टेयर)	0.54
20	138	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
21	139	सरकारी	चारनोई	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
22	140	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
23	141	निजी	कृषि	0.73 (हेक्टेयर)	0.73
24	142	निजी	कृषि	0.7 (हेक्टेयर)	0.7
25	207/1	सरकारी	चारनोई	5.22 (हेक्टेयर)	5.22
26	207/2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
27	207/3	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
28	207/4	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
29	207/5	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
30	208	सरकारी	तलाई	1.49 (हेक्टेयर)	1.49
31	211/1	सरकारी	काबिल कास्त	0.72 (हेक्टेयर)	0.72
32	211/2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
33	212	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
34	213	निजी	कृषि	0.82 (हेक्टेयर)	0.82
35	214	निजी	कृषि	0.58 (हेक्टेयर)	0.58
36	215	निजी	कृषि	0.47 (हेक्टेयर)	0.47
37	216/1	सरकारी	चारनोई	0.05 (हेक्टेयर)	0.05

38	216/2	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
39	217	सरकारी	तलाई	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
40	218	सरकारी	तलाई	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
41	219	सरकारी	तलाई	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
42	220	सरकारी	काबिल कास्त	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
43	221	निजी	कृषि	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
44	222	सरकारी	नाला	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
45	223	निजी	कृषि	0.74 (हेक्टेयर)	0.74
46	224	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
47	225	सरकारी	चारनोई	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
48	226	सरकारी	चारनोई	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
49	227	सरकारी	चारनोई	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
50	228	निजी	कृषि	1.25 (हेक्टेयर)	1.25
51	229	निजी	कृषि	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
52	230	निजी	कृषि	0.88 (हेक्टेयर)	0.88
53	232/1	निजी	कृषि	1 (हेक्टेयर)	1
54	232/2	सरकारी	चारनोई	4.09 (हेक्टेयर)	4.09
55	232/3	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
56	240	सरकारी	नाला	0.72 (हेक्टेयर)	0.72
57	242	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
58	251/1	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
59	251/2	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
60	252	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
61	253	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
62	254	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
63	255	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
64	256	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
65	257	निजी	कृषि	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
66	258min1	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
67	258min2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2

68	259min1	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
69	259min2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
70	260	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
71	261	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
72	262	निजी	कृषि	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
73	263	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
74	264	निजी	कृषि	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
75	265	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
76	266	सरकारी	चारनोई	1.74 (हेक्टेयर)	1.74
77	267	निजी	कृषि	0.31 (हेक्टेयर)	0.31
78	268	निजी	कृषि	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
79	271	सरकारी	चारनोई	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
80	272	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
81	273	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
82	274	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
83	275	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
84	276	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
85	277	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
86	278	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
87	279	सरकारी	रास्ता	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
88	280	सरकारी	रास्ता	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
89	281/1	निजी	कृषि	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
90	281/2	निजी	कृषि	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
91	281/3	निजी	कृषि	0.37 (हेक्टेयर)	0.37
92	35	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
93	36/1	निजी	कृषि	1.7 (हेक्टेयर)	1.7
94	36/2	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
95	40	सरकारी	रास्ता	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
96	403	निजी	कृषि	1.12 (हेक्टेयर)	1.12
97	404	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3

98	405	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
99	406/1	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
100	406/2	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
101	407	निजी	कृषि	0.45 (हेक्टेयर)	0.45
102	408	निजी	कृषि	0.91 (हेक्टेयर)	0.91
103	409	निजी	कृषि	0.45 (हेक्टेयर)	0.45
104	410/1	निजी	कृषि	0.55 (हेक्टेयर)	0.55
105	410/2	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
106	410/3	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
107	410/4	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
108	411	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
109	412/1	निजी	कृषि	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
110	412/2	निजी	कृषि	0.88 (हेक्टेयर)	0.88
111	413	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
112	414/1	निजी	कृषि	0.39 (हेक्टेयर)	0.39
113	414/2	निजी	कृषि	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
114	415	निजी	कृषि	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
115	416	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
116	417	निजी	कृषि	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
117	44	निजी	कृषि	1.1 (हेक्टेयर)	1.1
118	45	निजी	कृषि	1.01 (हेक्टेयर)	1.01
119	46	निजी	कृषि	0.47 (हेक्टेयर)	0.47
120	47	सरकारी	चारनोई	0.87 (हेक्टेयर)	0.87
121	48	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
122	49	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
123	491	सरकारी	रास्ता	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
124	493	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
125	493/1	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
126	493/2	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
127	493/3	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2

128	493/4	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
129	494	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
130	495	निजी	कृषि	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
131	496	निजी	कृषि	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
132	497	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
133	498	निजी	कृषि	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
134	499	निजी	कृषि	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
135	50	सरकारी	चारनोई	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
136	500	निजी	कृषि	0.65 (हेक्टेयर)	0.65
137	501min1	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
138	501min2	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
139	502/1	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
140	502/2	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
141	502/3	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
142	503/1	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
143	503/2	निजी	कृषि	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
144	504	निजी	कृषि	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
145	505	निजी	कृषि	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
146	52	सरकारी	चारनोई	0.55 (हेक्टेयर)	0.55
147	53	सरकारी	चारनोई	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
148	54	सरकारी	चारनोई	1.9 (हेक्टेयर)	1.9
149	55min1	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
150	55min2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
151	56	सरकारी	नाला	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
152	562	सरकारी	नाला	1.6 (हेक्टेयर)	1.6
153	57/min1/min1/min1	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
154	57/min1/min1/min2	निजी	कृषि	1.05 (हेक्टेयर)	1.05
155	57/min1/min2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
156	57/min1/min3	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
157	57/min2	निजी	कृषि	0.42 (हेक्टेयर)	0.42

158	57/min3	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
159	58/min1/min1/min1	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
160	58/min1/min1/min2	निजी	कृषि	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
161	58/min1/min2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
162	58/min2/min1/min1	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
163	58/min2/min1/min2	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
164	58/min2/min2	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
165	59	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
166	60	निजी	कृषि	0.55 (हेक्टेयर)	0.55
167	61	निजी	कृषि	0.55 (हेक्टेयर)	0.55
168	62	निजी	कृषि	0.78 (हेक्टेयर)	0.78
169	63	सरकारी	नाला	1.55 (हेक्टेयर)	1.55
170	73	निजी	कृषि	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
171	74	निजी	कृषि	0.37 (हेक्टेयर)	0.37
172	75	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
173	76	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
174	77	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
175	78	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
176	79	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
177	80	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
178	81	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
179	82	सरकारी	रास्ता	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
180	83	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
181	95	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
182	96	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
183	97min1	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
184	97min2	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
185	98	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
186	99	सरकारी	नाला	0.46 (हेक्टेयर)	0.46

तालुक का नाम: सुवासरा

गांव का नाम: धानडी					
1	128	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
2	129	निजी	परात	0.88 (हेक्टेयर)	0.88
3	130	सरकारी	चारनोई	0.48 (हेक्टेयर)	0.48
4	131/1	सरकारी	चारनोई	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
5	131/2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
6	131/3	निजी	कृषि	0.6 (हेक्टेयर)	0.6
7	131/4	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
8	131/5	निजी	कृषि	0.75 (हेक्टेयर)	0.75
9	134	निजी	कृषि	1.07 (हेक्टेयर)	1.07
10	135/1	निजी	कृषि	0.66 (हेक्टेयर)	0.66
11	135/2	सरकारी	चारनोई	1 (हेक्टेयर)	1
12	136	सरकारी	चारनोई	0.26 (हेक्टेयर)	0.26
13	137	निजी	कृषि	0.39 (हेक्टेयर)	0.39
14	138	निजी	कृषि	0.87 (हेक्टेयर)	0.87
15	139	निजी	कृषि	0.29 (हेक्टेयर)	0.29
16	143	निजी	कृषि	0.37 (हेक्टेयर)	0.37
17	144	निजी	कृषि	0.37 (हेक्टेयर)	0.37
18	145	निजी	कृषि	1.16 (हेक्टेयर)	1.16
19	146	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
20	159	निजी	कृषि	0.58 (हेक्टेयर)	0.58
21	160	सरकारी	चारनोई	1.17 (हेक्टेयर)	1.17
22	161	निजी	कृषि	0.76 (हेक्टेयर)	0.76
23	171	निजी	कृषि	0.54 (हेक्टेयर)	0.54
24	172	निजी	कृषि	0.51 (हेक्टेयर)	0.51
25	174	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
26	175	निजी	कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
27	176	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
28	177	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
29	179/min 1	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32

30	179/min 2	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
31	180	निजी	कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
32	181	निजी	कृषि	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
33	182	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
34	183	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
35	184	निजी	कृषि	0.43 (हेक्टेयर)	0.43
36	185	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
37	186	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
38	192/4	निजी	कृषि	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
39	193	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
40	194	सरकारी	नाला	0.65 (हेक्टेयर)	0.65
41	195	निजी	कृषि	0.63 (हेक्टेयर)	0.63
42	196	निजी	कृषि	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
43	197	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
44	198	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
45	199	निजी	कृषि	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
46	200	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
47	202/min 1	निजी	कृषि	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
48	202/min 2	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
49	203/min 1	निजी	कृषि	0.35 (हेक्टेयर)	0.35
50	203/min 2	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
51	204	निजी	कृषि	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
52	205	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
53	206	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
54	207	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
55	208	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
56	209	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
57	340	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
58	341	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
59	342	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21

60	344	निजी	कृषि	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
61	356	निजी	कृषि	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
62	357	निजी	कृषि	0.45 (हेक्टेयर)	0.45
63	359/1	निजी	कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
64	359/2	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
65	393/1	निजी	कृषि	0.64 (हेक्टेयर)	0.64
66	401/1	सरकारी	काबिल कास्त	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
67	401/2	सरकारी	काबिल कास्त	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
68	401/3	निजी	कृषि	0.48 (हेक्टेयर)	0.48
69	401/4	सरकारी	चारनोई	0.87 (हेक्टेयर)	0.87
70	402	सरकारी	चारनोई	1.3 (हेक्टेयर)	1.3
71	403	निजी	कृषि	2.24 (हेक्टेयर)	2.24
72	404/1	निजी	कृषि	0.83 (हेक्टेयर)	0.83
73	404/2	निजी	कृषि	0.46 (हेक्टेयर)	0.46
74	421	निजी	कृषि	0.41 (हेक्टेयर)	0.41
75	422/1	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
76	422/2	निजी	कृषि	0.44 (हेक्टेयर)	0.44
77	423	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
78	425	निजी	कृषि	0.52 (हेक्टेयर)	0.52
79	427	निजी	कृषि	0.65 (हेक्टेयर)	0.65
80	428	निजी	कृषि	0.33 (हेक्टेयर)	0.33
81	429/min 1	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
82	429/min 2	निजी	कृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
83	430	निजी	कृषि	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
84	431	निजी	कृषि	0.42 (हेक्टेयर)	0.42
85	432	निजी	कृषि	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
86	433	सरकारी	चारनोई	0.68 (हेक्टेयर)	0.68
87	434	निजी	कृषि	0.91 (हेक्टेयर)	0.91
88	435	निजी	कृषि	0.76 (हेक्टेयर)	0.76
89	436	निजी	कृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16

90	437	निजी	कृषि	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
91	438	निजी	कृषि	1.7 (हेक्टेयर)	1.7
92	439	निजी	कृषि	0.5 (हेक्टेयर)	0.5
93	440	निजी	कृषि	0.61 (हेक्टेयर)	0.61
94	441	सरकारी	खेडा	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
95	442	निजी	कृषि	0.33 (हेक्टेयर)	0.33
96	443	निजी	कृषि	0.33 (हेक्टेयर)	0.33
97	444	निजी	कृषि	0.33 (हेक्टेयर)	0.33
98	447	निजी	कृषि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
99	448	निजी	कृषि	0.87 (हेक्टेयर)	0.87
कुल				1,453.7661	1,453.7661

[फा. सं. NHA/PIU-RTM/BM/DVE-MP/2018/LA/3A7]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th September, 2018

S.O. 4299(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH148N in the stretch of land from Km. 84.84 to Km. 113.6 in the district of Mandsaur in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer (Revenue) Sitamau in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH148N in the stretch of land from Km 84.84 to Km 113.6 in the district of Mandsaur in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH District: Mandsaur					
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Sitamau					
Village: Bardawadi					
1	100	Private	Agriculture	0.52 (Hectare)	0.52
2	101	Private	Agriculture	0.82 (Hectare)	0.82
3	115 min1	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
4	115/min 3	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
5	115/min 4	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
6	115/min 5	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
7	115/min2/min1	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
8	115/min2/min2	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
9	115/min2/min3	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
10	116	Government	Padat Kadim	0.03 (Hectare)	0.03
11	117	Private	Agriculture	0.89 (Hectare)	0.89
12	177	Government	Rasta	0.56 (Hectare)	0.56
13	180	Government	Rasta	0.128 (Hectare)	0.128
14	186	Private	Agriculture	1.35 (Hectare)	1.35
15	189	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
16	190/1	Private	Agriculture	0.38 (Hectare)	0.38
17	190/2	Private	Agriculture	0.38 (Hectare)	0.38
18	191	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
19	192	Government	Rasta	0.09 (Hectare)	0.09
20	193	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
21	194	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
22	195	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
23	196	Private	Agriculture	1.58 (Hectare)	1.58
24	197	Private	Agriculture	0.99 (Hectare)	0.99
25	198	Private	Agriculture	1.62 (Hectare)	1.62
26	199	Private	Agriculture	1.16 (Hectare)	1.16
27	200	Private	Non Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
28	201	Private	Agriculture	1.6 (Hectare)	1.6
29	202	Private	Agriculture	0.47 (Hectare)	0.47

30	203/1	Private	Agriculture	0.77 (Hectare)	0.77
31	203/2	Private	Agriculture	0.77 (Hectare)	0.77
32	204	Private	Agriculture	1.55 (Hectare)	1.55
33	213	Private	Agriculture	3.36 (Hectare)	3.36
34	214	Private	Agriculture	1.91 (Hectare)	1.91
35	215 min 2	Private	Agriculture	0.96 (Hectare)	0.96
36	215 min1	Private	Agriculture	1.01 (Hectare)	1.01
37	216	Government	Rasta	0.9 (Hectare)	0.9
38	54/2/min 3	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
39	54/min 1	Private	Agriculture	0.42 (Hectare)	0.42
40	54/min2/min 1	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
41	54/min2/min2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
42	55	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
43	56	Private	Agriculture	0.42 (Hectare)	0.42
44	59	Private	Agriculture	0.47 (Hectare)	0.47
45	60	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
46	61	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
47	62	Private	Agriculture	0.47 (Hectare)	0.47
48	63	Private	Agriculture	0.47 (Hectare)	0.47
49	64	Private	Agriculture	0.28 (Hectare)	0.28
50	65	Private	Agriculture	0.28 (Hectare)	0.28
51	66	Private	Agriculture	0.28 (Hectare)	0.28
52	67	Private	Agriculture	0.28 (Hectare)	0.28
53	68	Private	Agriculture	0.36 (Hectare)	0.36
54	69	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
55	74	Private	Agriculture	0.63 (Hectare)	0.63
56	75/1 min 1	Private	Agriculture	0.56 (Hectare)	0.56
57	75/1 min 2	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
58	75/2	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
59	75/3	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
60	76	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
61	77/1	Private	Agriculture	0.63 (Hectare)	0.63
62	77/2	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
63	77/3	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
64	77/4	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
65	78	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
66	81/min-1	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
67	81/min-2/min-1	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08

68	81/min-3	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
69	81/min-4	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
70	83/min 1	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
71	83/min 2/min 1	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
72	83/min 2/min 2	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
73	83/min 2/min 3	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
74	83/min 3	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
75	83/min 4	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
76	83/min 5	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
77	84/1	Private	Agriculture	0.56 (Hectare)	0.56
78	84/2	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
79	84/3	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
80	85	Private	Agriculture	0.27 (Hectare)	0.27
81	86	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
82	87/1	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
83	87/2	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
84	88	Government	Gair Mumkin	0.1 (Hectare)	0.1
85	89/1	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
86	89/2	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
87	90/1	Private	Agriculture	0.52 (Hectare)	0.52
88	90/2	Private	Agriculture	0.52 (Hectare)	0.52
89	91	Private	Agriculture	1.23 (Hectare)	1.23
90	92/1	Private	Agriculture	0.63 (Hectare)	0.63
91	92/2	Private	Agriculture	0.62 (Hectare)	0.62
92	93	Private	Agriculture	1.18 (Hectare)	1.18
93	94	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
94	95/1	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
95	95/2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
96	96	Government	Seda	0.04 (Hectare)	0.04
97	97	Government	Gair Mumkin	0.32 (Hectare)	0.32
98	98	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
99	99	Government	Rasta	0.03 (Hectare)	0.03
Village: Belari					
1	100	Private	Agriculture	1.02 (Hectare)	1.02
2	101	Government	Seda	0.16 (Hectare)	0.16
3	102	Private	Agriculture	0.86 (Hectare)	0.86
4	103	Private	Agriculture	1.28 (Hectare)	1.28
5	104	Private	Agriculture	1.43 (Hectare)	1.43

6	105	Private	Non Agriculture	0.46 (Hectare)	0.46
7	105	Private	Agriculture	0.46 (Hectare)	0.46
8	106	Private	Agriculture	0.69 (Hectare)	0.69
9	110	Government	Rasta	0.61 (Hectare)	0.61
10	111	Private	Non Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
11	116	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
12	117	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
13	118	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
14	119	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
15	120	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
16	121	Private	Agriculture	0.81 (Hectare)	0.81
17	122	Private	Agriculture	1.13 (Hectare)	1.13
18	123/min 1	Private	Agriculture	0.65 (Hectare)	0.65
19	123/min 2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
20	125	Private	Agriculture	0.42 (Hectare)	0.42
21	132	Private	Agriculture	1.74 (Hectare)	1.74
22	133	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
23	134	Government	Charnoi	0.27 (Hectare)	0.27
24	135/min 1	Private	Agriculture	1.67 (Hectare)	1.67
25	135/min 2	Private	Agriculture	1.68 (Hectare)	1.68
26	136	Private	Agriculture	2.09 (Hectare)	2.09
27	137	Private	Agriculture	0.52 (Hectare)	0.52
28	138	Private	Agriculture	0.52 (Hectare)	0.52
29	139	Private	Agriculture	0.84 (Hectare)	0.84
30	140	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
31	141	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
32	154/min 1	Private	Agriculture	0.36 (Hectare)	0.36
33	154/min 2	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
34	155	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
35	156	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
36	157	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
37	158	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
38	159	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
39	160	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
40	161	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
41	162	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
42	163	Private	Non-agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
43	164	Government	Charnoi	2.04 (Hectare)	2.04

44	165	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
45	166	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
46	170	Private	Agriculture	3.14 (Hectare)	3.14
47	174	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
48	175	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
49	176	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
50	177	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
51	178	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
52	179	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
53	180	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
54	181	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
55	182	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
56	183	Government	Charnoi	1.95 (Hectare)	1.95
57	186	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
58	187	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
59	189	Government	Chambal River	21.3 (Hectare)	21.3
60	323	Government	Charnoi	10.08 (Hectare)	10.08
61	369	Government	Rasta	2.43 (Hectare)	2.43
62	39	Private	Agriculture	1.14 (Hectare)	1.14
63	40	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
64	41	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
65	42	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
66	43	Government	Charnoi	0.78 (Hectare)	0.78
67	44	Private	Agriculture	0.9 (Hectare)	0.9
68	45	Private	Agriculture	0.9 (Hectare)	0.9
69	450	Private	Agriculture	1.12 (Hectare)	1.12
70	454	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
71	455	Private	Agriculture	0.61 (Hectare)	0.61
72	456	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
73	457	Private	Agriculture	0.88 (Hectare)	0.88
74	459	Private	Agriculture	0.91 (Hectare)	0.91
75	46	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
76	460	Private	Agriculture	0.92 (Hectare)	0.92
77	461	Private	Agriculture	0.92 (Hectare)	0.92
78	462	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
79	463	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
80	465	Government	Rasta	0.4 (Hectare)	0.4
81	466	Private	Agriculture	0.31 (Hectare)	0.31

82	467	Private	Agriculture	0.31 (Hectare)	0.31
83	468	Private	Agriculture	1.6 (Hectare)	1.6
84	469	Private	Agriculture	0.43 (Hectare)	0.43
85	47	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
86	470	Private	Agriculture	0.72 (Hectare)	0.72
87	471	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
88	472	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
89	473	Government	Charnoi	0.1 (Hectare)	0.1
90	476	Private	Non-agriculture	2.27 (Hectare)	2.27
91	477	Private	Agriculture	1.42 (Hectare)	1.42
92	478	Private	Agriculture	1.01 (Hectare)	1.01
93	50	Private	Agriculture	1.25 (Hectare)	1.25
94	503	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
95	504	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
96	505	Private	Agriculture	2.02 (Hectare)	2.02
97	507	Government	Road	4.68 (Hectare)	4.68
98	508	Private	Non-agriculture	1.01 (Hectare)	1.01
99	509	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
100	510	Private	Agriculture	0.51 (Hectare)	0.51
101	511	Private	Agriculture	0.71 (Hectare)	0.71
102	512	Private	Agriculture	0.83 (Hectare)	0.83
103	513	Private	Agriculture	0.83 (Hectare)	0.83
104	514	Private	Agriculture	0.83 (Hectare)	0.83
105	515	Private	Agriculture	0.83 (Hectare)	0.83
106	54	Private	Agriculture	0.73 (Hectare)	0.73
107	97	Private	Agriculture	0.52 (Hectare)	0.52
108	98	Private	Agriculture	0.75 (Hectare)	0.75
109	99	Private	Agriculture	0.75 (Hectare)	0.75
Village: Bhuwangarh					
1	10	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
2	166/min 1	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
3	166/min 2	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
4	166/min 3	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
5	166/min 4	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
6	167	Private	Agriculture	1.05 (Hectare)	1.05
7	168	Government	Charnoi	0.61 (Hectare)	0.61
8	169	Private	Agriculture	0.73 (Hectare)	0.73
9	170/min 1	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2

10	170/min 2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
11	170/min 3	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
12	186	Private	Agriculture	0.27 (Hectare)	0.27
13	187	Private	Agriculture	0.61 (Hectare)	0.61
14	188	Private	Agriculture	0.31 (Hectare)	0.31
15	189	Private	Agriculture	0.93 (Hectare)	0.93
16	190	Private	Agriculture	0.51 (Hectare)	0.51
17	191	Private	Agriculture	0.27 (Hectare)	0.27
18	192	Private	Agriculture	0.57 (Hectare)	0.57
19	193	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
20	194	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
21	195	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
22	196	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
23	197	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
24	2	Private	Agriculture	0.302 (Hectare)	0.302
25	26/min 1	Private	Agriculture	0.36 (Hectare)	0.36
26	26/min 2	Private	Agriculture	0.37 (Hectare)	0.37
27	27	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
28	28	Private	Agriculture	0.83 (Hectare)	0.83
29	29	Private	Agriculture	0.73 (Hectare)	0.73
30	30	Private	Agriculture	0.33 (Hectare)	0.33
31	311	Private	Agriculture	0.75 (Hectare)	0.75
32	312	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
33	313	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
34	314	Private	Agriculture	0.75 (Hectare)	0.75
35	315	Private	Agriculture	1.55 (Hectare)	1.55
36	316	Private	Agriculture	1.34 (Hectare)	1.34
37	317	Private	Agriculture	0.42 (Hectare)	0.42
38	318	Private	Agriculture	1.38 (Hectare)	1.38
39	320	Private	Agriculture	2.1 (Hectare)	2.1
40	321	Private	Agriculture	1.3 (Hectare)	1.3
41	322	Private	Agriculture	1.21 (Hectare)	1.21
42	324/min 1	Private	Agriculture	1.58 (Hectare)	1.58
43	324/min 2	Private	Agriculture	0.79 (Hectare)	0.79
44	325	Private	Agriculture	0.42 (Hectare)	0.42
45	326	Private	Agriculture	0.42 (Hectare)	0.42
46	327	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
47	328	Private	Agriculture	0.44 (Hectare)	0.44

48	329	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
49	332	Private	Agriculture	0.83 (Hectare)	0.83
50	335	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
51	336	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
52	337	Private	Agriculture	0.57 (Hectare)	0.57
53	339	Private	Agriculture	1.37 (Hectare)	1.37
54	4	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
55	48	Private	Agriculture	0.66 (Hectare)	0.66
56	5	Private	Agriculture	0.51 (Hectare)	0.51
57	51	Private	Agriculture	0.84 (Hectare)	0.84
58	52	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
59	53	Private	Agriculture	1.13 (Hectare)	1.13
60	54	Private	Agriculture	1.51 (Hectare)	1.51
61	55/min 1	Private	Agriculture	0.92 (Hectare)	0.92
62	55/min 2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
63	56	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
64	57	Private	Agriculture	1.36 (Hectare)	1.36
65	58/min 1	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
66	58/min 2	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
67	59	Private	Agriculture	0.85 (Hectare)	0.85
68	6	Private	Agriculture	2.25 (Hectare)	2.25
69	60	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
70	61	Private	Agriculture	0.98 (Hectare)	0.98
71	62	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
72	63	Private	Agriculture	0.99 (Hectare)	0.99
73	64	Private	Agriculture	1.07 (Hectare)	1.07
74	65	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
75	7	Private	Agriculture	1.16 (Hectare)	1.16
76	8	Private	Agriculture	0.97 (Hectare)	0.97
77	9	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
78	99	Government	Rasta	2.48 (Hectare)	2.48
Village: Chahkhedi					
1	722	Private	Agriculture	1.01 (Hectare)	1.01
2	723	Government	Charnoi	0.57 (Hectare)	0.57
3	724	Private	Agriculture	0.38 (Hectare)	0.38
4	725	Private	Agriculture	1.2 (Hectare)	1.2
5	733	Private	Agriculture	1.07 (Hectare)	1.07
6	734	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1

7	734/812	Private	Agriculture	0.79 (Hectare)	0.79
8	735	Private	Agriculture	1.6 (Hectare)	1.6
9	744	Private	Agriculture	0.82 (Hectare)	0.82
10	746/min 1	Private	Agriculture	1.19 (Hectare)	1.19
11	746/min 2	Private	Agriculture	1.18 (Hectare)	1.18
12	747	Government	Charnoi	0.71 (Hectare)	0.71
Village: Chhatrapura					
1	1	Private	Agriculture	1.69 (Hectare)	1.69
2	185	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
3	186	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
4	189/min 1	Private	Agriculture	0.71 (Hectare)	0.71
5	189/min 2	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
6	190/1/1	Private	Non-agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
7	190/1/2	Private	Non-agriculture	0.31 (Hectare)	0.31
8	190/2	Private	Non-agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
9	191	Government	Rasta	0.7 (Hectare)	0.7
10	192	Private	Agriculture	0.78 (Hectare)	0.78
11	193	Private	Non-agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
12	194	Private	Non-agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
13	195	Private	Non-agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
14	196	Private	Non-agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
15	197	Private	Non-agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
16	198	Private	Agriculture	0.78 (Hectare)	0.78
17	2	Government	Rasta	0.84 (Hectare)	0.84
18	201	Private	Agriculture	0.65 (Hectare)	0.65
19	202	Private	Agriculture	1.82 (Hectare)	1.82
20	203	Private	Non-agriculture	0.93 (Hectare)	0.93
21	204	Government	Rasta	0.92 (Hectare)	0.92
22	205	Private	Non-agriculture	0.65 (Hectare)	0.65
23	206/1	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
24	207	Private	Agriculture	1.21 (Hectare)	1.21
25	208	Private	Agriculture	2.05 (Hectare)	2.05
26	209	Government	Kankad	0.65 (Hectare)	0.65
27	210	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
28	211	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
29	212	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
30	213	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
31	214/1	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23

32	214/2	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
33	215/min 1	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
34	215/min 2/min 1	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
35	215/min 2/min 2	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
36	3/1	Private	Agriculture	1.03 (Hectare)	1.03
37	3/2	Private	Agriculture	0.43 (Hectare)	0.43
38	3/3	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
39	329	Government	Nala	0.75 (Hectare)	0.75
40	342 / min 1	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
41	342/min 2	Government(Water Resources Department)	Dub	1.21 (Hectare)	1.21
42	344	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
43	40/1	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
44	40/2	Private	Agriculture	1.23 (Hectare)	1.23
45	41	Private	Agriculture	0.97 (Hectare)	0.97
46	42	Private	Agriculture	1.37 (Hectare)	1.37
47	43	Private	Agriculture	0.81 (Hectare)	0.81
48	45/min 1	Private	Non-agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
49	45/min 2/min 2	Private	Non-agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
50	45/min 2/min 1	Private	Non-agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
51	46	Private	Agriculture	2.1 (Hectare)	2.1
52	47	Private	Agriculture	1.47 (Hectare)	1.47
53	48/1	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
54	48/2	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
55	50/1	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
56	50/2	Private	Agriculture	1.01 (Hectare)	1.01
57	50/3/1	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
58	50/3/2	Private	Agriculture	1.4 (Hectare)	1.4
59	51	Private	Agriculture	0.44 (Hectare)	0.44
60	52	Private	Agriculture	0.44 (Hectare)	0.44
61	53	Private	Agriculture	0.64 (Hectare)	0.64
62	54	Private	Agriculture	0.58 (Hectare)	0.58
63	55	Private	Agriculture	0.48 (Hectare)	0.48
64	63	Private	Agriculture	3.21 (Hectare)	3.21
65	64	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
66	65/1	Private	Agriculture	0.51 (Hectare)	0.51
67	65/2	Private	Agriculture	1.61 (Hectare)	1.61
68	66	Private	Agriculture	1.54 (Hectare)	1.54
69	67/1	Private	Agriculture	0.53 (Hectare)	0.53

70	67/2	Private	Agriculture	0.94 (Hectare)	0.94
71	68	Government	Temple	0.8 (Hectare)	0.8
72	69	Government	Temple	1.78 (Hectare)	1.78
73	70	Private	Agriculture	0.68 (Hectare)	0.68
74	71/1	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
75	71/2/min 1	Private	Agriculture	0.52 (Hectare)	0.52
76	71/2/min 2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
77	72	Private	Agriculture	1.01 (Hectare)	1.01
78	73/1/min 1	Private	Agriculture	0.56 (Hectare)	0.56
79	73/1/min 2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
80	73/2	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
81	74	Government	Kankad	0.48 (Hectare)	0.48
82	75	Private	Agriculture	0.62 (Hectare)	0.62
83	80	Private	Agriculture	0.52 (Hectare)	0.52
84	81	Private	Agriculture	2.19 (Hectare)	2.19
Village: Dalawada					
1	1242/1	Government	Charnoi	1.22 (Hectare)	1.22
2	1242/2	Private	Agriculture	0.27 (Hectare)	0.27
3	1287/1	Government	Charnoi	1.1 (Hectare)	1.1
4	1287/2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
5	1290	Government	Kankad	0.15 (Hectare)	0.15
6	1291/1	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
7	1291/2	Private	Agriculture	0.58 (Hectare)	0.58
8	1292	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
9	1293	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
10	1294	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
11	1295	Private	Agriculture	0.9 (Hectare)	0.9
12	1296	Private	Agriculture	0.97 (Hectare)	0.97
13	1297	Private	Agriculture	0.82 (Hectare)	0.82
14	1298	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
15	1301	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
16	1302	Private	Agriculture	0.65 (Hectare)	0.65
17	1303	Private	Agriculture	0.85 (Hectare)	0.85
18	1304	Private	Agriculture	0.58 (Hectare)	0.58
19	1305	Government	Charnoi	0.63 (Hectare)	0.63
20	1306	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
21	1307	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
22	1308	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26

23	1309/min 1	Private	Agriculture	1.44 (Hectare)	1.44
24	1309/min 2	Private	Agriculture	0.27 (Hectare)	0.27
25	1310	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
26	1311	Private	Agriculture	1.5 (Hectare)	1.5
27	1312/1	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
28	1312/2	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
29	1313	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
30	1314	Government	Charnoi	1.16 (Hectare)	1.16
31	1315	Private	Agriculture	2.32 (Hectare)	2.32
32	1316	Private	Agriculture	1.88 (Hectare)	1.88
33	1317	Private	Agriculture	1.35 (Hectare)	1.35
34	1320	Government	Rasta	0.89 (Hectare)	0.89
35	1323	Private	Agriculture	0.66 (Hectare)	0.66
36	1324	Private	Agriculture	0.66 (Hectare)	0.66
37	1325/1	Government	Rasta	1 (Hectare)	1
38	1325/10	Government	Non-Kabil kast	3.46 (Hectare)	3.46
39	1325/2	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
40	1325/3	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
41	1325/4	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
42	1325/5	Government	Rasta	0.45 (Hectare)	0.45
43	1325/6	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
44	1325/7	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
45	1325/8	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
46	1325/9	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
47	1326	Private	Agriculture	1.26 (Hectare)	1.26
48	1327	Private	Agriculture	1.15 (Hectare)	1.15
49	1328	Private	Agriculture	0.43 (Hectare)	0.43
50	1329	Private	Agriculture	0.43 (Hectare)	0.43
51	1330	Private	Agriculture	0.44 (Hectare)	0.44
52	1331	Private	Agriculture	2.48 (Hectare)	2.48
53	1332	Private	Agriculture	2.14 (Hectare)	2.14
54	1335	Government	Kankad	1.37 (Hectare)	1.37
55	483	Government	Charnoi	8.04 (Hectare)	8.04
56	484	Government	Nala	0.4 (Hectare)	0.4
57	490/3,490/2	Government	Charnoi	1.06 (Hectare)	1.06
58	490/4	Government	Charnoi	1.06 (Hectare)	1.06
59	494	Private	Agriculture	1.8 (Hectare)	1.8
60	495/min 1	Private	Agriculture	1.28 (Hectare)	1.28

61	495/min 2	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
62	497	Private	Agriculture	0.91 (Hectare)	0.91
63	498	Private	Agriculture	0.78 (Hectare)	0.78
64	499	Private	Agriculture	0.75 (Hectare)	0.75
65	502	Private	Agriculture	2.27 (Hectare)	2.27
66	503	Government	Rasta	0.4 (Hectare)	0.4
67	504/1/1	Government	Charnoi	1.5 (Hectare)	1.5
68	504/1/2	Government	Charnoi	2.6 (Hectare)	2.6
69	504/10	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
70	504/14	Government	Rasta	0.3 (Hectare)	0.3
71	504/15	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
72	504/16	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
73	504/17	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
74	504/2	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
75	504/22	Government	Charnoi	0.95 (Hectare)	0.95
76	504/23	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
77	504/24	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
78	504/25	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
79	504/26	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
80	504/27	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
81	504/3	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
82	504/4	Government	Charnoi	0.4 (Hectare)	0.4
83	504/6	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
84	504/7	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
85	504/8	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
86	504/9	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
87	505	Private	Agriculture	0.87 (Hectare)	0.87
88	505/5	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
89	506/min 1	Private	Agriculture	0.65 (Hectare)	0.65
90	506/min 2	Private	Agriculture	0.65 (Hectare)	0.65
Village: Dalkhedi					
1	101	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
2	104	Private	Agriculture	0.88 (Hectare)	0.88
3	106/1	Private	Agriculture	0.46 (Hectare)	0.46
4	107	Private	Agriculture	0.81 (Hectare)	0.81
5	108	Private	Agriculture	0.79 (Hectare)	0.79
6	16	Private	Agriculture	0.98 (Hectare)	0.98
7	186	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17

8	187	Private	Agriculture	0.42 (Hectare)	0.42
9	188	Private	Agriculture	0.33 (Hectare)	0.33
10	189	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
11	190	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
12	191	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
13	192	Private	Agriculture	0.19 (Hectare)	0.19
14	193	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
15	194	Private	Agriculture	0.86 (Hectare)	0.86
16	195	Private	Agriculture	0.28 (Hectare)	0.28
17	20	Government	Nala	0.65 (Hectare)	0.65
18	21	Private	Agriculture	0.45 (Hectare)	0.45
19	211	Government	Rasta	1.59 (Hectare)	1.59
20	212/1	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
21	212/2	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
22	22	Private	Agriculture	1.28 (Hectare)	1.28
23	221/1	Private	Agriculture	0.63 (Hectare)	0.63
24	222	Government	Seda	0.14 (Hectare)	0.14
25	223	Private	Agriculture	0.95 (Hectare)	0.95
26	224	Government	Seda	0.11 (Hectare)	0.11
27	225	Private	Agriculture	0.7 (Hectare)	0.7
28	226/min 1	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
29	226/min 2	Private	Agriculture	1.07 (Hectare)	1.07
30	227	Government	Seda	0.15 (Hectare)	0.15
31	228	Government	Kankad	0.38 (Hectare)	0.38
32	229/min 1	Private	Agriculture	0.34 (Hectare)	0.34
33	229/min 2	Private	Agriculture	1.2 (Hectare)	1.2
34	23	Private	Agriculture	0.51 (Hectare)	0.51
35	230	Government	Margat	0.21 (Hectare)	0.21
36	231	Government	Kankad	0.57 (Hectare)	0.57
37	232/1	Private	Agriculture	1.25 (Hectare)	1.25
38	232/2	Private	Agriculture	2.28 (Hectare)	2.28
39	232/3	Private	Agriculture	0.75 (Hectare)	0.75
40	237	Private	Agriculture	0.76 (Hectare)	0.76
41	25	Private	Agriculture	0.38 (Hectare)	0.38
42	26	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
43	52	Private	Agriculture	0.57 (Hectare)	0.57
44	53	Private	Agriculture	1.79 (Hectare)	1.79
45	61	Private	Agriculture	1.67 (Hectare)	1.67

46	62	Government	Seda	0.29 (Hectare)	0.29
47	63	Private	Agriculture	0.97 (Hectare)	0.97
48	64	Government	Seda	0.04 (Hectare)	0.04
49	65	Private	Agriculture	1.02 (Hectare)	1.02
50	66	Government	Seda	0.03 (Hectare)	0.03
51	67	Private	Agriculture	0.47 (Hectare)	0.47
52	68	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
53	69	Government	Seda	0.06 (Hectare)	0.06
54	70	Government	Animal Restroom	0.42 (Hectare)	0.42
55	71	Government	Gair Mumkin	0.24 (Hectare)	0.24
56	72	Government	Charnoi	1.58 (Hectare)	1.58
57	73	Government	Yellow Soil Khadan	0.2 (Hectare)	0.2
58	74/10	Government	Ground	2 (Hectare)	2
59	74/11	Government	Rasta	0.56 (Hectare)	0.56
60	74/16	Government	School	0.3 (Hectare)	0.3
61	74/3	Government	Charnoi	0.11 (Hectare)	0.11
62	74/4	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
63	74/5	Government	Charnoi	0.88 (Hectare)	0.88
64	74/6	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
65	74/7	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
66	74/8	Government	Charnoi	0.63 (Hectare)	0.63
67	74/9	Government	Charnoi	0.18 (Hectare)	0.18
68	76	Government	Rasta	1.21 (Hectare)	1.21
69	82	Private	Agriculture	0.66 (Hectare)	0.66
70	83	Private	Agriculture	1.18 (Hectare)	1.18
71	84/2	Private	Agriculture	1.05 (Hectare)	1.05
72	86/2	Private	Agriculture	0.52 (Hectare)	0.52
73	87/1	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
74	87/2	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
75	88	Private	Agriculture	1.94 (Hectare)	1.94
76	89	Private	Agriculture	0.91 (Hectare)	0.91
77	90	Private	Agriculture	0.67 (Hectare)	0.67
78	91	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
79	92/1	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
80	92/2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
81	92/3	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
82	92/4	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
83	93	Private	Agriculture	0.28 (Hectare)	0.28

84	94	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
85	95	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
86	96	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
87	97/1	Private	Agriculture	0.42 (Hectare)	0.42
88	97/2	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
89	98	Private	Agriculture	0.19 (Hectare)	0.19
Village: Gudbheli					
1	1320	Private	Agriculture	0.738 (Hectare)	0.738
2	1321	Private	Agriculture	2.094 (Hectare)	2.094
3	1322/1	Private	Agriculture	0.995 (Hectare)	0.995
4	1322/2/1/min 1	Private	Agriculture	0.018 (Hectare)	0.018
5	1322/2/1/min 2	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
6	1322/2/2	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
7	1322/2/3	Private	Agriculture	0.498 (Hectare)	0.498
8	1322/4/1	Private	Agriculture	0.291 (Hectare)	0.291
9	1322/4/2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
10	1322/5/1	Private	Agriculture	0.237 (Hectare)	0.237
11	1322/5/2	Private	Agriculture	0.095 (Hectare)	0.095
12	1322/6/1	Private	Agriculture	0.208 (Hectare)	0.208
13	1322/6/2	Private	Agriculture	0.124 (Hectare)	0.124
14	1323/min 1	Private	Agriculture	0.758 (Hectare)	0.758
15	1323/min 2	Private	Agriculture	0.759 (Hectare)	0.759
16	1351	Government	Road	1.295 (Hectare)	1.295
17	1352/1	Private	Agriculture	0.805 (Hectare)	0.805
18	1352/2	Government	Charnoi	0.0091 (Hectare)	0.0091
19	1353/3	Private	Agriculture	0.197 (Hectare)	0.197
20	1353/min 1	Private	Agriculture	0.395 (Hectare)	0.395
21	1353/min 2	Private	Agriculture	0.197	0.197

				(Hectare)	
22	1353/min 3	Private	Agriculture	0.197 (Hectare)	0.197
23	1354	Private	Agriculture	1.456 (Hectare)	1.456
24	1355/1/ min 1	Private	Agriculture	0.696 (Hectare)	0.696
25	1355/1/ min 2	Private	Agriculture	0.231 (Hectare)	0.231
26	1355/2/min1	Private	Agriculture	0.309 (Hectare)	0.309
27	1355/2/min2	Private	Agriculture	0.309 (Hectare)	0.309
28	1355/2/min3	Private	Agriculture	0.309 (Hectare)	0.309
29	1355/3	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
30	1356/1	Private	Agriculture	0.098 (Hectare)	0.098
31	1356/3	Private	Agriculture	0.9 (Hectare)	0.9
32	1356/min 1/2	Private	Agriculture	0.208 (Hectare)	0.208
33	1356/min 2	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
34	1357	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
35	1358 /1	Private	Agriculture	0.78 (Hectare)	0.78
36	1358 /2	Private	Agriculture	0.759 (Hectare)	0.759
37	1359/2/min 1	Private	Agriculture	0.293 (Hectare)	0.293
38	1359/2/min 2	Private	Agriculture	0.405 (Hectare)	0.405
39	1359/min 1	Private	Agriculture	0.698 (Hectare)	0.698
40	1360/min 1	Private	Agriculture	0.369 (Hectare)	0.369
41	1360/min 2	Private	Agriculture	0.258 (Hectare)	0.258
42	1361	Private	Agriculture	0.101 (Hectare)	0.101
43	1362/1	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
44	1362/2	Private	Agriculture	0.287 (Hectare)	0.287
45	1365/1	Private	Agriculture	0.127 (Hectare)	0.127
46	1365/2	Private	Agriculture	0.743 (Hectare)	0.743
47	1365/3	Private	Agriculture	0.626	0.626

				(Hectare)	
48	1365/4	Private	Agriculture	0.405 (Hectare)	0.405
49	1365/5	Private	Agriculture	0.405 (Hectare)	0.405
50	1366	Private	Agriculture	1.487 (Hectare)	1.487
51	1366/1504	Private	Agriculture	1.527 (Hectare)	1.527
52	1368	Private	Agriculture	0.091 (Hectare)	0.091
53	1369/1	Private	Agriculture	0.27 (Hectare)	0.27
54	1369/2	Private	Agriculture	0.27 (Hectare)	0.27
55	1369/3	Private	Agriculture	0.271 (Hectare)	0.271
56	1369/4	Private	Agriculture	0.406 (Hectare)	0.406
57	1369/5/1	Private	Agriculture	0.103 (Hectare)	0.103
58	1369/5/2	Private	Agriculture	0.303 (Hectare)	0.303
59	1369/6/1	Private	Agriculture	0.51 (Hectare)	0.51
60	1369/6/min 1	Private	Agriculture	0.303 (Hectare)	0.303
61	1370/min 1	Private	Agriculture	0.445 (Hectare)	0.445
62	1370/min 2	Private	Agriculture	0.445 (Hectare)	0.445
63	1371	Government	Nala	0.87 (Hectare)	0.87
64	1375	Government	Nala	0.809 (Hectare)	0.809
65	1376/min 6	Private	Agriculture	0.756 (Hectare)	0.756
66	1376/min1/min 1	Private	Agriculture	0.86 (Hectare)	0.86
67	1376/min1/min 2	Private	Agriculture	0.202 (Hectare)	0.202
68	1376/min2	Private	Agriculture	0.687 (Hectare)	0.687
69	1376/min3	Private	Agriculture	1.52 (Hectare)	1.52
70	1376/min4	Private	Agriculture	0.531 (Hectare)	0.531
71	1376/min5/min1	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
72	1376/min5/min2	Private	Agriculture	0.606 (Hectare)	0.606
73	1385	Private	Agriculture	1.983 (Hectare)	1.983

74	1386/min 1/min 1	Private	Agriculture	0.072 (Hectare)	0.072
75	1386/min 1/min 2	Private	Agriculture	0.303 (Hectare)	0.303
76	1386/min 2	Private	Agriculture	0.202 (Hectare)	0.202
77	1387	Private	Agriculture	0.476 (Hectare)	0.476
78	1388/1	Private	Agriculture	0.395 (Hectare)	0.395
79	1388/2	Private	Agriculture	0.394 (Hectare)	0.394
80	1388/3/min 1	Private	Agriculture	0.192 (Hectare)	0.192
81	1388/3/min 2	Private	Agriculture	0.202 (Hectare)	0.202
82	1389	Private	Agriculture	0.961 (Hectare)	0.961
83	1391	Private	Agriculture	0.961 (Hectare)	0.961
84	1392 /min 1	Private	Agriculture	0.202 (Hectare)	0.202
85	1392 /min 2	Private	Agriculture	0.606 (Hectare)	0.606
86	1392 /min3/min 1	Private	Agriculture	0.234 (Hectare)	0.234
87	1393	Private	Agriculture	0.587 (Hectare)	0.587
88	1393 /min 2/min 2	Private	Agriculture	0.404 (Hectare)	0.404
89	1394	Government	Charnoi	0.486 (Hectare)	0.486
90	1402/1	Private	Agriculture	0.299 (Hectare)	0.299
91	1402/2	Private	Agriculture	0.298 (Hectare)	0.298
92	1403	Private	Agriculture	0.668 (Hectare)	0.668
93	1404/1	Private	Agriculture	0.121 (Hectare)	0.121
94	1404/2	Private	Agriculture	0.121 (Hectare)	0.121
95	1405	Private	Agriculture	0.607 (Hectare)	0.607
96	1406/min 1	Private	Agriculture	0.495 (Hectare)	0.495
97	1406/min 2	Private	Agriculture	0.344	0.344

				(Hectare)	
98	1406/min 3	Private	Agriculture	0.344 (Hectare)	0.344
99	1423/1	Government	Charagah	8.46 (Hectare)	8.46
100	1423/2	Government	Charagah	1 (Hectare)	1
101	1426	Government	Road	0.374 (Hectare)	0.374
102	1429/1 /min 1	Government	Kabil kast	0.684 (Hectare)	0.684
103	1429/1 /min 10	Private	Agriculture	0.404 (Hectare)	0.404
104	1429/1 /min 11	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
105	1429/1 /min 12	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
106	1429/1 /min 13	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
107	1429/1 /min 14	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
108	1429/1 /min 15	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
109	1429/1 /min 16	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
110	1429/1 /min 17	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
111	1429/1 /min 18	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
112	1429/1 /min 19	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
113	1429/1 /min 2	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
114	1429/1 /min 20	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
115	1429/1 /min 21	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
116	1429/1 /min 22	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
117	1429/1 /min 23	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
118	1429/1 /min 24	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
119	1429/1 /min 25	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
120	1429/1 /min 3	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
121	1429/1 /min 4	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
122	1429/1 /min 5	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
123	1429/1 /min 6	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
124	1429/1 /min 7	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
125	1429/1 /min 8	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
126	1429/1 /min 9	Private	Agriculture	0.404 (Hectare)	0.404
127	1429/1/1	Private	Agriculture	0.506 (Hectare)	0.506
128	1429/1/Min1	Government	Kabil kast	0.684 (Hectare)	0.684
129	1429/2/2	Private	Agriculture	0.505 (Hectare)	0.505

130	1430/1	Private	Agriculture	1.771 (Hectare)	1.771
131	1430/2 /min1	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
132	1430/2 /min3	Private	Agriculture	0.219 (Hectare)	0.219
133	1430/2 /min4	Private	Agriculture	0.253 (Hectare)	0.253
134	1430/2 /min5	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
135	1430/2/5	Private	Agriculture	0.808 (Hectare)	0.808
136	1431/1	Private	Agriculture	1.011 (Hectare)	1.011
137	1431/2	Private	Agriculture	0.809 (Hectare)	0.809
138	1431/3/1	Private	Agriculture	0.754 (Hectare)	0.754
139	1431/3/2	Private	Agriculture	0.154 (Hectare)	0.154
140	1431/3/3	Private	Agriculture	0.599 (Hectare)	0.599
141	1431/4	Private	Agriculture	0.607 (Hectare)	0.607
142	1431/5	Government	Non-agriculture	0.607 (Hectare)	0.607
143	291/ 1 min 1	Government	Kabil kast	7.593 (Hectare)	7.593
144	291/ 1 min 10	Private	Agriculture	0.504 (Hectare)	0.504
145	291/ 1 min 11	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
146	291/ 1 min 12	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
147	291/ 1 min 13	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
148	291/ 1 min 14	Private	Agriculture	0.404 (Hectare)	0.404
149	291/ 1 min 15	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
150	291/ 1 min 2	Private	Agriculture	1.011 (Hectare)	1.011
151	291/ 1 min 3/min 1	Private	Agriculture	0.516 (Hectare)	0.516
152	291/ 1 min 3/min 2	Private	Agriculture	0.516 (Hectare)	0.516
153	291/ 1 min 4	Private	Agriculture	0.746 (Hectare)	0.746
154	291/ 1 min 5	Private	Agriculture	0.404 (Hectare)	0.404
155	291/ 1 min 6	Private	Agriculture	0.606 (Hectare)	0.606

156	291/ 1 min 7	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
157	291/ 1 min 8	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
158	291/ 1 min 9	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
159	291/ 2	Private	Agriculture	0.809 (Hectare)	0.809
160	291/ 3	Private	Agriculture	0.809 (Hectare)	0.809
161	291/ 4 / min 1	Private	Agriculture	0.28 (Hectare)	0.28
162	291/ 4 / min 2/	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
163	291/ 4 / min 2/min 1	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
164	291/ 4 / min 3	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
165	291/ 5/ min 1	Private	Agriculture	0.187 (Hectare)	0.187
166	291/ 5/ min 2	Private	Agriculture	0.824 (Hectare)	0.824
167	297	Private	Agriculture	0.172 (Hectare)	0.172
168	297/1536	Private	Agriculture	1.415 (Hectare)	1.415
169	298	Government	Non-agriculture	1.103 (Hectare)	1.103
170	299/min 1/min 1	Private	Agriculture	0.458 (Hectare)	0.458
171	299/min 1/min 2	Private	Agriculture	0.458 (Hectare)	0.458
172	299/min 2	Private	Agriculture	0.46 (Hectare)	0.46
173	300	Private	Agriculture	1.1 (Hectare)	1.1
174	301/min 2/min1	Private	Agriculture	0.229 (Hectare)	0.229
175	301/min 2/min2	Private	Agriculture	0.835 (Hectare)	0.835
176	301/min 2/min3	Private	Agriculture	1.63 (Hectare)	1.63
177	302/1	Private	Agriculture	0.202 (Hectare)	0.202
178	302/2	Government	Bada	0.03 (Hectare)	0.03
179	303	Private	Agriculture	0.112 (Hectare)	0.112
180	305	Private	Agriculture	1.052 (Hectare)	1.052
181	326	Government	Road	0.749 (Hectare)	0.749
182	327	Government	Non-agriculture	0.445 (Hectare)	0.445
183	339	Private	Agriculture	2.265 (Hectare)	2.265

184	340	Private	Agriculture	0.86 (Hectare)	0.86
185	341	Private	Agriculture	1.547 (Hectare)	1.547
186	342	Private	Agriculture	1.345 (Hectare)	1.345
187	344	Private	Agriculture	1.183 (Hectare)	1.183
188	345/1	Private	Agriculture	1.391 (Hectare)	1.391
189	345/2/min 1	Private	Agriculture	0.401 (Hectare)	0.401
190	345/2/min 2	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
191	346	Private	Agriculture	1.284 (Hectare)	1.284
192	346/1529	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
193	346/1534	Private	Agriculture	0.162 (Hectare)	0.162
194	347	Private	Agriculture	1.608 (Hectare)	1.608
195	349/1	Private	Agriculture	1.532 (Hectare)	1.532
196	349/2	Private	Agriculture	1.968 (Hectare)	1.968
197	367/min1	Government	Non-agriculture	1.326 (Hectare)	1.326
198	367/min2	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
199	368	Government	Rasta	0.466 (Hectare)	0.466
200	369	Government	Non-agriculture	1.234 (Hectare)	1.234
201	370	Private	Agriculture	2.043 (Hectare)	2.043
202	371	Private	Agriculture	2.165 (Hectare)	2.165
203	372	Private	Agriculture	0.445 (Hectare)	0.445
204	373	Private	Agriculture	2.428 (Hectare)	2.428
205	376/1	Private	Agriculture	0.354 (Hectare)	0.354
206	376/2	Private	Agriculture	1.211 (Hectare)	1.211
207	376/3 /min 1	Government	Charnoi	0.808 (Hectare)	0.808
208	376/3 /min 2	Private	Agriculture	1.011 (Hectare)	1.011

209	376/3/min 1	Government	Charnoi	0.808 (Hectare)	0.808
210	376/4 /min 1	Private	Agriculture	2.023 (Hectare)	2.023
211	376/4 /min 3	Private	Agriculture	0.506 (Hectare)	0.506
212	376/4 /min 4	Private	Agriculture	0.506 (Hectare)	0.506
213	376/5	Private	Agriculture	0.809 (Hectare)	0.809
214	396	Private	Agriculture	1.204 (Hectare)	1.204
Village: Karan Khedi					
1	110	Government	Charnoi	0.93 (Hectare)	0.93
2	111	Government	Charnoi	9.4 (Hectare)	9.4
3	118	Private	Agriculture	0.56 (Hectare)	0.56
4	119	Private	Agriculture	0.44 (Hectare)	0.44
5	120/1	Private	Agriculture	0.91 (Hectare)	0.91
6	120/2	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
7	120/3	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
8	121	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
9	122	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
10	123	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
11	124	Government	Charnoi	0.53 (Hectare)	0.53
12	128	Government	Kankad	0.4 (Hectare)	0.4
13	129	Government	Charnoi	0.27 (Hectare)	0.27
14	130	Government	Gothan	0.4 (Hectare)	0.4
15	131	Government	Charnoi	0.38 (Hectare)	0.38
16	134	Government	Charnoi	0.98 (Hectare)	0.98
17	135/min 1	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
18	135/min 2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
19	136	Government	Charnoi	0.71 (Hectare)	0.71
20	139	Government	Kabil kast	0.15 (Hectare)	0.15
21	14/1	Private	Agriculture	1.28 (Hectare)	1.28
22	14/2	Private	Agriculture	1.28 (Hectare)	1.28
23	140	Private	Agriculture	1.33 (Hectare)	1.33
24	146	Government	Kabil kast	0.33 (Hectare)	0.33
25	147	Government	Well	0.02 (Hectare)	0.02
26	148	Government	Murda Maveshi	0.1 (Hectare)	0.1
27	149	Government	Kabil kast	0.84 (Hectare)	0.84
28	15	Government	Gair Mumkin	0.14 (Hectare)	0.14

29	16	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
30	162	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
31	164/min 1	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
32	164/min 2	Private	Agriculture	0.31 (Hectare)	0.31
33	165	Government	Gair Mumkin	0.42 (Hectare)	0.42
34	166	Government	Gair Mumkin	0.21 (Hectare)	0.21
35	167	Government	Charnoi	0.56 (Hectare)	0.56
36	168	Government	Charnoi	0.54 (Hectare)	0.54
37	169	Government	Well	0.06 (Hectare)	0.06
38	17	Government	Gair Mumkin	0.5 (Hectare)	0.5
39	170	Government	Gair Mumkin	0.1 (Hectare)	0.1
40	174	Government	Gair Mumkin	0.32 (Hectare)	0.32
41	18/min 1/min 1	Private	Agriculture	1.45 (Hectare)	1.45
42	18/min 1/min 2	Private	Agriculture	0.97 (Hectare)	0.97
43	18/min 2	Private	Agriculture	0.49 (Hectare)	0.49
44	19	Government	Charnoi	0.86 (Hectare)	0.86
45	21	Private	Agriculture	2.3 (Hectare)	2.3
46	210	Private	Agriculture	1.01 (Hectare)	1.01
47	211	Private	Agriculture	0.82 (Hectare)	0.82
48	212	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
49	213	Private	Agriculture	1.12 (Hectare)	1.12
50	214	Private	Agriculture	0.42 (Hectare)	0.42
51	215	Private	Agriculture	0.34 (Hectare)	0.34
52	216/1	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
53	216/2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
54	219	Government	Gair Mumkin	0.97 (Hectare)	0.97
55	220	Government	Gair Mumkin	1.14 (Hectare)	1.14
56	221	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
57	222	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
58	223	Private	Agriculture	0.36 (Hectare)	0.36
59	225	Private	Agriculture	0.68 (Hectare)	0.68
60	226	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
61	227	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
62	228	Government	Road	0.47 (Hectare)	0.47
63	229	Private	Agriculture	2.04 (Hectare)	2.04
64	233	Private	Agriculture	0.83 (Hectare)	0.83
65	234	Government	Gair Mumkin	0.32 (Hectare)	0.32
66	235	Government	Well	0.02 (Hectare)	0.02

67	236	Private	Agriculture	0.45 (Hectare)	0.45
68	237	Private	Agriculture	0.65 (Hectare)	0.65
69	283/min 1	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
70	283/min 2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
71	285	Government	Gair Mumkin	0.87 (Hectare)	0.87
72	286	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
73	287	Government	Gair Mumkin	0.41 (Hectare)	0.41
74	288	Government	Gair Mumkin	0.37 (Hectare)	0.37
75	289	Government	Road	0.19 (Hectare)	0.19
76	29/min 1	Private	Agriculture	0.99 (Hectare)	0.99
77	29/min 2	Private	Agriculture	0.49 (Hectare)	0.49
78	29/min 3	Private	Agriculture	0.49 (Hectare)	0.49
79	290	Government	Gair Mumkin	0.3 (Hectare)	0.3
80	292	Private	Agriculture	1.07 (Hectare)	1.07
81	293	Government	Road	0.34 (Hectare)	0.34
82	30	Government	Charnoi	2.94 (Hectare)	2.94
83	31	Private	Agriculture	1.1 (Hectare)	1.1
84	33	Government	Charnoi	0.78 (Hectare)	0.78
85	36	Private	Agriculture	0.75 (Hectare)	0.75
Village: Lasudiya					
1	283	Government	Charnoi	0.67 (Hectare)	0.67
2	1123	Private	Agriculture	0.92 (Hectare)	0.92
3	1130	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
4	1137	Private	Agriculture	0.51 (Hectare)	0.51
5	1139/1	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
6	1139/2	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
7	1139/3	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
8	1140	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
9	1141	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
10	1142	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
11	1143	Government	Rasta	0.14 (Hectare)	0.14
12	1144	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
13	1145	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
14	1146	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
15	1147	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
16	1148	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
17	1149	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
18	1150	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16

19	1151	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
20	1152	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
21	1153	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
22	1154	Government	Well	0.03 (Hectare)	0.03
23	1155	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
24	1156	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
25	1157	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
26	1158	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
27	1159	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
28	1160	Government	Well	0.05 (Hectare)	0.05
29	1161	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
30	1162	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
31	1163	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
32	1164	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
33	1165	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
34	1166	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
35	1167	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
36	1168	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
37	1169	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
38	1170	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
39	1184	Private	Agriculture	0.19 (Hectare)	0.19
40	1185	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
41	1186	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
42	1187	Government	Well	0.04 (Hectare)	0.04
43	1188	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
44	1189	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
45	1190min1	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
46	1190min2	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
47	1191/1	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
48	1191/2	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
49	1191/3min1	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
50	1191/3min2	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
51	1192	Government	Well	0.03 (Hectare)	0.03
52	1193	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
53	1194	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
54	1195	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
55	1196min1	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
56	1196min2	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08

57	1196min3	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
58	1197min1	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
59	1197min2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
60	1197min3	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
61	1197min4	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
62	1198	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
63	1199	Private	Agriculture	0.93 (Hectare)	0.93
64	1200	Private	Agriculture	0.56 (Hectare)	0.56
65	1201	Private	Agriculture	0.57 (Hectare)	0.57
66	1204	Private	Agriculture	0.71 (Hectare)	0.71
67	1206	Private	Agriculture	0.82 (Hectare)	0.82
68	1207	Private	Agriculture	0.45 (Hectare)	0.45
69	1208	Private	Agriculture	0.71 (Hectare)	0.71
70	1216	Government	Charnoi	0.27 (Hectare)	0.27
71	1218	Private	Agriculture	1.18 (Hectare)	1.18
72	1219	Private	Agriculture	1.32 (Hectare)	1.32
73	1220	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
74	1222min1	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
75	1222min2	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
76	1222min2/1min1	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
77	1222min2/1min2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
78	1222min2/2	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
79	1223	Government	Well	0.03 (Hectare)	0.03
80	1224min1	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
81	1224min2	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
82	1225	Private	Agriculture	0.92 (Hectare)	0.92
83	1239	Government	Nala	0.11 (Hectare)	0.11
84	1240	Government	Nala	1.19 (Hectare)	1.19
85	1246	Government	Agriculture	0.48 (Hectare)	0.48
86	1247	Government	Charnoi	4.96 (Hectare)	4.96
87	1248	Government	Rasta	0.43 (Hectare)	0.43
88	1285/936	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
89	220	Government	Charnoi	0.34 (Hectare)	0.34
90	221	Government	Kabil kast	0.1 (Hectare)	0.1
91	222	Private	Agriculture	2.34 (Hectare)	2.34
92	223	Government	Road	0.8 (Hectare)	0.8
93	282/1	Private	Agriculture	0.63 (Hectare)	0.63
94	282/2	Private	Agriculture	0.64 (Hectare)	0.64

95	284	Common(Devasthan)	Agriculture	2.27 (Hectare)	2.27
96	285	Private	Agriculture	0.91 (Hectare)	0.91
97	286	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
98	292 min 1	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
99	292 min 2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
100	299	Government	Kabil kast	0.83 (Hectare)	0.83
101	300min 1	Government	Charnoi	2.48 (Hectare)	2.48
102	300min 2	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
103	300min 3	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
104	300min 4	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
105	300min 5	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
106	300min 6	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
107	300min 7	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
108	300min 8	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
109	301	Government	Road	0.9 (Hectare)	0.9
110	302/1	Private	Agriculture	0.85 (Hectare)	0.85
111	302/2,302/4,302/6	Private	Agriculture	0.72 (Hectare)	0.72
112	302/3,302/7	Private	Agriculture	0.61 (Hectare)	0.61
113	303/1	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
114	303/2	Private	Agriculture	1.21 (Hectare)	1.21
115	304	Government	Charnoi	7.64 (Hectare)	7.64
116	395/1	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
117	395/2	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
118	395/3	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
119	396min1	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
120	396min2	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
121	396min3	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
122	396min4	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
123	397	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
124	400	Private	Agriculture	0.47 (Hectare)	0.47
125	401	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
126	402	Private	Agriculture	0.43 (Hectare)	0.43
127	403	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
128	404	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
129	405	Government	well	0.01 (Hectare)	0.01
130	406min1	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
131	406min2	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
132	407	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32

133	407/1280	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
134	408min 1	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
135	408min 2	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
136	408min 3 min 1 min1	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
137	408min 3 min 1 min2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
138	408min 3 min 2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
139	409	Private	Agriculture	0.49 (Hectare)	0.49
140	410	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
141	411	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
142	412min1	Private	Agriculture	0.19 (Hectare)	0.19
143	412min2	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
144	412min3	Private	Agriculture	0.19 (Hectare)	0.19
145	413	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
146	414	Private	Agriculture	0.83 (Hectare)	0.83
147	415	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
148	416min1,420pe	Private	Agriculture	1.3 (Hectare)	1.3
149	416min2,420pe	Private	Agriculture	0.33 (Hectare)	0.33
150	416min3,420pe	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
151	416min4,420pe	Private	Agriculture	1.3 (Hectare)	1.3
152	419min 1 min1	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
153	419min 1 min2	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
154	419min 2	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
155	419min 3	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
156	421min1	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
157	421min2	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
158	422	Private	Agriculture	0.67 (Hectare)	0.67
159	423	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
160	426	Private	Agriculture	1.9 (Hectare)	1.9
161	427	Private	Agriculture	0.59 (Hectare)	0.59
162	428	Private	Agriculture	0.81 (Hectare)	0.81
163	429	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
164	430	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
165	431min1min1	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
166	431min1min2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
167	431min2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
168	432	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
169	433	Private	Agriculture	0.94 (Hectare)	0.94
170	435	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4

171	436	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
172	438	Government	Well	0.06 (Hectare)	0.06
173	439	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
174	440	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
175	441	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
176	442/1	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
177	442/2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
178	443/1	Private	Agriculture	0.44 (Hectare)	0.44
179	443/3	Private	Agriculture	0.84 (Hectare)	0.84
180	443/4 min1	Private	Agriculture	0.75 (Hectare)	0.75
181	443/4 min2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
182	443/min1	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
183	455	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
184	457	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
185	561	Government	Gair Mumkin	0.35 (Hectare)	0.35
186	579	Common(Devasthan)	Agriculture	1.08 (Hectare)	1.08
187	580	Government	Charnoi	0.1 (Hectare)	0.1
188	581	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
189	583	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
190	584	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
191	584/1281	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
192	585	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
193	586	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
194	587	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
195	588	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
196	589	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
197	590	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
198	603	Government	Rasta	1.22 (Hectare)	1.22
199	615	Private	Agriculture	0.27 (Hectare)	0.27
200	618	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
201	619	Government	Well/Charnoi	0.08 (Hectare)	0.08
202	620	Government	Well	0.06 (Hectare)	0.06
203	621	Private	Agriculture	1.62 (Hectare)	1.62
204	622	Private	Agriculture	0.56 (Hectare)	0.56
205	623 min1	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
206	623 min2	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
207	624/1	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
208	624/2	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09

209	625/1	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
210	625/2	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
211	626	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
212	627	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
213	628	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
214	630	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
215	631	Private	Agriculture	0.19 (Hectare)	0.19
216	632	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
217	633	Government	Well	0.03 (Hectare)	0.03
218	634	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
219	635	Private	Agriculture	0.39 (Hectare)	0.39
220	636 min1 min1	Private	Agriculture	0.47 (Hectare)	0.47
221	636 min1 min2	Private	Agriculture	0.44 (Hectare)	0.44
222	636 min2	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
223	639	Private	Agriculture	0.73 (Hectare)	0.73
224	670	Government	Kabil kast	2.41 (Hectare)	2.41
225	671	Private	Agriculture	0.39 (Hectare)	0.39
226	672	Private	Agriculture	0.33 (Hectare)	0.33
227	673	Private	Agriculture	2.14 (Hectare)	2.14
228	674	Private	Agriculture	1.18 (Hectare)	1.18
229	675min1	Private	Agriculture	0.69 (Hectare)	0.69
230	675min2	Private	Agriculture	0.63 (Hectare)	0.63
231	676 min1	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
232	676 min2	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
233	676 min3 min1	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
234	676 min3 min2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
235	676 min4	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
236	677	Private	Agriculture	0.54 (Hectare)	0.54
237	678min1	Private	Agriculture	0.33 (Hectare)	0.33
238	678min2min1	Private	Agriculture	0.93 (Hectare)	0.93
239	678min2min2	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
240	679min1	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
241	679min2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
242	680	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
243	681	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
244	682	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
245	683	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
246	684	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3

247	685min1	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
248	685min2	Private	Agriculture	0.49 (Hectare)	0.49
249	686min1	Private	Agriculture	0.31 (Hectare)	0.31
250	686min2	Private	Agriculture	0.31 (Hectare)	0.31
251	691	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
252	696min1	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
253	696min2	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
254	697	Private	Agriculture	0.19 (Hectare)	0.19
255	698	Government	Well	0.04 (Hectare)	0.04
256	699	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
257	707	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
258	709	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
259	710	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
260	711	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
261	712	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
262	713	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
263	714	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
264	715	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
265	716	Government	Well	0.04 (Hectare)	0.04
266	717min1	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
267	717min2	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
268	718	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
269	719	Government	Well	0.1 (Hectare)	0.1
270	720	Government	Nala	0.68 (Hectare)	0.68
271	721	Government	Kabil kast	0.61 (Hectare)	0.61
Village: Mahuwa					
1	1	Government	Kabil kast	0.28 (Hectare)	0.28
2	21	Government	Well	0.07 (Hectare)	0.07
3	22	Private	Agriculture	1.32 (Hectare)	1.32
4	25	Private	Agriculture	0.95 (Hectare)	0.95
5	26min1	Private	Agriculture	0.84 (Hectare)	0.84
6	26min2	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
7	27	Government	Rasta	0.85 (Hectare)	0.85
8	28	Private	Agriculture	0.74 (Hectare)	0.74
9	2min1	Private	Agriculture	0.61 (Hectare)	0.61
10	2min2	Private	Agriculture	1.08 (Hectare)	1.08
11	3	Private	Agriculture	2.33 (Hectare)	2.33
12	4	Private	Agriculture	2.4 (Hectare)	2.4

13	5	Private	Agriculture	1.69 (Hectare)	1.69
14	6	Government	Gair Mumkin	0.13 (Hectare)	0.13
15	7/1	Private	Agriculture	1.89 (Hectare)	1.89
16	7/2	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
Village: Mahuwi					
1	154	Government	River	5.69 (Hectare)	5.69
2	252	Government	Odi	0.02 (Hectare)	0.02
3	253	Government	Odi	0.02 (Hectare)	0.02
4	254/1	Private	Agriculture	0.63 (Hectare)	0.63
5	254/2	Private	Agriculture	1.13 (Hectare)	1.13
6	255	Private	Parat	0.95 (Hectare)	0.95
7	256	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
8	257	Private	Agriculture	0.51 (Hectare)	0.51
9	258/1	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
10	258/2	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
11	259	Private	Non-agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
12	260 min 1	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
13	260 min 2	Private	Agriculture	0.43 (Hectare)	0.43
14	261	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
15	263	Private	Agriculture	0.85 (Hectare)	0.85
16	320/4	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
17	320min1	Government	Charnoi	8.77 (Hectare)	8.77
18	320min2	Government	Non-agriculture	3.21 (Hectare)	3.21
19	320min3	Government	Kabil kast	1 (Hectare)	1
20	320min5	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
21	321	Government	Rasta	0.15 (Hectare)	0.15
22	322	Government	Rasta	0.26 (Hectare)	0.26
23	325	Private	Parat	0.6 (Hectare)	0.6
24	326	Government	Charnoi	0.58 (Hectare)	0.58
25	327/1	Private	Agriculture	0.79 (Hectare)	0.79
26	327/2	Private	Agriculture	0.79 (Hectare)	0.79
27	327/3	Private	Agriculture	0.79 (Hectare)	0.79
28	327/4	Private	Agriculture	0.79 (Hectare)	0.79
29	328	Private	Non-agriculture	1.35 (Hectare)	1.35
30	329	Private	Parat	0.32 (Hectare)	0.32
31	330	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
32	336	Government	Rasta	0.21 (Hectare)	0.21
33	337min1	Private	Agriculture	1.76 (Hectare)	1.76

34	337min2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
35	338	Private	Agriculture	0.94 (Hectare)	0.94
36	339	Private	Agriculture	0.56 (Hectare)	0.56
37	340	Private	Agriculture	0.55 (Hectare)	0.55
38	341min1	Private	Agriculture	0.74 (Hectare)	0.74
39	341min2	Private	Agriculture	0.73 (Hectare)	0.73
40	342/1/min1	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
41	342/1min1/min1	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
42	342/1min1/min2	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
43	342/2/min2	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
44	342/2min1/min1	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
45	342/2min1/min2	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
46	361	Private	Agriculture	1.53 (Hectare)	1.53
47	362	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
48	363	Private	Agriculture	0.36 (Hectare)	0.36
49	364	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
50	365	Private	Agriculture	0.36 (Hectare)	0.36
51	366min1	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
52	366min2	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
53	366min3	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
54	367	Private	Agriculture	0.56 (Hectare)	0.56
55	368	Private	Agriculture	0.55 (Hectare)	0.55
56	369	Private	Agriculture	0.57 (Hectare)	0.57
57	370	Private	Agriculture	0.57 (Hectare)	0.57
58	371min1	Private	Agriculture	0.86 (Hectare)	0.86
59	371min2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
60	373min1	Private	Agriculture	0.9 (Hectare)	0.9
61	373min2	Private	Agriculture	0.9 (Hectare)	0.9
62	373min3	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
63	374	Private	Agriculture	1.15 (Hectare)	1.15
64	375	Government	Charnoi	1.06 (Hectare)	1.06
65	77	Private	Agriculture	1.5 (Hectare)	1.5
66	78	Private	Agriculture	1.25 (Hectare)	1.25
67	79	Private	Agriculture	1.78 (Hectare)	1.78
68	80/1	Private	Agriculture	0.73 (Hectare)	0.73
69	80/2	Private	Agriculture	0.73 (Hectare)	0.73
70	80/381/1	Private	Agriculture	0.62 (Hectare)	0.62
71	80/381/2	Private	Agriculture	0.063 (Hectare)	0.063

72	81	Government	Gair Mumkin	0.91 (Hectare)	0.91
73	82	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
74	83min 1	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
75	83min 2	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
76	83min 3	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
77	83min 4	Private	Agriculture	0.7 (Hectare)	0.7
78	84	Government	Nala	0.25 (Hectare)	0.25
Village: Manpura					
1	444	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
2	202	Government	Gair Mumkin	1.4 (Hectare)	1.4
3	259/4	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
4	265	Private(Private/Temple)	Agriculture	5.61 (Hectare)	5.61
5	266	Private	Agriculture	0.34 (Hectare)	0.34
6	268	Private	Agriculture	1.31 (Hectare)	1.31
7	269	Private	Agriculture	0.34 (Hectare)	0.34
8	270/1	Private	Agriculture	0.51 (Hectare)	0.51
9	270/2	Private	Agriculture	0.51 (Hectare)	0.51
10	271	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
11	272	Private	Agriculture	0.81 (Hectare)	0.81
12	281	Private	Agriculture	1.17 (Hectare)	1.17
13	282	Private	Agriculture	1.17 (Hectare)	1.17
14	283/1	Private	Agriculture	0.77 (Hectare)	0.77
15	283/2	Private	Agriculture	0.77 (Hectare)	0.77
16	284	Private	Agriculture	0.84 (Hectare)	0.84
17	286	Private	Agriculture	1.25 (Hectare)	1.25
18	287	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
19	288	Private	Agriculture	1.03 (Hectare)	1.03
20	289/1	Private	Agriculture	1.17 (Hectare)	1.17
21	289/2	Private	Agriculture	1.17 (Hectare)	1.17
22	290/1/min 1	Private	Agriculture	1.31 (Hectare)	1.31
23	290/1/min 2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
24	290/2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
25	291	Private	Agriculture	1.01 (Hectare)	1.01
26	292/1	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
27	292/2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
28	293/min 2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
29	293/min 1	Private	Agriculture	0.61 (Hectare)	0.61
30	294	Government	Gair Mumkin	0.45 (Hectare)	0.45

31	295	Private	Agriculture	1.01 (Hectare)	1.01
32	336/min 1	Government	Charagah	2 (Hectare)	2
33	336/min 2	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
34	336/min 3	Government	Gair Mumkin	1.95 (Hectare)	1.95
35	336/min 4	Government	Gair Mumkin	0.64 (Hectare)	0.64
36	337	Private	Agriculture	1.44 (Hectare)	1.44
37	338	Government	Charnoi	0.52 (Hectare)	0.52
38	339	Government	Road	0.76 (Hectare)	0.76
39	373	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
40	374	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
41	375/1	Private	Agriculture	0.49 (Hectare)	0.49
42	375/2	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
43	376	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
44	377	Government	Well	0.02 (Hectare)	0.02
45	378	Government	Charnoi	0.12 (Hectare)	0.12
46	379	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
47	380/1	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
48	380/2	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
49	381/1	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
50	381/2	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
51	382	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
52	383	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
53	384	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
54	387	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
55	388	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
56	389/1	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
57	389/2	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
58	390	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
59	391	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
60	392	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
61	393/1/min 1	Private	Agriculture	0.31 (Hectare)	0.31
62	393/1/min 2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
63	393/2	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
64	393/3	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
65	397/1	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
66	397/2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
67	397/3	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
68	398/1	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1

69	398/2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
70	398/3	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
71	399	Private	Agriculture	0.43 (Hectare)	0.43
72	400	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
73	402	Government	Charagah	0.5 (Hectare)	0.5
74	404	Private	Agriculture	2.59 (Hectare)	2.59
75	405	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
76	406/1	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
77	406/2	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
78	406/3	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
79	406/4	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
80	407	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
81	408	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
82	409	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
83	410/1	Private	Agriculture	0.7 (Hectare)	0.7
84	410/2	Private	Agriculture	0.49 (Hectare)	0.49
85	411/min 1	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
86	411/min 2	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
87	412	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
88	413	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
89	414	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
90	422	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
91	424	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
92	425	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
93	426	Private	Agriculture	0.36 (Hectare)	0.36
94	427/1	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
95	427/2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
96	428/1	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
97	428/2	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
98	428/3	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
99	429/1	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
100	429/2	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
101	430/1	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
102	430/2	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
103	431/1	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
104	431/2	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
105	432/1	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
106	432/2	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08

107	432/3	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
108	433/1	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
109	433/2	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
110	434	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
111	435	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
112	436/1	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
113	436/2	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
114	437/1	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
115	437/2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
116	438	Government	Well	0.02 (Hectare)	0.02
117	439/1	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
118	439/2	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
119	440	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
120	441	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
121	442/1	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
122	442/2	Private	Agriculture	0.19 (Hectare)	0.19
123	443	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
124	445	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
125	455/1	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
126	455/2	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
127	456/1	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
128	456/2	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
129	457/1	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
130	457/2	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
131	458	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
132	459	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
133	460	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
134	461	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
135	463	Government	Well	0.06 (Hectare)	0.06
136	465	Private	Agriculture	0.47 (Hectare)	0.47
137	466/1	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
138	466/2	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
139	500	Government	Nala	1.46 (Hectare)	1.46
140	626	Private	Agriculture	0.88 (Hectare)	0.88
141	630/ 1/min 1	Government	Charnoi	4.69 (Hectare)	4.69
142	630/ 1/min 2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
143	632	Government	Charagah	1.43 (Hectare)	1.43
144	659/1/1	Private	Agriculture	1.2 (Hectare)	1.2

145	659/2	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
146	659/3	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
147	659/4	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
148	659/5	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
149	659/6	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
150	659/२/1/min 1	Private	Agriculture	1.2 (Hectare)	1.2
151	659/२/1/min 2	Private	Agriculture	2 (Hectare)	2
152	659/min 1	Government	Charagah	23.5 (Hectare)	23.5
153	661/ 2/1	Private	Agriculture	0.77 (Hectare)	0.77
154	661/2	Private	Agriculture	0.52 (Hectare)	0.52
155	661/2/2	Private	Agriculture	0.52 (Hectare)	0.52
156	662/min 1	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
157	662/min 2	Private	Agriculture	0.36 (Hectare)	0.36
158	662/min 3	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
159	671/min 1	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
160	671/min 2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
161	671/min 3	Private	Agriculture	0.61 (Hectare)	0.61
162	672/2	Private	Agriculture	0.43 (Hectare)	0.43
163	672/3	Private	Agriculture	0.43 (Hectare)	0.43
164	672/4	Private	Agriculture	0.43 (Hectare)	0.43
165	672/5	Private	Agriculture	0.43 (Hectare)	0.43
166	673/1	Private	Agriculture	0.34 (Hectare)	0.34
167	673/2	Private	Agriculture	0.48 (Hectare)	0.48
168	674/ min 1	Private	Agriculture	0.59 (Hectare)	0.59
169	674/ min 2	Private	Agriculture	0.59 (Hectare)	0.59
170	674/ min 3	Private	Agriculture	0.59 (Hectare)	0.59
171	674/ min 4	Private	Agriculture	0.59 (Hectare)	0.59
172	675	Private	Agriculture	3.05 (Hectare)	3.05
173	676	Private	Agriculture	1.1 (Hectare)	1.1
174	676/1	Private	Agriculture	0.34 (Hectare)	0.34
175	676/2	Private	Agriculture	0.86 (Hectare)	0.86
176	677	Private	Agriculture	1.84 (Hectare)	1.84
177	678	Private	Agriculture	1.42 (Hectare)	1.42
178	679	Private	Agriculture	1.42 (Hectare)	1.42
179	680/1	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
180	680/3/ min 2	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
181	680/3/ min 3	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
182	680/3/ min 4	Government	Charnoi	10.31	10.31

				(Hectare)	
183	683/1	Government	Gair Mumkin	5.93 (Hectare)	5.93
184	683/2	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
185	684	Government	Road	0.62 (Hectare)	0.62
186	685/1	Government	Gair Mumkin Charnoi	2.85 (Hectare)	2.85
187	685/2	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
188	715	Government	Graveyard	0.08 (Hectare)	0.08
Village: Parli					
1	.2/1	Government	Kabil kast	2.458 (Hectare)	2.458
2	.2/2	Private	Agriculture	1.619 (Hectare)	1.619
3	10/Min 2	Private	Agriculture	0.164 (Hectare)	0.164
4	10/Min1	Private	Agriculture	0.494 (Hectare)	0.494
5	1003/51	Private	Agriculture	0.142 (Hectare)	0.142
6	1006/32	Private	Agriculture	1.01 (Hectare)	1.01
7	1018/128	Private	Agriculture	0.567 (Hectare)	0.567
8	11	Government	Charnoi	0.456 (Hectare)	0.456
9	120	Government	Kabil kast	1.568 (Hectare)	1.568
10	128	Private	Agriculture	0.819 (Hectare)	0.819
11	129	Private	Agriculture	1.295 (Hectare)	1.295
12	130/1	Private	Agriculture	0.607 (Hectare)	0.607
13	130/2	Private	Agriculture	0.819 (Hectare)	0.819
14	131	Government	Road	0.131 (Hectare)	0.131
15	132/1	Private	Agriculture	0.759 (Hectare)	0.759
16	132/2	Private	Agriculture	1.214 (Hectare)	1.214
17	133	Private	Agriculture	0.92 (Hectare)	0.92
18	134	Private	Agriculture	0.516 (Hectare)	0.516
19	136/1	Government	Gair Mumkin	2.481 (Hectare)	2.481

20	136/2/Min 1	Private	Agriculture	0.507 (Hectare)	0.507
21	136/3/Min 1	Private	Agriculture	0.607 (Hectare)	0.607
22	136/3/Min2	Private	Agriculture	0.393 (Hectare)	0.393
23	136/Min 1	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
24	138	Government	Charnoi	0.456 (Hectare)	0.456
25	139	Government	Rasta	0.131 (Hectare)	0.131
26	18/1/3/Min 2	Private	Agriculture	0.072 (Hectare)	0.072
27	18/1/3/Min1	Private	Agriculture	0.064 (Hectare)	0.064
28	18/1/3/Min3	Private	Agriculture	0.082 (Hectare)	0.082
29	18/2/Min 1	Private	Agriculture	0.327 (Hectare)	0.327
30	18/2/Min 2	Private	Agriculture	0.327 (Hectare)	0.327
31	19	Government	Charnoi	0.202 (Hectare)	0.202
32	20	Government	Gair Mumkin	0.313 (Hectare)	0.313
33	21	Private	Agriculture	0.273 (Hectare)	0.273
34	22	Private	Agriculture	0.435 (Hectare)	0.435
35	23	Private	Agriculture	0.254 (Hectare)	0.254
36	24	Private	Agriculture	1.53 (Hectare)	1.53
37	25/1	Private	Agriculture	0.271 (Hectare)	0.271
38	25/2	Private	Agriculture	0.271 (Hectare)	0.271
39	25/3	Private	Agriculture	0.271 (Hectare)	0.271
40	25/4	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
41	26	Private	Agriculture	0.627 (Hectare)	0.627
42	27/Min1	Private	Agriculture	0.082 (Hectare)	0.082
43	27/Min2	Private	Agriculture	0.505 (Hectare)	0.505
44	28/Min 1	Private	Agriculture	1.001 (Hectare)	1.001

45	28/Min 2	Private	Agriculture	0.303 (Hectare)	0.303
46	29	Government	Charnoi	1.579 (Hectare)	1.579
47	3	Private	Agriculture	1.244 (Hectare)	1.244
48	31/1	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
49	31/2	Private	Agriculture	0.057 (Hectare)	0.057
50	31/3	Private	Agriculture	0.147 (Hectare)	0.147
51	32	Private	Agriculture	0.9 (Hectare)	0.9
52	39/Min 1/Min 1/Min 1	Private	Agriculture	0.303 (Hectare)	0.303
53	39/Min 1/Min1/Min 2	Private	Agriculture	0.203 (Hectare)	0.203
54	39/Min 1/Min1/Min 3	Private	Agriculture	0.404 (Hectare)	0.404
55	4/14/Min 10	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
56	4/14/Min 11	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
57	4/14/Min 12	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
58	4/14/Min 13	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
59	4/14/Min 14	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
60	4/14/Min 15	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
61	4/14/Min 2	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
62	4/14/Min 3	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
63	4/14/Min 4	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
64	4/14/Min 5	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
65	4/14/Min 6	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
66	4/14/Min 7	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
67	4/14/Min 8	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
68	4/14/Min 9	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
69	41	Private	Agriculture	0.87 (Hectare)	0.87
70	42/1	Private	Agriculture	0.074 (Hectare)	0.074
71	42/2	Private	Agriculture	0.074 (Hectare)	0.074
72	42/3	Private	Agriculture	0.074 (Hectare)	0.074
73	43/Min 1/Min 1	Private	Agriculture	0.019 (Hectare)	0.019
74	43/Min 1/Min 2	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
75	43/Min 1/Min 4	Private	Agriculture	0.33 (Hectare)	0.33

76	43/Min 2	Private	Agriculture	0.101 (Hectare)	0.101
77	43/Min1/Min3	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
78	44	Private	Agriculture	0.89 (Hectare)	0.89
79	45/1	Private	Agriculture	0.536 (Hectare)	0.536
80	45/2	Private	Agriculture	0.524 (Hectare)	0.524
81	45/3	Private	Agriculture	0.524 (Hectare)	0.524
82	48/1	Private	Agriculture	0.101 (Hectare)	0.101
83	48/2	Private	Agriculture	0.435 (Hectare)	0.435
84	49	Private	Agriculture	0.354 (Hectare)	0.354
85	5/1/Min 1	Private	Agriculture	0.056 (Hectare)	0.056
86	5/1/Min 2	Private	Agriculture	0.56 (Hectare)	0.56
87	5/2	Private	Agriculture	0.111 (Hectare)	0.111
88	5/3	Private	Agriculture	0.111 (Hectare)	0.111
89	50/1	Private	Agriculture	0.405 (Hectare)	0.405
90	50/2,47	Private	Agriculture	1.354 (Hectare)	1.354
91	51	Private	Agriculture	0.283 (Hectare)	0.283
92	52/min 1	Private	Agriculture	0.238 (Hectare)	0.238
93	52/min 2	Private	Agriculture	0.238 (Hectare)	0.238
94	53	Private	Agriculture	0.091 (Hectare)	0.091
95	54	Private	Agriculture	0.658 (Hectare)	0.658
96	55/1	Private	Agriculture	0.405 (Hectare)	0.405
97	55/2	Private	Agriculture	0.202 (Hectare)	0.202
98	6	Private	Agriculture	0.364 (Hectare)	0.364
99	61	Private	Agriculture	0.385 (Hectare)	0.385
100	63	Private	Agriculture	1.214 (Hectare)	1.214

101	64/Min 2	Private	Agriculture	0.313 (Hectare)	0.313
102	64/Min1	Private	Agriculture	0.314 (Hectare)	0.314
103	65	Private	Agriculture	0.121 (Hectare)	0.121
104	66	Private	Agriculture	0.345 (Hectare)	0.345
105	67,68	Private	Agriculture	0.535 (Hectare)	0.535
106	7/1/Min 1	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
107	7/1/Min 2	Private	Agriculture	0.34 (Hectare)	0.34
108	7/2/Min1	Private	Agriculture	0.173 (Hectare)	0.173
109	7/2/Min2	Private	Agriculture	0.173 (Hectare)	0.173
110	7/2/Min3	Private	Agriculture	0.173 (Hectare)	0.173
111	7/2/Min4	Private	Agriculture	0.062 (Hectare)	0.062
112	7/3/Min 1	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
113	7/3/Min 2	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
114	70	Government	Nala	0.526 (Hectare)	0.526
115	71	Private	Agriculture	1.082 (Hectare)	1.082
116	74/1	Government	Gair Mumkin	0.567 (Hectare)	0.567
117	74/2	Private	Agriculture	2.124 (Hectare)	2.124
118	75	Private	Agriculture	0.658 (Hectare)	0.658
119	76/1	Private	Agriculture	0.177 (Hectare)	0.177
120	76/2/1	Private	Agriculture	0.059 (Hectare)	0.059
121	76/2/2	Private	Agriculture	0.59 (Hectare)	0.59
122	76/2/3	Private	Agriculture	0.59 (Hectare)	0.59
123	76/3	Private	Agriculture	0.177 (Hectare)	0.177
124	76/4	Private	Agriculture	0.177 (Hectare)	0.177
125	77	Government	Nala	0.426 (Hectare)	0.426
126	8/1	Private	Agriculture	0.161 (Hectare)	0.161

127	8/2	Private	Agriculture	0.162 (Hectare)	0.162
128	9	Private	Agriculture	0.495 (Hectare)	0.495
129	950/4	Government	Nala	0.253 (Hectare)	0.253
130	951/4	Government	Gair Mumkin	0.992 (Hectare)	0.992
Village: Rahimgarh					
1	380	Government	Charnoi	30.89 (Hectare)	30.89
2	381	Government	Charnoi	13.57 (Hectare)	13.57
3	382	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
4	384	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
5	393	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
6	394	Government	Charnoi	4.57 (Hectare)	4.57
Village: Sagor					
1	1	Government	Charagah	2.38 (Hectare)	2.38
Village: Saraspura					
1	139	Private	Agriculture	0.61 (Hectare)	0.61
2	140/1	Private	Agriculture	0.48 (Hectare)	0.48
3	140/2	Private	Agriculture	0.69 (Hectare)	0.69
4	157	Government	Gair Mumkin	4.81 (Hectare)	4.81
5	158	Government	Gair Mumkin	3.79 (Hectare)	3.79
6	160	Private	Agriculture	0.51 (Hectare)	0.51
7	162/1	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
8	162/2	Private	Agriculture	0.7 (Hectare)	0.7
9	163	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
10	166	Private	Agriculture	0.68 (Hectare)	0.68
11	167	Government	Gair Mumkin	0.15 (Hectare)	0.15
12	168	Private	Agriculture	0.46 (Hectare)	0.46
13	169	Private	Agriculture	0.67 (Hectare)	0.67
14	170	Private	Agriculture	0.87 (Hectare)	0.87
15	171	Private	Agriculture	0.45 (Hectare)	0.45
16	172	Government	Nala	0.255 (Hectare)	0.255
17	172	Government	Nala	2.55 (Hectare)	2.55
18	173	Government	Gair Mumkin	11.86 (Hectare)	11.86
19	175	Government	Gair Mumkin	2.34 (Hectare)	2.34

20	176/1/min 1	Private	Agriculture	1.7 (Hectare)	1.7
21	176/1/min 2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
22	176/2	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
23	177	Private	Agriculture	0.46 (Hectare)	0.46
24	178/ min 1	Private	Agriculture	0.83 (Hectare)	0.83
25	178/ min 2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
26	179/min 1	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
27	179/min 2	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
28	181	Private	Agriculture	0.85 (Hectare)	0.85
29	188/1	Private	Agriculture	2.15 (Hectare)	2.15
30	188/2	Government	Charnoi	1.11 (Hectare)	1.11
31	189	Government	Charnoi	2.15 (Hectare)	2.15
32	190	Government	Gair Mumkin	4.91 (Hectare)	4.91
33	30	Government	Rasta	1.84 (Hectare)	1.84
34	31	Government	Charnoi	14.68 (Hectare)	14.68
35	32	Government	Nala	1.01 (Hectare)	1.01
36	33	Government	Gair Mumkin	4.85 (Hectare)	4.85
37	34	Government	Rasta	0.67 (Hectare)	0.67
38	35	Government	Gair Mumkin	3.61 (Hectare)	3.61
39	36	Government	Gair Mumkin	4.37 (Hectare)	4.37
40	38	Government	Charnoi	5.34 (Hectare)	5.34
41	39	Government	Nala	0.7 (Hectare)	0.7
42	41	Government	Gair Mumkin	1.13 (Hectare)	1.13
43	42	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
44	43	Private	Agriculture	1.21 (Hectare)	1.21
45	44	Government	Gair Mumkin	0.59 (Hectare)	0.59
46	45	Government	Gair Mumkin	8.13 (Hectare)	8.13
Village: Sasar Pipliya					
1	132	Private	Agriculture	0.68 (Hectare)	0.68
2	133	Government	Gair Mumkin	0.28 (Hectare)	0.28
3	134	Government	Rasta	0.48 (Hectare)	0.48
4	139/2	Government	Gair Mumkin	19.91 (Hectare)	19.91
5	139/4	Government	Charagah	4.75 (Hectare)	4.75
6	158/1/1	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
7	158/1/13	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
8	158/1/15	Private	Agriculture	0.27 (Hectare)	0.27
9	158/1/16	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25

10	158/1/17	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
11	158/1/18	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
12	158/1/2	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
13	158/1/3	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
14	158/1/4	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
15	158/1/5	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
16	158/1/6	Private	Agriculture	0.9 (Hectare)	0.9
17	158/1/7	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
18	158/2	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
19	161	Private	Agriculture	1.11 (Hectare)	1.11
20	162	Government	Ch. Gair Mumkin	0.36 (Hectare)	0.36
21	163	Private	Agriculture	5.62 (Hectare)	5.62
22	168	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
23	169	Private	Agriculture	0.91 (Hectare)	0.91
24	170	Government	Aabadi	0.79 (Hectare)	0.79
25	171	Private	Agriculture	1.11 (Hectare)	1.11
26	173/1	Private	Agriculture	0.64 (Hectare)	0.64
27	175	Government	Nala	0.72 (Hectare)	0.72
28	176	Government	Ch. Gair Mumkin	0.04 (Hectare)	0.04
29	177	Government	Ch. Gair Mumkin	0.05 (Hectare)	0.05
30	178	Government	Ch. Gair Mumkin	0.35 (Hectare)	0.35
31	179	Government	Rasta	1.22 (Hectare)	1.22
32	212/1	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
33	212/2	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
34	212/3	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
35	212/4	Private	Agriculture	0.42 (Hectare)	0.42
36	215	Private	Agriculture	0.79 (Hectare)	0.79
37	216	Private	Agriculture	0.63 (Hectare)	0.63
38	217/1	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
39	217/2	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
40	217/3	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
41	218	Private	Agriculture	0.85 (Hectare)	0.85
42	219	Private	Agriculture	0.44 (Hectare)	0.44
43	220	Government	Well	0.02 (Hectare)	0.02
44	221	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
45	224	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
46	225	Private	Agriculture	0.38 (Hectare)	0.38
47	226	Private	Agriculture	0.28 (Hectare)	0.28

48	227	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
49	228	Government	Charnoi	0.31 (Hectare)	0.31
50	229	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
51	230	Private	Agriculture	1.01 (Hectare)	1.01
52	231	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
53	232	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
54	233	Private	Agriculture	0.39 (Hectare)	0.39
55	234	Government	Aabadi	0.52 (Hectare)	0.52
56	238	Private	Agriculture	0.31 (Hectare)	0.31
57	242	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
58	243	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
59	244	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
60	246	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
61	247	Private	Agriculture	0.78 (Hectare)	0.78
62	248	Private	Agriculture	0.46 (Hectare)	0.46
63	249	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
64	250/1	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
65	250/2	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
66	251	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
67	252	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
68	253	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
69	254	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
70	256/min 1	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
71	256/min 2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
72	258/1	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
73	259	Private	Agriculture	0.63 (Hectare)	0.63
74	260/2	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
75	260/3	Private	Agriculture	0.36 (Hectare)	0.36
76	262	Government	Non-Kabil kast	0.65 (Hectare)	0.65
77	263	Private	Agriculture	0.53 (Hectare)	0.53
78	263/295	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
79	263/296	Government	Well	0.03 (Hectare)	0.03
80	263/297/min 1	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
81	263/297/min 2	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
82	264/1	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
83	264/2	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
84	281	Government	Nala	0.97 (Hectare)	0.97
85	75	Government	Gair Mumkin	0.81 (Hectare)	0.81

86	76	Government	Rasta	0.21 (Hectare)	0.21
87	77	Private	Agriculture	2.11 (Hectare)	2.11
88	78/1	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
89	78/2	Private	Agriculture	0.47 (Hectare)	0.47
90	79	Private	Agriculture	0.28 (Hectare)	0.28
91	80	Private	Agriculture	0.31 (Hectare)	0.31
Village: Sedramata					
1	,13/1	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
2	,13/2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
3	,13/3	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
4	,13/4	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
5	,18/1	Private	Agriculture	0.53 (Hectare)	0.53
6	,18/2	Private	Agriculture	0.54 (Hectare)	0.54
7	,19/1	Private	Agriculture	0.55 (Hectare)	0.55
8	,19/2	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
9	10	Government	Charnoi	0.21 (Hectare)	0.21
10	11	Private	Agriculture	0.76 (Hectare)	0.76
11	14	Government	Gair Mumkin	0.05 (Hectare)	0.05
12	15	Government	Gair Mumkin	0.15 (Hectare)	0.15
13	16/min1	Private	Agriculture	0.28 (Hectare)	0.28
14	16/min2	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
15	17	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
16	20	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
17	21	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
18	22	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
19	23	Government	Gair Mumkin	0.55 (Hectare)	0.55
20	24	Government	Nala	0.28 (Hectare)	0.28
21	25	Private	Agriculture	3.2 (Hectare)	3.2
22	26	Private	Agriculture	1.45 (Hectare)	1.45
23	27	Private	Agriculture	0.75 (Hectare)	0.75
24	28	Private	Agriculture	1.2 (Hectare)	1.2
25	31	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
26	33	Private	Agriculture	1.08 (Hectare)	1.08
27	38	Government	Nala	0.96 (Hectare)	0.96
28	48/1	Government	Gair Mumkin	0.59 (Hectare)	0.59
29	48/2	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
30	48/3	Private	Agriculture	0.34 (Hectare)	0.34
31	49	Private	Agriculture	0.56 (Hectare)	0.56

32	50	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
33	53/1	Private	Agriculture	0.19 (Hectare)	0.19
34	53/2	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
35	54	Private	Agriculture	1.18 (Hectare)	1.18
36	55	Private	Agriculture	0.76 (Hectare)	0.76
37	56	Government	Gair Mumkin	0.29 (Hectare)	0.29
38	57	Private	Agriculture	0.62 (Hectare)	0.62
39	58	Government	Gair Mumkin	0.83 (Hectare)	0.83
40	59	Government	Rasta	0.35 (Hectare)	0.35
41	60	Government	Gair Mumkin	22.25 (Hectare)	22.25
42	61	Government	Charnoi	18.54 (Hectare)	18.54
43	62	Government	Agriculture	4.05 (Hectare)	4.05
44	68	Private	Agriculture	0.46 (Hectare)	0.46
45	69	Private	Agriculture	0.45 (Hectare)	0.45
46	70	Private	Agriculture	0.46 (Hectare)	0.46
47	71	Government	Rasta	0.03 (Hectare)	0.03
48	9	Government	Gair Mumkin	0.11 (Hectare)	0.11
Village: Surjani					
1	189/ min 1	Private	Agriculture	0.75 (Hectare)	0.75
2	189/ min 2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
3	190	Government	Charnoi	0.4 (Hectare)	0.4
4	192/ min 1/min 1	Private	Agriculture	1.52 (Hectare)	1.52
5	192/ min 1/min 2/min 1	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
6	192/ min 1/min2/ min 2	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
7	192/ min 2/min 2/min 1	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
8	192/ min 2/min 2/min 2	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
9	192/ min2/min 1	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
10	193	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
11	194/min1/min1/min1	Private	Agriculture	1.34 (Hectare)	1.34
12	194/min1/min1/min2	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
13	194/min1/min1/min3	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
14	194/min1/min1/min4	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
15	194/min1/min2/min1	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
16	194/min1/min2/min2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
17	194/min2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4

18	195	Government	Nala	0.23 (Hectare)	0.23
19	196	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
20	197	Private	Agriculture	3.64 (Hectare)	3.64
21	198/1	Private	Agriculture	1.15 (Hectare)	1.15
22	198/2	Private	Agriculture	2.01 (Hectare)	2.01
23	201	Government	Nala	0.5 (Hectare)	0.5
24	207/2	Private	Agriculture	0.86 (Hectare)	0.86
25	257	Government	Nala	0.28 (Hectare)	0.28
26	258	Government	Charnoi	0.58 (Hectare)	0.58
27	469	Private	Agriculture	1.75 (Hectare)	1.75
28	474	Private	Agriculture	0.9 (Hectare)	0.9
Village: Titrod					
1	100	Government	Charnoi	0.6 (Hectare)	0.6
2	103	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
3	104	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
4	105	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
5	1054/255	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
6	1055/255	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
7	1057/263	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
8	1058/263	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
9	106	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
10	107	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
11	109	Private	Agriculture	0.8 (Hectare)	0.8
12	110	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
13	111	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
14	112	Private	Agriculture	0.81 (Hectare)	0.81
15	113	Private	Agriculture	1.99 (Hectare)	1.99
16	114	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
17	115	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
18	116	Private	Agriculture	0.93 (Hectare)	0.93
19	137	Private	Agriculture	0.54 (Hectare)	0.54
20	138	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
21	139	Government	Charnoi	0.2 (Hectare)	0.2
22	140	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
23	141	Private	Agriculture	0.73 (Hectare)	0.73
24	142	Private	Agriculture	0.7 (Hectare)	0.7
25	207/1	Government	Charnoi	5.22 (Hectare)	5.22
26	207/2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4

27	207/3	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
28	207/4	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
29	207/5	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
30	208	Government	Talai	1.49 (Hectare)	1.49
31	211/1	Government	Kabil kast	0.72 (Hectare)	0.72
32	211/2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
33	212	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
34	213	Private	Agriculture	0.82 (Hectare)	0.82
35	214	Private	Agriculture	0.58 (Hectare)	0.58
36	215	Private	Agriculture	0.47 (Hectare)	0.47
37	216/1	Government	Charnoi	0.05 (Hectare)	0.05
38	216/2	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
39	217	Government	Talai	0.15 (Hectare)	0.15
40	218	Government	Talai	0.2 (Hectare)	0.2
41	219	Government	Talai	0.14 (Hectare)	0.14
42	220	Government	Kabil kast	0.2 (Hectare)	0.2
43	221	Private	Agriculture	0.26 (Hectare)	0.26
44	222	Government	Nala	0.16 (Hectare)	0.16
45	223	Private	Agriculture	0.74 (Hectare)	0.74
46	224	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
47	225	Government	Charnoi	0.36 (Hectare)	0.36
48	226	Government	Charnoi	0.06 (Hectare)	0.06
49	227	Government	Charnoi	0.35 (Hectare)	0.35
50	228	Private	Agriculture	1.25 (Hectare)	1.25
51	229	Private	Agriculture	1.01 (Hectare)	1.01
52	230	Private	Agriculture	0.88 (Hectare)	0.88
53	232/1	Private	Agriculture	1 (Hectare)	1
54	232/2	Government	charnoi	4.09 (Hectare)	4.09
55	232/3	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
56	240	Government	Nala	0.72 (Hectare)	0.72
57	242	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
58	251/1	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
59	251/2	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
60	252	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
61	253	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
62	254	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
63	255	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
64	256	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15

65	257	Private	Agriculture	0.38 (Hectare)	0.38
66	258min1	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
67	258min2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
68	259min1	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
69	259min2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
70	260	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
71	261	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
72	262	Private	Agriculture	0.27 (Hectare)	0.27
73	263	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
74	264	Private	Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
75	265	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
76	266	Government	Charnoi	1.74 (Hectare)	1.74
77	267	Private	Agriculture	0.31 (Hectare)	0.31
78	268	Private	Agriculture	0.9 (Hectare)	0.9
79	271	Government	Charnoi	0.11 (Hectare)	0.11
80	272	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
81	273	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
82	274	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
83	275	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
84	276	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
85	277	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
86	278	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
87	279	Government	Rasta	0.12 (Hectare)	0.12
88	280	Government	Rasta	0.07 (Hectare)	0.07
89	281/1	Private	Agriculture	0.38 (Hectare)	0.38
90	281/2	Private	Agriculture	0.38 (Hectare)	0.38
91	281/3	Private	Agriculture	0.37 (Hectare)	0.37
92	35	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
93	36/1	Private	Agriculture	1.7 (Hectare)	1.7
94	36/2	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
95	40	Government	Rasta	0.4 (Hectare)	0.4
96	403	Private	Agriculture	1.12 (Hectare)	1.12
97	404	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
98	405	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
99	406/1	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
100	406/2	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
101	407	Private	Agriculture	0.45 (Hectare)	0.45
102	408	Private	Agriculture	0.91 (Hectare)	0.91

103	409	Private	Agriculture	0.45 (Hectare)	0.45
104	410/1	Private	Agriculture	0.55 (Hectare)	0.55
105	410/2	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
106	410/3	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
107	410/4	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
108	411	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
109	412/1	Private	Agriculture	0.38 (Hectare)	0.38
110	412/2	Private	Agriculture	0.88 (Hectare)	0.88
111	413	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
112	414/1	Private	Agriculture	0.39 (Hectare)	0.39
113	414/2	Private	Agriculture	0.38 (Hectare)	0.38
114	415	Private	Agriculture	0.38 (Hectare)	0.38
115	416	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
116	417	Private	Agriculture	0.19 (Hectare)	0.19
117	44	Private	Agriculture	1.1 (Hectare)	1.1
118	45	Private	Agriculture	1.01 (Hectare)	1.01
119	46	Private	Agriculture	0.47 (Hectare)	0.47
120	47	Government	Charnoi	0.87 (Hectare)	0.87
121	48	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
122	49	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
123	491	Government	Rasta	0.06 (Hectare)	0.06
124	493	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
125	493/1	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
126	493/2	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
127	493/3	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
128	493/4	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
129	494	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
130	495	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
131	496	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
132	497	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
133	498	Private	Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
134	499	Private	Agriculture	0.28 (Hectare)	0.28
135	50	Government	Charnoi	0.8 (Hectare)	0.8
136	500	Private	Agriculture	0.65 (Hectare)	0.65
137	501min1	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
138	501min2	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
139	502/1	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
140	502/2	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08

141	502/3	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
142	503/1	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
143	503/2	Private	Agriculture	0.13 (Hectare)	0.13
144	504	Private	Agriculture	0.28 (Hectare)	0.28
145	505	Private	Agriculture	0.9 (Hectare)	0.9
146	52	Government	Charnoi	0.55 (Hectare)	0.55
147	53	Government	Charnoi	0.2 (Hectare)	0.2
148	54	Government	Charnoi	1.9 (Hectare)	1.9
149	55min1	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
150	55min2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
151	56	Government	Nala	0.1 (Hectare)	0.1
152	562	Government	Nala	1.6 (Hectare)	1.6
153	57/min1/min1/min1	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
154	57/min1/min1/min2	Private	Agriculture	1.05 (Hectare)	1.05
155	57/min1/min2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
156	57/min1/min3	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
157	57/min2	Private	Agriculture	0.42 (Hectare)	0.42
158	57/min3	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
159	58/min1/min1/min1	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
160	58/min1/min1/min2	Private	Agriculture	0.3 (Hectare)	0.3
161	58/min1/min2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
162	58/min2/min1/min1	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
163	58/min2/min1/min2	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
164	58/min2/min2	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
165	59	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
166	60	Private	Agriculture	0.55 (Hectare)	0.55
167	61	Private	Agriculture	0.55 (Hectare)	0.55
168	62	Private	Agriculture	0.78 (Hectare)	0.78
169	63	Government	Nala	1.55 (Hectare)	1.55
170	73	Private	Agriculture	0.38 (Hectare)	0.38
171	74	Private	Agriculture	0.37 (Hectare)	0.37
172	75	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
173	76	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
174	77	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
175	78	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
176	79	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
177	80	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
178	81	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09

179	82	Government	Rasta	0.19 (Hectare)	0.19
180	83	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
181	95	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
182	96	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
183	97min1	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
184	97min2	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
185	98	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
186	99	Government	Nala	0.46 (Hectare)	0.46
Taluk: Suwasara					
Village: Dhandi					
1	128	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
2	129	Private	Parat	0.88 (Hectare)	0.88
3	130	Government	Charnoi	0.48 (Hectare)	0.48
4	131/1	Government	Charnoi	0.36 (Hectare)	0.36
5	131/2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
6	131/3	Private	Agriculture	0.6 (Hectare)	0.6
7	131/4	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
8	131/5	Private	Agriculture	0.75 (Hectare)	0.75
9	134	Private	Agriculture	1.07 (Hectare)	1.07
10	135/1	Private	Agriculture	0.66 (Hectare)	0.66
11	135/2	Government	Charnoi	1 (Hectare)	1
12	136	Government	Charnoi	0.26 (Hectare)	0.26
13	137	Private	Agriculture	0.39 (Hectare)	0.39
14	138	Private	Agriculture	0.87 (Hectare)	0.87
15	139	Private	Agriculture	0.29 (Hectare)	0.29
16	143	Private	Agriculture	0.37 (Hectare)	0.37
17	144	Private	Agriculture	0.37 (Hectare)	0.37
18	145	Private	Agriculture	1.16 (Hectare)	1.16
19	146	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
20	159	Private	Agriculture	0.58 (Hectare)	0.58
21	160	Government	Charnoi	1.17 (Hectare)	1.17
22	161	Private	Agriculture	0.76 (Hectare)	0.76
23	171	Private	Agriculture	0.54 (Hectare)	0.54
24	172	Private	Agriculture	0.51 (Hectare)	0.51
25	174	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
26	175	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
27	176	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
28	177	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06

29	179/min 1	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
30	179/min 2	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
31	180	Private	Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
32	181	Private	Agriculture	0.42 (Hectare)	0.42
33	182	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
34	183	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
35	184	Private	Agriculture	0.43 (Hectare)	0.43
36	185	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
37	186	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
38	192/4	Private	Agriculture	0.15 (Hectare)	0.15
39	193	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
40	194	Government	Nala	0.65 (Hectare)	0.65
41	195	Private	Agriculture	0.63 (Hectare)	0.63
42	196	Private	Agriculture	0.23 (Hectare)	0.23
43	197	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
44	198	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
45	199	Private	Agriculture	0.27 (Hectare)	0.27
46	200	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
47	202/min 1	Private	Agriculture	0.17 (Hectare)	0.17
48	202/min 2	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
49	203/min 1	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
50	203/min 2	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
51	204	Private	Agriculture	0.25 (Hectare)	0.25
52	205	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
53	206	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
54	207	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
55	208	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
56	209	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
57	340	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
58	341	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
59	342	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
60	344	Private	Agriculture	0.36 (Hectare)	0.36
61	356	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
62	357	Private	Agriculture	0.45 (Hectare)	0.45
63	359/1	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
64	359/2	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
65	393/1	Private	Agriculture	0.64 (Hectare)	0.64
66	401/1	Government	Kabil kast	0.03 (Hectare)	0.03

67	401/2	Government	Kabil kast	0.1 (Hectare)	0.1
68	401/3	Private	Agriculture	0.48 (Hectare)	0.48
69	401/4	Government	Charnoi	0.87 (Hectare)	0.87
70	402	Government	Charnoi	1.3 (Hectare)	1.3
71	403	Private	Agriculture	2.24 (Hectare)	2.24
72	404/1	Private	Agriculture	0.83 (Hectare)	0.83
73	404/2	Private	Agriculture	0.46 (Hectare)	0.46
74	421	Private	Agriculture	0.41 (Hectare)	0.41
75	422/1	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
76	422/2	Private	Agriculture	0.44 (Hectare)	0.44
77	423	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
78	425	Private	Agriculture	0.52 (Hectare)	0.52
79	427	Private	Agriculture	0.65 (Hectare)	0.65
80	428	Private	Agriculture	0.33 (Hectare)	0.33
81	429/min 1	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
82	429/min 2	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
83	430	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
84	431	Private	Agriculture	0.42 (Hectare)	0.42
85	432	Private	Agriculture	0.21 (Hectare)	0.21
86	433	Government	Charnoi	0.68 (Hectare)	0.68
87	434	Private	Agriculture	0.91 (Hectare)	0.91
88	435	Private	Agriculture	0.76 (Hectare)	0.76
89	436	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
90	437	Private	Agriculture	0.22 (Hectare)	0.22
91	438	Private	Agriculture	1.7 (Hectare)	1.7
92	439	Private	Agriculture	0.5 (Hectare)	0.5
93	440	Private	Agriculture	0.61 (Hectare)	0.61
94	441	Government	Kheda	0.22 (Hectare)	0.22
95	442	Private	Agriculture	0.33 (Hectare)	0.33
96	443	Private	Agriculture	0.33 (Hectare)	0.33
97	444	Private	Agriculture	0.33 (Hectare)	0.33
98	447	Private	Agriculture	0.24 (Hectare)	0.24
99	448	Private	Agriculture	0.87 (Hectare)	0.87
Total				1,453.7661	1,453.7661

[F. No. NHA/PIU-RTM/BM/DVE-MP/2018/LA/3A7]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.